

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 20] नई दिल्ली, शनिवार, मई 16—मई 22, 2015 (वैशाख 26, 1937)

No. 20] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 16—MAY 22, 2015 (VAISAKHA 26, 1937)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the
Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 मई 2015

रक्षा (एम एस)

सं. 109, दिनांक 27 अप्रैल 2015—भारत के माननीय राष्ट्रपति अपने अवैतनिक वैयक्तिक स्टाफ में 01 जनवरी, 2015 से निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :-

अवैतनिक (वायु) ए.डी.सी

1. एयर मार्शल पी.पी.रेड्डी, वा.मे. (15008) एफ (पी)

रेवती रमन

अवर सचिव

थल सेना विभाग

सं. 110, दिनांक 27 अप्रैल 2015—थल सेना अनुदेश 15/79 व उसमें जारी संशोधनों के अर्न्तगत राष्ट्रपति 05 वर्ष की अवधि के लिए सहर्ष निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं:-

नियमित सेना
सैनिक दन्त चिकित्सा कोर
(अल्पकालीन कमीशन)
कैप्टन के पद पर (परख पर)

डी एस-12469एच कप्तान अंकुर ठकराल — 18-05-2012

वेतन और पदोन्नती के लिए ज्येष्ठता 18-11-2008 से दी जाती हैं । इसमें 36 माह एमडीएस की डिग्री होने तथा 06 माह अस्पताल में नियुक्ति के लिए दी गई ज्येष्ठता भी सम्मिलित है, जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी ।

22 फरवरी 2014 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में जहाँ तक इसका संबंध उपयुक्त अफसर से है, रद्द किया जाता है ।

एच एस संधू
ब्रिगे.
डीडीजीडीएस (पी)

सेना शाखा

सं० 111, दिनांक 27 अप्रैल 2014--राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों की सहर्ष नियुक्ति करते हैं :-

प्रादेशिक सेना
प्रादेशिक कमीशन
लै० बनाया जाता है

जय उपाध्याय	(टीए-42938)	(इन्फैन्ट्री)	30 अगस्त 2014
हरतेज सिंह नानर	(टीए-42939)	(इन्फैन्ट्री)	01 सितम्बर 2014
मानमिंदर सिंह बसीन	(टीए-42940)	(इन्फैन्ट्री)	03 सितम्बर 2014
मालवे चिनमय सतीश	(टीए-42941)	(इन्फैन्ट्री)	04 सितम्बर 2014
संजय मान	(टीए-42942)	(इन्फैन्ट्री)	08 सितम्बर 2014
अनीश अवस्थी	(टीए-42945)	(इन्फैन्ट्री)	30 अगस्त 2014
चेतन शर्मा	(टीए-42946)	(इन्फैन्ट्री)	29 सितम्बर 2014
प्रगीत कुमार	(टीए-42947)	(इन्फैन्ट्री)	25 अक्टूबर 2014
अंगद सिंह सोडी	(टीए-42948)	(इन्फैन्ट्री)	20 अक्टूबर 2014
श्रीनिवास राव	(टीए-42949)	(इन्फैन्ट्री)	24 अक्टूबर 2014
राहुल राठी	(टीए-42951)	(इन्फैन्ट्री)	13 नवम्बर 2014
साहिल चोपडा	(टीए-42955)	(इन्फैन्ट्री)	17 नवम्बर 2014
शादाब जमाल	(टीए- 42954)	(इन्जीनियर टीए)	07 अप्रैल 2014
गौतम कुमार	(टीए- 42950)	(इन्जीनियर टीए)	10 नवम्बर 2014
अमित गुप्ता	(टीए- 42952)	(इन्जीनियर टीए)	20 जनवरी 2014
दीपक सदाशिव खोट	(टीए- 42953)	(इन्जीनियर टीए)	20 जनवरी 2014

भारत भूषण जोशी
अवर सचिव

एकीकृत रक्षा मुख्यालय (थल सेना)

सैन्य अभियन्ता सेवार्ये

सं.112, दिनांक 28 अप्रैल 2015—राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों को उनके सामने दर्शाये गये पदों पर सामने लिखि गई तिथियों से सहर्ष नियुक्त करते हैं:-

क्रम सं.	एम.ई.एस. सं.	पद	नाम श्री/श्रीमती/सुश्री	तिथि
1	2	3	4	5
1.	186065	प्रशासनिक अधिकारी-II	प्रसन्ना सुन्दरेश	20 जून 2012 (पूर्वाहन)
2	505816	प्रशासनिक अधिकारी-II	राजेश कुमार महाजन	08 नवम्बर 2011 (पूर्वाहन)
3.	191962	प्रशासनिक अधिकारी-II	आर.एस. माडांवत	29 जून 2011 (पूर्वाहन)
4.	310949	प्रशासनिक अधिकारी-II	जनम सिंह	16 अक्टूबर 2009 (पूर्वाहन)
5.	311253	प्रशासनिक अधिकारी-II	रणजीत सिंह वर्मा	16 अक्टूबर 2009 (पूर्वाहन)
6.	188666	प्रशासनिक अधिकारी-II	पी.आर. मरभल	09 मई 2007 (पूर्वाहन)
7.	129339	प्रशासनिक अधिकारी-II	एन. गोपाल	23 जुलाई 2011 (पूर्वाहन)
8.	502536	प्रशासनिक अधिकारी-II	अवतार कृष्ण कौल	01 नवम्बर 2011 (पूर्वाहन)
9.	311171	प्रशासनिक अधिकारी-II	सुशील कुमार कोरला	16 अक्टूबर 2009 (पूर्वाहन)
10.	134262	प्रशासनिक अधिकारी-II	एम.एस. शेकर	11 मार्च 2011 (पूर्वाहन)
11.	502439	प्रशासनिक अधिकारी-II	बन्सी लाल शर्मा	31 अक्टूबर 2011 (पूर्वाहन)
12.	503402	प्रशासनिक अधिकारी-II	प्रदीप मोहन परगाल	31 अक्टूबर 2011 (पूर्वाहन)
13.	311052	प्रशासनिक अधिकारी-II	जोगिन्द्र पाल	21 नवम्बर 2011 (पूर्वाहन)
14.	311305	प्रशासनिक अधिकारी-II	चुनीलाल शर्मा	16 अक्टूबर 2009 (पूर्वाहन)
15.	3410825	प्रशासनिक अधिकारी-II	सुखमीत सिंह	16 सितम्बर 2009 (पूर्वाहन)
16.	159539	प्रशासनिक अधिकारी-II	रमेश.एन. म्हकाले	17 दिसम्बर 2009 (पूर्वाहन)
17.	123410	प्रशासनिक अधिकारी-II	ए.जी. काजरोलकर	19 मई 2010 (पूर्वाहन)
18.	168497	प्रशासनिक अधिकारी-II	माल चन्द खटीक	11 जून 2011 (पूर्वाहन)
19.	311381	प्रशासनिक अधिकारी-II	राजेन्द्र सिंह मनहास	16 सितम्बर 2009 (पूर्वाहन)
20.	311315	प्रशासनिक अधिकारी-II	विजय कुमार	16 अक्टूबर 2009 (पूर्वाहन)
21.	311457	प्रशासनिक अधिकारी-II	मखन लाल कौल	27 जनवरी 2010 (पूर्वाहन)
22.	311314	प्रशासनिक अधिकारी-II	परसराम	16 अक्टूबर 2009 (पूर्वाहन)
23.	170514	प्रशासनिक अधिकारी-II	अजित सिंह गरचा	15 जनवरी 2011 (पूर्वाहन)
24.	168629	प्रशासनिक अधिकारी-II	राम गोपाल मीना	30 अप्रैल 2007 (पूर्वाहन)

1	2	3	4	5
25.	186855	प्रशासनिक अधिकारी-II	ए. के. छगन लाल पटेल	14 जून 2011 (पूर्वाहन)
26.	184814	प्रशासनिक अधिकारी-II	रूडाराम सुत्रकार	29 नवम्बर 2002 (पूर्वाहन)
27.	167825	प्रशासनिक अधिकारी-II	ए. के. चौवरिया	21 मार्च 2011(पूर्वाहन)
28.	310873	प्रशासनिक अधिकारी-II	सुमन सिक्का	04 अगस्त 2009 (पूर्वाहन)
29.	311071	प्रशासनिक अधिकारी-II	चरण जीत कौर	28 जून 2009 (पूर्वाहन)
30.	419861	प्रशासनिक अधिकारी-II	सुन्दर लाल कोष्टा	29 सितम्बर 2009 (पूर्वाहन)
31.	111755	प्रशासनिक अधिकारी-II	मिना नेवार	14 नवम्बर 2008 (पूर्वाहन)
32.	181495	प्रशासनिक अधिकारी-II	के. वी. लक्ष्मी कुमारी	21 जून 2012 (पूर्वाहन)
33.	170373	प्रशासनिक अधिकारी-II	सी. सुब्रमन्यम	23 जुलाई 2012 (पूर्वाहन)
34.	368090	प्रशासनिक अधिकारी-II	के तकचन	22 जून 2012 (पूर्वाहन)
35.	505519	प्रशासनिक अधिकारी-II	केवल कृष्ण	31 अक्टूबर 2011 (अपराहन)
36.	448066	प्रशासनिक अधिकारी-II	सुनील कपुर	06 जून 2012 (पूर्वाहन)
37.	183237	प्रशासनिक अधिकारी-II	टी एस नारायना मूर्ति	09 जनवरी 2012 (पूर्वाहन)
38.	186123	प्रशासनिक अधिकारी-II	रमेश कुमार मीना	08 जून 2007 (पूर्वाहन)
39.	116851	प्रशासनिक अधिकारी-II	ए. के. अरविन्दावधन	09 जनवरी 2012 (पूर्वाहन)
40.	185004	प्रशासनिक अधिकारी-II	वी.वी. मुश्लीवरन नायर	07 जनवरी 2012 (पूर्वाहन)
41.	502213	प्रशासनिक अधिकारी-II	चरन दास	16 अक्टूबर 2009 ((पूर्वाहन)
42.	505516	प्रशासनिक अधिकारी-II	मन मोहन	01 नवम्बर 2011 (पूर्वाहन)
43.	505361	प्रशासनिक अधिकारी-II	फारूक अहमद भट्ट	06 दिसम्बर 2011 (पूर्वाहन)
44.	311233	प्रशासनिक अधिकारी-II	कर्म सिंह राना	16 अक्टूबर 2009 (पूर्वाहन)
45.	186006	प्रशासनिक अधिकारी-II	रवीन्द्रन के	06 जनवरी 2012 (पूर्वाहन)
46.	366463	प्रशासनिक अधिकारी-II	के.एम. अब्रेहाम	23 जनवरी 2012 (पूर्वाहन)
47.	504771	प्रशासनिक अधिकारी-II	काली दास	27 फरवरी 2012 (पूर्वाहन)
48.	243376	प्रशासनिक अधिकारी-II	एन. तंपी	06 जनवरी 2012 (पूर्वाहन)
49.	167443	प्रशासनिक अधिकारी-II	ए. सीतारामन्	06 जनवरी 2012 (पूर्वाहन))
50.	170088	प्रशासनिक अधिकारी-II	डी. रविचन्द्रन	06 जनवरी 2012 (पूर्वाहन))
51.	129294	प्रशासनिक अधिकारी-II	एस.पी. सुन्दरामुरती	02 जनवरी 2012 (पूर्वाहन)

मन मोहन
अवर सचिव

थल सेना शाखा

सं. 113, दिनांक 28 अप्रैल 2015—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों की पदोन्नति करते हैं :—

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

सेना चिकित्सा कोर

एयर कमोडोर (व समकक्ष) से एयर वाईस मार्शल (व समकक्ष) के पद पर

सी के रंजन, वीएसएम — 01-08-14, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले
(एमआर-04162एच)(एएफ-16015के) काल्पनिक वरीयता 02-07-14 से दी जाती है ।

सर्ज कमोडोर (व समकक्ष) से सर्ज रियर एडमिरल (व समकक्ष) के पद पर

वी एस एस आर रयाली, वीएसएम — 10-10-14, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले
(एमआर-04343एन)(75271डब्ल्यू) काल्पनिक वरीयता 03-10-14 से दी जाती है ।

ग्रुप कैप्टन (व समकक्ष) से एयर कमोडोर (व समकक्ष) के पद पर

राज सक्सेना — 02-06-14, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले
(एमआर-04774ए)(एएफ-17236एच) काल्पनिक वरीयता 03-04-14 से दी जाती है ।

सी एस ठाकुर — 21-07-14, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले
(एमआर-05036एच)(एएफ-17684एस) काल्पनिक वरीयता 01-06-14 से दी जाती है ।

वी आर दूबे — 14-07-14, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले
(एमआर-06190एन)(एएफ-18055के) काल्पनिक वरीयता 04-07-14 से दी जाती है ।

सर्ज कैप्टन (व समकक्ष) से सर्ज कमोडोर (व समकक्ष) के पद पर

आर आर जोशी — 21-07-14, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले
(एमआर-06104एक्स)(76272डब्ल्यू) काल्पनिक वरीयता 05-07-14 से दी जाती है ।

के आई मथार्ड — 05-07-14, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले
(एमआर-04779वाई)(75298एफ) काल्पनिक वरीयता 08-05-14 से दी जाती है ।

विंग कमांडर (व समकक्ष) से ग्रुप कैप्टन (व समकक्ष) के पद पर

एस पी सिंह — 07-02-14, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले
(एमआर-06515डब्ल्यू)(एफ-22348एन) काल्पनिक वरीयता 11-09-12 से दी जाती है ।

एस शर्मा — 07-04-14, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले
(एमआर-06574एच)(एफ-28890बी) काल्पनिक वरीयता 05-07-13 से दी जाती है ।

आर गंगावटीकर — 10-02-14, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले
(एमआर-06353डब्ल्यू)(एफ-21800एफ) काल्पनिक वरीयता 02-01-14 से दी जाती है ।

जी एस भाटिया — 10-02-14, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले
(एमआर-06618पी)(एफ-23059एफ) काल्पनिक वरीयता 07-01-14 से दी जाती है ।

सर्ज कमांडर (व समकक्ष) से सर्ज कैप्टन (व समकक्ष) के पद पर

जे चौधुरी — 24-01-14, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले
(एमआर-07158एल)(75574एच) काल्पनिक वरीयता 03-06-13 से दी जाती है ।

डी के साहू — 07-04-14, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले
(एमआर-06798एच)(75581जेड) काल्पनिक वरीयता 08-03-14 से दी जाती है ।

डी गौतम (एमआर-07657ए)(75610आर)	—	16-05-14, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01-05-14 से दी जाती है ।
ए के यादव (एमआर-06614वाई)(75564के)	—	24-01-14, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 05-10-13 से दी जाती है ।
पी पंडा (एमआर-07607पी)(75591वाई)	—	07-08-14, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 04-07-14 से दी जाती है ।
के चैटर्जी (एमआर-06271एन)(75522आर)	—	13-02-13, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 12-02-13 से दी जाती है ।

धर्मवीर सिंह
ब्रिगे.

उप महानिदेशक स.से.चि.से.(मा.सं.)

राष्ट्रीय कैडेट कोर/एम एस(डी)

सं० 114, दिनांक 28 अप्रैल 2015—राष्ट्रपति निम्नलिखित भूतपूर्व सहयोगी एनसीसी अफसरों को उनके नाम के सामने दी गई तारीखों से राष्ट्रीय कैडेट कोर में मेजर/लेफ्टिनेंट/सब लेफ्टिनेंट का अवैतनिक रैंक प्रदान करते हैं:-

क्रम सं०	एनसीसी नं० रैंक, नाम तथा निदेशालय	अवैतनिक रैंक	अवैतनिक रैंक प्रदान करने की तारीख
1	एनसीसी/106029, चीफ आफिसर, एस यू राठौड़ एनसीसी निदेशालय, के एवं जी	लेफ्टिनेंट	31.05.2013
2	एनसीसीजे/106110, चीफ आफिसर, ए आर चन्द्रकांत एनसीसी निदेशालय, के एवं जी	सब लेफ्टिनेंट	31.08.2013
3	एनसीसी/22040, मेजर, एच नारायणप्पा एनसीसी निदेशालय, के एवं जी	मेजर	05.04.2013

डी एम गुप्ता
ब्रिगे.

उप महानिदेशक (एम एस)

थल सेना विभाग

सं. 115, दिनांक 29 अप्रैल 2015—थलसेना अनुदेश 37/78 व उसमें जारी संशोधनों के अर्न्तगत राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं:-

नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

(स्थाई कमीशन)

ले० कर्नल से कर्नल (टी एस) के पद पर

निजी संख्या	रैंक	नम	पदोन्नति की तिथि
डी आर-10429एच	ले कर्नल	ए के झा	11-10-2014
डी आर-10395ए	ले कर्नल	(सुश्री) गौरी सरवटे	16-12-2014

मेजर से ले0 कर्नल के पद पर

निजी संख्या	पद	नाम	टिप्पणी
डी आर-10597एफ	मेजर	विजय कुमार आर	13-09-2014
डी आर-10554एम	मेजर	(सुश्री) पारूल लोहरा	17-10-2014
डी आर-10599एम	मेजर	दिनेश चन्द्र चौधरी	09-12-2014

थलसेना अनुदेश 15/79 व उसमें जारी संशोधनों के अर्न्तगत राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं:-

नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

(अस्थाई कमीशन)

मेजर से ले0 कर्नल के पद पर

निजी संख्या	पद	नाम	टिप्पणी
डी एस-12098एल	मेजर	(सुश्री) नेहा गुप्ता	04-10-2014
डी एस-12099एन	मेजर	कृष्णा कुमार नायर एन जी	10-10-2014
डी आर-12148एल	मेजर	दीपू जैकब	16-10-2014
डी एस-12104एन	मेजर	(सुश्री) जसवीर कौर	06-12-2014

कैप्टन से मेजर के पद पर

डी एस-12430डब्ल्यू	कप्तान	नितिन यादव	10-08-2012
--------------------	--------	------------	------------

एच एस संधू
ब्रिग
डीडीजीडीएस (पी)

सं. 116, दिनांक 29 अप्रैल 2015—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित एम एन एस अधिकारी को उनके नाम के समक्ष दर्शायी गयी तिथि से पदोन्नति प्रदान करते हैं -

नियमित सेना

मिलिट्री नर्सिंग सेवा

स्थायी कमीशन

ले. कर्नल (समयमान) से ले. कर्नल (सेलेक्ट)

पद और नाम	व्यक्तिगत संख्या	पदोन्नति की तारीख
ले० कर्नल हरशरनजीत कौर	एन आर-18454 डब्ल्यू	20 अगस्त 2014
ले० कर्नल सांत्वना चौधरी	एन आर-18592 पी	25 अगस्त 2014
ले० कर्नल आर जयंती	एन आर-19012 के	22 सितंबर 2014

सुनीता कपूर
मेजर जनरल
अतिरिक्त महानिदेशक
(एम एन एस)

सं. 117, दिनांक 29 अप्रैल 2015—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित नियुक्तियां/पदोन्नतियां करते हैं:—

नियमित सेना

सेना आयुध कोर

पक्के सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार मेजर	ऐ टी	विजेन्द्र सिंह	जेसी 724013एच	01 जनवरी 2014
सूबेदार मेजर	ऐ टी	जगवीर सिंह	जेसी 724014एल	01 अप्रैल 2014

सूबेदार मेजर	ऐ टी	उत्पल दित्या जेना	जेसी 724136पी	01 जून 2014
सूबेदार मेजर	ऐ टी	मंजीत सिंह	जेसी 724222ए	01 सितंबर 2014
सूबेदार मेजर	ऐ टी	अर्जून सिंह चाहर	जेसी 724467डब्ल्यू	01 सितंबर 2014
सूबेदार मेजर	ऐ टी	राकेश कुमार शर्मा	जेसी 724492पी	01 अक्टूबर 2014
सूबेदार मेजर	ऐ टी	देव कुमार सिंह	जेसी 724668पी	01 दिसंबर 2014
सूबेदार मेजर	क्लर्क आई एम	सुखवीर सिंह	जेसी 725847एफ	01 फरवरी 2014
सूबेदार मेजर	क्लर्क एस डी	बहादुर सिंह कँवर	जेसी 725899एक्स	01 अप्रैल 2014
सूबेदार मेजर	क्लर्क एस डी	सथीन टी	जेसी 725917पी	01 मई 2014
सूबेदार मेजर	क्लर्क आई एम	हरी चन्द शाक्या	जेसी 726280एच	01 मई 2014
सूबेदार मेजर	क्लर्क एस डी	शमशेर सिंह	जेसी 726332एन	01 मई 2014
सूबेदार मेजर	क्लर्क एस डी	रविन्द्र कुमार ठाकुर	जेसी 726852वाई	01 जुलाई 2014
सूबेदार मेजर	क्लर्क एस डी	मदन सिंह बिजारनीयां	जेसी 726892ए	01 अगस्त 2014
सूबेदार मेजर	क्लर्क एस डी	विश्वा कुमार के	जेसी 726853एफ	01 अगस्त 2014
सूबेदार मेजर	क्लर्क एस डी	मो. हसीन नवाज प्रधान	जेसी 726872एम	01 अगस्त 2014
सूबेदार मेजर	क्लर्क आई एम	सुरेन्द्र प्रसाद राय	जेसी 727561एल	01 अगस्त 2014
सूबेदार मेजर	क्लर्क आई एम	धनश्याम	जेसी 727614वाई	01 अक्टूबर 2014
सूबेदार मेजर	क्लर्क एस डी	मेहर सिंह	जेसी 727615एफ	01 अक्टूबर 2014
सूबेदार मेजर	क्लर्क आई एम	मोहन कुमार	जेसी 727595वाई	01 अक्टूबर 2014
सूबेदार मेजर	क्लर्क एस डी	सुरेन्द्र सिंह	जेसी 727616के	01 नवम्बर 2014
सूबेदार मेजर	एस के टी एम टी	कनवर सिंह	जेसी 724734एम	01 फरवरी 2014
सूबेदार मेजर	एस के टी एम टी	ब्रज पाल सिंह	जेसी 724930एम	01 मई 2014
सूबेदार मेजर	एस के टी जी एस एंड सी	एल वेलूमनी	जेसी 725178एन	01 अगस्त 2014
सूबेदार मेजर	एस के टी जी एस एंड सी	ए मुरुगासामी	जेसी 725207एक्स	01 अक्टूबर 2014
सूबेदार मेजर	एस के टी जी एस एंड सी	उषा कान्त साबत	जेसी 725245एन	01 नवम्बर 2014
सूबेदार मेजर	एस के टी जी एस एंड सी	सत्या प्रकाश सिंह	जेसी 725250वाई	01 दिसम्बर 2014
सूबेदार मेजर	एस के टी जी एस एंड सी	अशोक कुमार दास	जेसी 725568डब्ल्यू	01 दिसम्बर 2014
सूबेदार मेजर	ड्राईवर एम टी	राम चन्द्र दुत	जेसी 728414पी	01 दिसम्बर 2014

सूबेदार मेजर	एस एच टी	घन श्याम त्रिपाठी	जेसी 728975के	01 नवम्बर 2014
सूबेदार मेजर	एस एच टी	शैक सरदार बाबू	जेसी 729013एम	01 नवम्बर 2014
सूबेदार मेजर	एस एच टी	नाग राजन	जेसी 729080एक्स	01 दिसम्बर 2014
सूबेदार मेजर	एस एच जी डी	के बाला सुब्रमनीयन	जेसी 728039पी	01 दिसम्बर 2014

पक्के सूबेदार के रैंक में

सूबेदार	ऐटी	राम कृपाल सिंह	जेसी 727710एन	01 जनवरी 2014
सूबेदार	ऐटी	काना राम ग्वाला	जेसी 727863एक्स	01 जनवरी 2014
सूबेदार	ऐटी	जगदीश चन्द्र	जेसी 727773डब्ल्यू	01 जनवरी 2014
सूबेदार	ऐटी	थीम्माप्पा गोडा	जेसी 727790डब्ल्यू	01 जनवरी 2014
सूबेदार	ऐटी	सुरेन्द्र मोहन चौधरी	जेसी 727874के	01 जनवरी 2014
सूबेदार	ऐटी	महेश कुमार उपाध्याय	जेसी 727988पी	01 फरवरी 2014
सूबेदार	ऐटी	कृष्णा कुमार	जेसी 727914ए	01 फरवरी 2014
सूबेदार	ऐटी	आर सी साहू	जेसी 727915एच	01 मार्च 2014
सूबेदार	ऐटी	पी के पान्डा	जेसी 727990एम	01 अप्रैल 2014
सूबेदार	ऐटी	एमडी नसीर अली	जेसी 728042पी	01 अप्रैल 2014
सूबेदार	ऐटी	गोतम बरुवा	जेसी 728427एम	01 मई 2014
सूबेदार	ऐटी	ओम प्रकाश	जेसी 727996एन	01 जून 2014
सूबेदार	ऐटी	बिरेन्द्र कुमार यादव	जेसी 727991पी	01 जून 2014
सूबेदार	ऐटी	जोसेफ मथई	जेसी 727993ए	01 जून 2014
सूबेदार	ऐटी	बृजेश कुमार विश्वकर्मा	जेसी 727994एच	01 जून 2014
सूबेदार	ऐटी	रविन्द्र कुमार ए	जेसी 727992एक्स	01 जून 2014
सूबेदार	ऐटी	शशि कुमार सीपी	जेसी 728100एन	01 जून 2014
सूबेदार	ऐटी	भुपेन्द्र सिंह	जेसी 727995एल	01 जुलाई 2014
सूबेदार	ऐटी	धरनी धर राउत	जेसी 728049वाई	01 अगस्त 2014
सूबेदार	ऐटी	मोहन लाल वर्मा	जेसी 728044ए	01 अगस्त 2014
सूबेदार	ऐटी	ईश्वर सिंह बुडानियां	जेसी 727989एक्स	01 सितंबर 2014
सूबेदार	ऐटी	निला माधब सथुवा	जेसी 728043एक्स	01 सितंबर 2014

सूबेदार	ऐटी	इन्द्रजीत	जेसी 728045एच	01 अक्टूबर 2014
सूबेदार	ऐटी	राज कुमार यादव	जेसी 728046एल	01 अक्टूबर 2014
सूबेदार	ऐटी	राजन के	जेसी 728047एन	01 अक्टूबर 2014
सूबेदार	ऐटी	सुरेश कुमार	जेसी 728048डब्ल्यू	01 नवम्बर 2014
सूबेदार	ऐटी	जोय इजे	जेसी 728053एफ	01 नवम्बर 2014
सूबेदार	ऐटी	बालगोविन्द गदारी	जेसी 728051डब्ल्यू	01 नवम्बर 2014
सूबेदार	ऐटी	विरेन्द्र कुमार राजभर	जेसी 728050एन	01 दिसम्बर 2014
सूबेदार	ऐटी	पंकज कुमार पांडेय	जेसी 728103एफ	01 दिसम्बर 2014
सूबेदार	क्लर्क एस डी	संतोष कुमार बी एस	जेसी 729147एल	01 जनवरी 2014
सूबेदार	क्लर्क आई एम	श्यामल कुमार रोय	जेसी 729187एम	01 जनवरी 2014
सूबेदार	क्लर्क आई एम	जगमाल सैनी	जेसी 729188पी	01 जनवरी 2014
सूबेदार	क्लर्क एस डी	घनवत गजानन बाजीराव	जेसी 729189एक्स	01 जनवरी 2014
सूबेदार	क्लर्क आई एम	रंजीत सिंह बिस्ट	जेसी 729190एम	01 जनवरी 2014
सूबेदार	क्लर्क एस डी	सी रवि कुमार	जेसी 729191पी	01 जनवरी 2014
सूबेदार	क्लर्क आई एम	नरायण दत्त	जेसी 729362डब्ल्यू	01 जनवरी 2014
सूबेदार	क्लर्क एस डी	एम मुरुगावेल	जेसी 729212ए	01 जनवरी 2014
सूबेदार	क्लर्क आई एम	मुनु स्वामी एस	जेसी 729213एच	01 जनवरी 2014
सूबेदार	क्लर्क आई एम	केसवन आर	जेसी 729214एल	01 जनवरी 2014
सूबेदार	क्लर्क आई एम	जीपी मोहन कुमार	जेसी 729215एन	01 जनवरी 2014
सूबेदार	क्लर्क आई एम	पठान अशरफ खॉन अहमद खॉन	जेसी 729216डब्ल्यू	01 जनवरी 2014
सूबेदार	क्लर्क आई एम	सर्वण सिंह	जेसी 729217वाई	01 जनवरी 2014
सूबेदार	क्लर्क आई एम	नरेन्द्र सिंह मिल	जेसी 729218एफ	01 जनवरी 2014
सूबेदार	क्लर्क आई एम	एन सुब्रमनी	जेसी 729363वाई	01 जनवरी 2014
सूबेदार	क्लर्क एस डी	अर्धेन्दु शेखर रॉय	जेसी 729251वाई	01 जनवरी 2014
सूबेदार	क्लर्क एस डी	जोयदेव पाल	जेसी 729252एफ	01 जनवरी 2014
सूबेदार	क्लर्क एस डी	हिमांगशु साहू	जेसी 729253के	01 जनवरी 2014

सूबेदार	क्लर्क आई एम	मनोज कुमार सामन्ता राय	जेसी 729254एम	01 जनवरी 2014
सूबेदार	क्लर्क आई एम	मोहम्मद इशत्याक अहमद	जेसी 729255पी	01 जनवरी 2014
सूबेदार	क्लर्क आई एम	प्रकाश चन्द्र साहू	जेसी 729283एफ	01 जनवरी 2014
सूबेदार	क्लर्क एस डी	किसन सिंह तोमर	जेसी 729256एक्स	01 जनवरी 2014
सूबेदार	क्लर्क एस डी	गणेश बहादुर	जेसी 729408एन	01 जनवरी 2014
सूबेदार	क्लर्क एस डी	ए डी विटठल	जेसी 729257ए	01 जनवरी 2014
सूबेदार	क्लर्क आई एम	बी नारायण जगन्नाथ	जेसी 729284के	01 जनवरी 2014
सूबेदार	क्लर्क आई एम	कृष्ण कुमार	जेसी 729259एल	01 जनवरी 2014
सूबेदार	क्लर्क आई एम	विजय कुमार	जेसी 729296वाई	01 जनवरी 2014
सूबेदार	क्लर्क आई एम	जसविर सिंह	जेसी 729297एफ	01 जनवरी 2014
सूबेदार	क्लर्क एस डी	तपन कुमार दत्त	जेसी 729115एच	01 फरवरी 2014
सूबेदार	क्लर्क आई एम	बलदेव सिंह	जेसी 729298के	01 फरवरी 2014
सूबेदार	क्लर्क एस डी	ननकु राम चौहान	जेसी 729301वाई	01 फरवरी 2014
सूबेदार	क्लर्क आई एम	राम निवास	जेसी 729302एफ	01 फरवरी 2014
सूबेदार	क्लर्क एस डी	हरिश सिंह	जेसी 729303के	01 फरवरी 2014
सूबेदार	क्लर्क एस डी	चन्द्रकांत कुमार	जेसी 729304एम	01 फरवरी 2014
सूबेदार	क्लर्क एस डी	होरी लाल	जेसी 729305पी	01 फरवरी 2014
सूबेदार	क्लर्क एस डी	अशोक पाल	जेसी 729446के	01 फरवरी 2014
सूबेदार	क्लर्क एस डी	शम्भु कुमार	जेसी 730061वाई	01 फरवरी 2014
सूबेदार	क्लर्क एस डी	गगन देव महतो	जेसी 729306एक्स	01 फरवरी 2014
सूबेदार	क्लर्क आई एम	मनोज कुमार पीके	जेसी 729308एच	01 फरवरी 2014
सूबेदार	क्लर्क आई एम	विजया कुमारन टी	जेसी 729364एफ	01 मार्च 2014
सूबेदार	क्लर्क आई एम	एस चन्द्र शेखर	जेसी 729365के	01 मार्च 2014
सूबेदार	क्लर्क आई एम	प्रमोद कुमार	जेसी 729311एच	01 मार्च 2014
सूबेदार	क्लर्क आई एम	जय शंकर उपाध्याय	जेसी 729312एल	01 मार्च 2014
सूबेदार	क्लर्क आई एम	प्रदीप कुमार सिंह	जेसी 729366एम	01 मार्च 2014
सूबेदार	क्लर्क आई एम	संतोष कुमार सिंह राठोड.	जेसी 729315वाई	01 मार्च 2014

सूबेदार	क्लर्क एस डी	सुधीर चन्द्रा बैद्य	जेसी 729317के	01 मार्च 2014
सूबेदार	क्लर्क आई एम	राठोड. रमेश बाबू सिंह	जेसी 729367पी	01 मार्च 2014
सूबेदार	क्लर्क आई एम	निम्बालकर गोपाल हरि राम	जेसी 729319पी	01 मार्च 2014
सूबेदार	क्लर्क आई एम	एस विक्रम धर्मा	जेसी 729368एक्स	01 मार्च 2014
सूबेदार	क्लर्क आई एम	गुरु प्रसाद	जेसी 729314डब्ल्यू	01 मार्च 2014
सूबेदार	क्लर्क आई एम	शंकर चक्रवर्ती	जेसी 729295डब्ल्यू	01 मार्च 2014
सूबेदार	क्लर्क एस डी	अफजल अली	जेसी 729409डब्ल्यू	01 मार्च 2014
सूबेदार	क्लर्क आई एम	बुरले कृष्णा राव	जेसी 729369ए	01 मार्च 2014
सूबेदार	क्लर्क एस डी	सुखशरन सिंह सेंगर	जेसी 729498ए	01 मार्च 2014
सूबेदार	क्लर्क आई एम	महेन्द्र सिंह यादव	जेसी 729370पी	01 मार्च 2014
सूबेदार	क्लर्क आई एम	राकेश चन्द्र	जेसी 729299एम	01 मार्च 2014
सूबेदार	क्लर्क एस डी	जी तमीज सेलवन	जेसी 729371एक्स	01 मार्च 2014
सूबेदार	क्लर्क आई एम	प्रमोद कुमार द्विवेदी	जेसी 729310ए	01 अप्रैल 2014
सूबेदार	क्लर्क एस डी	टी एच मनी बाबू सिंघा	जेसी 729372ए	01 अप्रैल 2014
सूबेदार	क्लर्क एस डी	दिनेश कुमार	जेसी 729318एम	01 अप्रैल 2014
सूबेदार	क्लर्क आई एम	निरमल शिवाजी नामदेव	जेसी 729320के	01 अप्रैल 2014
सूबेदार	क्लर्क आई एम	भैरुलाल लूहार	जेसी 729373एच	01 अप्रैल 2014
सूबेदार	क्लर्क आई एम	परस राम	जेसी 729322पी	01 अप्रैल 2014
सूबेदार	क्लर्क आई एम	जय भगवान शर्मा	जेसी 729374एल	01 अप्रैल 2014
सूबेदार	क्लर्क आई एम	महावीर सिंह	जेसी 729433एम	01 अप्रैल 2014
सूबेदार	क्लर्क आई एम	के श्रिनिवासलू	जेसी 729375एन	01 अप्रैल 2014
सूबेदार	क्लर्क आई एम	सुसाईनाथन ए	जेसी 729376डब्ल्यू	01 अप्रैल 2014
सूबेदार	क्लर्क एस डी	शिव कुमार शर्मा	जेसी 729410एल	01 अप्रैल 2014
सूबेदार	क्लर्क आई एम	श्याम लाल	जेसी 729411एन	01 अप्रैल 2014
सूबेदार	क्लर्क आई एम	कुलविनदर सिंह	जेसी 729428एफ	01 अप्रैल 2014
सूबेदार	क्लर्क आई एम	रामोतार	जेसी 729414एफ	01 अप्रैल 2014
सूबेदार	क्लर्क आई एम	राम निवास	जेसी 729434पी	01 अप्रैल 2014

सूबेदार	क्लर्क आई एम	सत्यपाल	जेसी 729415के	01 अप्रैल 2014
सूबेदार	क्लर्क आई एम	महेन्द्र सिंह	जेसी 729416एम	01 अप्रैल 2014
सूबेदार	क्लर्क एस डी	हितेश कुमार	जेसी 729417पी	01 अप्रैल 2014
सूबेदार	क्लर्क आई एम	ज्योतिन्द्र मोहन साह	जेसी 729639के	01 अप्रैल 2014
सूबेदार	क्लर्क आई एम	ओम प्रकाश	जेसी 729418एक्स	01 अप्रैल 2014
सूबेदार	क्लर्क एस डी	तिलक राज	जेसी 729429के	01 अप्रैल 2014
सूबेदार	क्लर्क आई एम	नरेश आजाद	जेसी 729430वाई	01 अप्रैल 2014
सूबेदार	क्लर्क एस डी	रामफल सिंह	जेसी 729435एक्स	01 अप्रैल 2014
सूबेदार	क्लर्क आई एम	सुनील कुमार	जेसी 729436ए	01 अप्रैल 2014
सूबेदार	क्लर्क एस डी	हरमेल सिंह	जेसी 729437एच	01 अप्रैल 2014
सूबेदार	क्लर्क आई एम	राजेन्द्र सिंह	जेसी 729438एल	01 मई 2014
सूबेदार	क्लर्क आई एम	मोहन साह	जेसी 729439एन	01 मई 2014
सूबेदार	क्लर्क एस डी	शीशराम	जेसी 729440एच	01 मई 2014
सूबेदार	क्लर्क आई एम	राम प्रताप सिंह	जेसी 729441एल	01 मई 2014
सूबेदार	क्लर्क आई एम	अभय नरेश	जेसी 729443डब्ल्यू	01 मई 2014
सूबेदार	क्लर्क आई एम	इन्द्रजीत यादव	जेसी 729444वाई	01 मई 2014
सूबेदार	क्लर्क आई एम	दिनेश कुमार दिवाकर	जेसी 729445एफ	01 मई 2014
सूबेदार	क्लर्क आई एम	सोमरु राम	जेसी 729447एम	01 मई 2014
सूबेदार	क्लर्क आई एम	चन्द्र बीर सिंह	जेसी 729448पी	01 मई 2014
सूबेदार	क्लर्क आई एम	ललन यादव	जेसी 729450एम	01 मई 2014
सूबेदार	क्लर्क आई एम	प्रदीप कुमार प्रधान	जेसी 729451पी	01 मई 2014
सूबेदार	क्लर्क आई एम	उज्जल कुमार घोष	जेसी 729452एक्स	01 मई 2014
सूबेदार	क्लर्क आई एम	अनिरुध प्रसाद	जेसी 729501पी	01 मई 2014
सूबेदार	क्लर्क आई एम	चन्द्र प्रकाश	जेसी 729502एक्स	01 मई 2014
सूबेदार	क्लर्क आई एम	श्री हरी परीडा	जेसी 729640वाई	01 मई 2014
सूबेदार	क्लर्क आई एम	शुशान्त कुमार मोहन्ती	जेसी 729503ए	01 मई 2014
सूबेदार	क्लर्क आई एम	महेश्वर दास	जेसी 729504एच	01 मई 2014

सूबेदार	क्लर्क आई एम	संतोष कुमार दास	जेसी 729602एच	01 मई 2014
सूबेदार	क्लर्क आई एम	अजय कुमार सतपथी	जेसी 729505एल	01 जून 2014
सूबेदार	क्लर्क आई एम	नन्द राम	जेसी 729506एन	01 जून 2014
सूबेदार	क्लर्क आई एम	लेख राम	जेसी 729507डब्ल्यू	01 जून 2014
सूबेदार	क्लर्क आई एम	बावने रामहरी भगवान	जेसी 729508वाई	01 जून 2014
सूबेदार	क्लर्क आई एम	विरेन्द्र सिंह	जेसी 729509एफ	01 जून 2014
सूबेदार	क्लर्क आई एम	योगेन्द्र कुमार उपाध्याय	जेसी 729510डब्ल्यू	01 जून 2014
सूबेदार	क्लर्क आई एम	मंगत राम	जेसी 729511वाई	01 जून 2014
सूबेदार	क्लर्क आई एम	रोहताश	जेसी 729513के	01 जून 2014
सूबेदार	क्लर्क आई एम	प्यारे लाल	जेसी 729514एम	01 जून 2014
सूबेदार	क्लर्क एस डी	गोपाल सिंह चुडावत	जेसी 729515पी	01 जून 2014
सूबेदार	क्लर्क एस डी	घेवर राम थोरी	जेसी 729516एक्स	01 जून 2014
सूबेदार	क्लर्क एस डी	छेनु खान	जेसी 729517ए	01 जून 2014
सूबेदार	क्लर्क एस डी	राजेश सिंह कुशवाह	जेसी 729518एच	01 जून 2014
सूबेदार	क्लर्क आई एम	नृपेश कुमार यादव	जेसी 729557एफ	01 जून 2014
सूबेदार	क्लर्क आई एम	टी गोविन्द साधु	जेसी 729519एल	01 जून 2014
सूबेदार	क्लर्क एस डी	आशुतोष कुमार सिंह	जेसी 729558के	01 जून 2014
सूबेदार	क्लर्क आई एम	रामवीर सिंह	जेसी 729520ए	01 जून 2014
सूबेदार	क्लर्क आई एम	सेवा सिंह	जेसी 729521एच	01 जून 2014
सूबेदार	क्लर्क आई एम	तेमबुरु कृष्णा राव	जेसी 729559एम	01 जून 2014
सूबेदार	क्लर्क आई एम	बी बाला वेंकटा रेड्डी	जेसी 729522एल	01 जून 2014
सूबेदार	क्लर्क आई एम	नागेश्वर राव समुंतुला	जेसी 729523एन	01 जून 2014
सूबेदार	क्लर्क एस डी	हेदउ मोहन प्रहलाद	जेसी 729525वाई	01 जुलाई 2014
सूबेदार	क्लर्क आई एम	आनन्द बहादूर सिंह	जेसी 729526एफ	01 जुलाई 2014
सूबेदार	क्लर्क एस डी	भट्ट जगदीश प्रसाद दूर्गा लाल	जेसी 729527के	01 जुलाई 2014
सूबेदार	क्लर्क एस डी	एस सर्वेश चन्द्र जगमान	जेसी 729528एम	01 जुलाई 2014
सूबेदार	क्लर्क आई एम	येरमाला रामा भुपाल	जेसी 729530 के	01 जुलाई 2014

सूबेदार	क्लर्क आई एम	प्रमोद शंकर राय	जेसी 729531एम	01 जुलाई 2014
सूबेदार	क्लर्क एस डी	अशोक कुमार	जेसी 729532पी	01 जुलाई 2014
सूबेदार	क्लर्क आई एम	खालीद हुसैन सीददकी	जेसी 729533एक्स	01 जुलाई 2014
सूबेदार	क्लर्क आई एम	परिमल सिंह	जेसी 729534ए	01 जुलाई 2014
सूबेदार	क्लर्क आई एम	वीर पाल सिंह	जेसी 729535एच	01 जुलाई 2014
सूबेदार	क्लर्क आई एम	थानकाचन टी ए	जेसी 729603एल	01 जुलाई 2014
सूबेदार	क्लर्क आई एम	जगन्नाथ रॉय	जेसी 729536एल	01 जुलाई 2014
सूबेदार	क्लर्क आई एम	चावन शमबाजी भीम	जेसी 729561के	01 जुलाई 2014
सूबेदार	क्लर्क एस डी	श्यामलेन्दु रॉय	जेसी 729562एम	01 जुलाई 2014
सूबेदार	क्लर्क एस डी	चन्द्रमा भक्ता	जेसी 729537एन	01 जुलाई 2014
सूबेदार	क्लर्क आई एम	आर जानकी रमन	जेसी 729538डब्ल्यू	01 जुलाई 2014
सूबेदार	क्लर्क आई एम	जाधव कुमार भुईयों	जेसी 729442एन	01 अगस्त 2014
सूबेदार	क्लर्क आई एम	बनवारा राम लेगा	जेसी 729563पी	01 अगस्त 2014
सूबेदार	क्लर्क आई एम	सुरेश प्रसाद मेहता	जेसी 729539वाई	01 अगस्त 2014
सूबेदार	क्लर्क आई एम	सुमेर सिंह	जेसी 729564एक्स	01 अगस्त 2014
सूबेदार	क्लर्क आई एम	सुभाष चन्द्र	जेसी 729540एन	01 अगस्त 2014
सूबेदार	क्लर्क एस डी	महेन्द्र सिंह	जेसी 729565ए	01 अगस्त 2014
सूबेदार	क्लर्क एस डी	बलजीत सिंह	जेसी 729567एल	01 अगस्त 2014
सूबेदार	क्लर्क आई एम	विरेन्द्र सिंह	जेसी 729568एन	01 अगस्त 2014
सूबेदार	क्लर्क आई एम	पार्सी राम	जेसी 729569डब्ल्यू	01 अगस्त 2014
सूबेदार	क्लर्क आई एम	श्योजी सिंह	जेसी 729570एल	01 अगस्त 2014
सूबेदार	क्लर्क आई एम	कुलदीप सिंह	जेसी 729571एन	01 अगस्त 2014
सूबेदार	क्लर्क एस डी	बुधोदी गिरीश कुमार घनश्याम	जेसी 729572डब्ल्यू	01 अगस्त 2014
सूबेदार	क्लर्क एस डी	साहब सिंह चौहान	जेसी 729573वाई	01 अगस्त 2014
सूबेदार	क्लर्क आई एम	सजीवन सी	जेसी 729574एफ	01 अगस्त 2014
सूबेदार	क्लर्क आई एम	बाला कृष्णन एम	जेसी 729575के	01 अगस्त 2014
सूबेदार	क्लर्क आई एम	बूटा सिंह	जेसी 729576एम	01 अगस्त 2014

सूबेदार	क्लर्क आई एम	हरी किशन	जेसी 729307ए	01 सितम्बर 2014
सूबेदार	क्लर्क आई एम	राम इकवाल भगत	जेसी 729412डब्ल्यू	01 सितम्बर 2014
सूबेदार	क्लर्क एस डी	सुभाष चन्द्र	जेसी 729577पी	01 सितम्बर 2014
सूबेदार	क्लर्क आई एम	संतोष कुमार ए	जेसी 729578एक्स	01 अक्टूबर 2014
सूबेदार	क्लर्क एस डी	राकेश मोहन भट्ट	जेसी 729541डब्ल्यू	01 अक्टूबर 2014
सूबेदार	क्लर्क आई एम	सुरेश कुमार पी	जेसी 729579ए	01 अक्टूबर 2014
सूबेदार	क्लर्क एस डी	कंचन कुमार घोष	जेसी 729580पी	01 अक्टूबर 2014
सूबेदार	क्लर्क एस डी	प्रमोद कुमार बिशोई	जेसी 729581एक्स	01 अक्टूबर 2014
सूबेदार	क्लर्क एस डी	रंजन कुमार भुईयों	जेसी 729582ए	01 अक्टूबर 2014
सूबेदार	क्लर्क एस डी	रशीक चन्द्र बर्मन	जेसी 729583एच	01 अक्टूबर 2014
सूबेदार	क्लर्क एस डी	के नील चन्द्रा शर्मा	जेसी 729584एल	01 अक्टूबर 2014
सूबेदार	क्लर्क आई एम	रोकडे मारुती सतवा	जेसी 729604एन	01 अक्टूबर 2014
सूबेदार	क्लर्क एस डी	जी सेलवम	जेसी 729585एन	01 अक्टूबर 2014
सूबेदार	क्लर्क आई एम	सुख बीर	जेसी 729605डब्ल्यू	01 अक्टूबर 2014
सूबेदार	क्लर्क एस डी	एस कृष्णा मुर्ती	जेसी 729606वाई	01 अक्टूबर 2014
सूबेदार	क्लर्क एस डी	जगदीश चन्द्र	जेसी 729607एफ	01 अक्टूबर 2014
सूबेदार	क्लर्क एस डी	सवरेन्द्र कुमार सिंह	जेसी 729608के	01 नवम्बर 2014
सूबेदार	क्लर्क एस डी	जयजीत सिंह लाम्बा	जेसी 729609एम	01 नवम्बर 2014
सूबेदार	क्लर्क आई एम	चन्द्र पाल सिंह	जेसी 729642के	01 नवम्बर 2014
सूबेदार	क्लर्क आई एम	नरशी राम	जेसी 729610एफ	01 नवम्बर 2014
सूबेदार	क्लर्क एस डी	विनोद कुमार रॉय	जेसी 729611के	01 नवम्बर 2014
सूबेदार	क्लर्क एस डी	शैलेन्द्र पाल सिंह	जेसी 729612एम	01 नवम्बर 2014
सूबेदार	क्लर्क एस डी	रेतीश कुमार वी एस	जेसी 729613पी	01 नवम्बर 2014
सूबेदार	क्लर्क एस डी	पी गनेश	जेसी 729614एक्स	01 नवम्बर 2014
सूबेदार	क्लर्क आई एम	मो. अब्दुल कलाम आजाद	जेसी 729615ए	01 नवम्बर 2014
सूबेदार	क्लर्क एस डी	नरसींगा नायक	जेसी 729616एच	01 नवम्बर 2014

सूबेदार	क्लर्क एस डी	राम प्रकाश ठाकुर	जेसी 729617एल	01 दिसम्बर 2014
सूबेदार	क्लर्क एस डी	चीन्मया सरकार	जेसी 729618एन	01 दिसम्बर 2014
सूबेदार	एस के टी सिग्नल	मुलेय कृष्णा शंकर राव	जेसी 728842एन	01 जनवरी 2014
सूबेदार	एस के टी सिग्नल	अशोक कुमार मिश्रा	जेसी 728871एच	01 जनवरी 2014
सूबेदार	एस के टी सिग्नल	जीवन लाल	जेसी 728843डब्ल्यू	01 जनवरी 2014
सूबेदार	एस के टी सिग्नल	शनमुगम जी	जेसी 728872एल	01 जनवरी 2014
सूबेदार	एस के टी एम्युनेशन	जी नारायन	जेसी 728873एन	01 जनवरी 2014
सूबेदार	एस के टी एम्युनेशन	विष्णु देव सिंह	जेसी 728874डब्ल्यू	01 जनवरी 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	बिजय प्रसाद	जेसी 728875वाई	01 जनवरी 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	आलोक कुमार	जेसी 728876एफ	01 जनवरी 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	बिन्देश्वर साहू	जेसी 728877के	01 जनवरी 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	ब्रजेन्द्रा राम	जेसी 728879पी	01 जनवरी 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	अवध बिहारी मिश्रा	जेसी 728896पी	01 जनवरी 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	रघुनाथ साहू	जेसी 728880के	01 जनवरी 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	सुरेन्द्रा कुमार	जेसी 728881एम	01 जनवरी 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	ओम प्रकाश पांडेय	जेसी 728878एम	01 जनवरी 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	अनिल कुमार	जेसी 728897एक्स	01 जनवरी 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	बंशीधर मोहराना	जेसी 728898ए	01 जनवरी 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	दीपक कुमार गायन	जेसी 728899एच	01 जनवरी 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	नगेन्द्रा साह	जेसी 728900एम	01 जनवरी 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	श्री राम सिंह	जेसी 728901पी	01 जनवरी 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	विनोद कुमार	जेसी 728902एक्स	01 जनवरी 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	उमाकांत मिश्रा	जेसी 728904एच	01 जनवरी 2014
सूबेदार	एस के टी एम टी	होशियार सिंह	जेसी 728909एफ	01 जनवरी 2014
सूबेदार	एस के टी एम टी	राम प्रताप यादवे	जेसी 728911वाई	01 जनवरी 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	सर्वन मल्लीकार्जून नायडू	जेसी 728907डब्ल्यू	01 जनवरी 2014
सूबेदार	एस के टी एम टी	श्रवण कुमार ख्यालिया	जेसी 728937एन	01 जनवरी 2014

सूबेदार	एस के टी एम्युनेशन	मदरुप राम	जेसी 728932पी	01 जनवरी 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	गणेश राम	जेसी 728933एक्स	01 जनवरी 2014
सूबेदार	एस के टी एम्युनेशन	प्रदीप कुमार सिंह	जेसी 728935एच	01 जनवरी 2014
सूबेदार	एस के टी एम टी	सुरज प्रकाश चौधरी	जेसी 728938डब्ल्यू	01 जनवरी 2014
सूबेदार	एस के टी एम टी	नाथु राम सैनी	जेसी 728939वाई	01 जनवरी 2014
सूबेदार	एस के टी एम टी	आर मुरुगन	जेसी 728940एन	01 जनवरी 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	राज कुमार	जेसी 728942वाई	01 जनवरी 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	सुरजीत सिंह	जेसी 728943एफ	01 जनवरी 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	सुरेश कुमार सैनी	जेसी 728944के	01 जनवरी 2014
सूबेदार	एस के टी एम टी	सुभाष चन्द्र वर्मा	जेसी 728946पी	01 जनवरी 2014
सूबेदार	एस के टी एम टी	पुना राम चौधरी	जेसी 728936एल	01 जनवरी 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	अनिल सिंह नेगी	जेसी 728945एम	01 जनवरी 2014
सूबेदार	एस के टी एम टी	मन्नी राम	जेसी 728934ए	01 जनवरी 2014
सूबेदार	एस के टी एम टी	राज नारायण	जेसी 728964एक्स	01 जनवरी 2014
सूबेदार	एस के टी एम टी	राम कृपाल	जेसी 728965ए	01 जनवरी 2014
सूबेदार	एस के टी एम टी	राम मोहन	जेसी 728966एच	01 जनवरी 2014
सूबेदार	एस के टी एम टी	अजीत सिंह	जेसी 728968एन	01 जनवरी 2014
सूबेदार	एस के टी एम टी	बी जीतेन्द्रा कुमार धीरज लाल	जेसी 728970एल	01 जनवरी 2014
सूबेदार	एस के टी एम टी	गिरजेश मनी पाडेय	जेसी 728971एन	01 जनवरी 2014
सूबेदार	एस के टी एम टी	अमबालिया रामा लक्ष्मण	जेसी 728972डब्ल्यू	01 जनवरी 2014
सूबेदार	एस के टी एम टी	कुलदीप सिंह पुनियां	जेसी 728973वाई	01 जनवरी 2014
सूबेदार	एस के टी एम टी	नगिन्द्र सिंह	जेसी 728974एफ	01 जनवरी 2014
सूबेदार	एस के टी एम टी	सुरजीत सिंह	जेसी 728995एक्स	01 जनवरी 2014
सूबेदार	एस के टी एम टी	हरीश कुमार	जेसी 728996ए	01 जनवरी 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	जगन नाथ प्रसाद शर्मा	जेसी 728997एच	01 जनवरी 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	विजय सिंह	जेसी 728998एल	01 जनवरी 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	दिनेश सिंह	जेसी 729044एम	01 जनवरी 2014

सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	लहना सिंह	जेसी 728999एन	01 जनवरी 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	बजरंगी राम	जेसी 729001एक्स	01 जनवरी 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	ओम प्रकाश पांडे	जेसी 729002ए	01 जनवरी 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	रशपाल सिंह	जेसी 729003एच	01 जनवरी 2014
सूबेदार	एस के टी एम टी	सतीश कुमार	जेसी 729004एल	01 जनवरी 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	मुकेश कुमार झाँ	जेसी 729006डब्ल्यू	01 जनवरी 2014
सूबेदार	एस के टी सिग्नल	कुलवन्त सिंह	जेसी 729007वाई	01 जनवरी 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	नवीन कुमार शर्मा	जेसी 729008एफ	01 जनवरी 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	राजू प्रसाद यादव	जेसी 729009के	01 जनवरी 2014
सूबेदार	एस के टी एम टी	टाईगर मसीह	जेसी 729034एच	01 जनवरी 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	दिनेश चन्द्र	जेसी 729035एल	01 जनवरी 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	पाटिल हनमन्त राव भीम राव	जेसी 729011एफ	01 जनवरी 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	हाकम सिंह	जेसी 729010वाई	01 जनवरी 2014
सूबेदार	एस के टी एम टी	शिव सिंह	जेसी 729012के	01 जनवरी 2014
सूबेदार	एस के टी सिग्नल	वानखेडे सुधाकर किसन	जेसी 729036एन	01 जनवरी 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	प्रमोद गोगोई	जेसी 729067एन	01 जनवरी 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	हेमन्त कुमार	जेसी 729038वाई	01 जनवरी 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	तुन्नु प्रसाद वर्मा	जेसी 729039एफ	01 जनवरी 2014
सूबेदार	एस के टी एम टी	राम शंकर यादव	जेसी 729037डब्ल्यू	01 जनवरी 2014
सूबेदार	एस के टी एम टी	महेन्द्र सिंह	जेसी 729045पी	01 जनवरी 2014
सूबेदार	एस के टी एम टी	डी जोहनस गलीटस	जेसी 729098एन	01 जनवरी 2014
सूबेदार	एस के टी एम टी	मोहीन्द्र सिंह	जेसी 729046एक्स	01 जनवरी 2014
सूबेदार	एस के टी एम टी	तसबीर सिंह	जेसी 729047ए	01 जनवरी 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	उदय प्रताप सिंह	जेसी 729069वाई	01 जनवरी 2014
सूबेदार	एस के टी एम टी	अबू ऐरीक सामी	जेसी 729070एन	01 जनवरी 2014
सूबेदार	एस के टी एम टी	राम पाल	जेसी 729048एच	01 जनवरी 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	लेख पाल सिंह	जेसी 729068डब्ल्यू	01 जनवरी 2014

सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	हीरा लाल	जेसी 729073एफ	01 जनवरी 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	प्रदीप दास	जेसी 729074के	01 जनवरी 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	यशपाल	जेसी 729075एम	01 जनवरी 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	सुकंता कुमार जेना	जेसी 729100ए	01 जनवरी 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	उत्तम कुमार डे	जेसी 729127एक्स	01 जनवरी 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	प्रेमपाल सिंह	जेसी 729102एल	01 जनवरी 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	श्री राम बुन्देला	जेसी 729103एन	01 जनवरी 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	उत्तम कुमार घोष	जेसी 729128ए	01 जनवरी 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	देवेन्द्रा कुमार दास	जेसी 729129एच	01 जनवरी 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	बीपनेश चन्द्रा	जेसी 729076पी	01 जनवरी 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	अलोक राम दास	जेसी 729077एक्स	01 जनवरी 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	रविन्द्रा दास	जेसी 729105वाई	01 जनवरी 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	भवानी शंकर दास	जेसी 729130एक्स	01 फरवरी 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	देवाशीश प्रधान	जेसी 729161एक्स	01 फरवरी 2014
सूबेदार	एस के टी एम टी	राम चन्द्रा परीडा	जेसी 729162ए	01 फरवरी 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	दिबाकर साहू	जेसी 729174पी	01 फरवरी 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	बासुदेव मंडल	जेसी 729192एक्स	01 फरवरी 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	चंद्र कांत पाठक	जेसी 729193ए	01 फरवरी 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	सत्यव्रत साहू	जेसी 729195एल	01 फरवरी 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	देवेन्द्रा कुमार सिंह	जेसी 729196एन	01 फरवरी 2014
सूबेदार	एस के टी एम टी	धर्मपाल	जेसी 729197डब्ल्यू	01 फरवरी 2014
सूबेदार	एस के टी एम टी	रमेन्द्रा सिंह	जेसी 729198वाई	01 फरवरी 2014
सूबेदार	एस के टी एम टी	चन्द्र पाल	जेसी 729199एफ	01 फरवरी 2014
सूबेदार	एस के टी एम टी	कुसन एस	जेसी 729200एल	01 फरवरी 2014
सूबेदार	एस के टी एम टी	जाधव सुदेश रामदास	जेसी 729201एन	01 फरवरी 2014
सूबेदार	एस के टी एम टी	श्रीके ताशकान्द बंसी	जेसी 729202डब्ल्यू	01 फरवरी 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	दीलीप कुमार समन्ता	जेसी 729194एच	01 फरवरी 2014

सूबेदार	एस के टी एम टी	नीगाडे किशोर मानीक राव	जेसी 729219के	01 फरवरी 2014
सूबेदार	एस के टी एम टी	के प्रकाश वेंकट	जेसी 729220वाई	01 मार्च 2014
सूबेदार	एस के टी एम टी	शिंदे श्रीकांत कोन्डीबा	जेसी 729221एफ	01 मार्च 2014
सूबेदार	एस के टी एम टी	वाघ प्रवीन उत्तमा राव	जेसी 729223एम	01 मार्च 2014
सूबेदार	एस के टी एम टी	वाकडे अनुरथ भीवा	जेसी 729224पी	01 मार्च 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	हरीश चन्द्र त्रिपाठी	जेसी 729225एक्स	01 मार्च 2014
सूबेदार	एस के टी वेपन	बोर्हाडे एकनाथ सोन्बा	जेसी 729226ए	01 मार्च 2014
सूबेदार	एस के टी वेपन	देवाडे विलास दत्तात्रेय	जेसी 729229एन	01 मार्च 2014
सूबेदार	एस के टी वेपन	भोर राव साहेब मारुती	जेसी 729232एन	01 मार्च 2014
सूबेदार	एस के टी सिग्नल	ब्रिज भुशान शुक्ला	जेसी 729233डब्ल्यू	01 मार्च 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	नायक भरत दत्तात्रेय	जेसी 729234वाई	01 मार्च 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	भट्ट राजेन्द्रा विष्णु	जेसी 729235एफ	01 मार्च 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	राजपूत गोविन्द सिंह माधव सिंह	जेसी 729236के	01 मार्च 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	पठान फिरोज खान अकबर खान	जेसी 729237एम	01 मार्च 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	जाधव तुकाराम दयानेश्वर	जेसी 729238पी	01 अप्रैल 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	कर्माकर पंडित बाबू	जेसी 729239एक्स	01 अप्रैल 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	पाटिल निशीकांत रावा साहेब	जेसी 729240एम	01 अप्रैल 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	खेडाकर रमेश बाबू राव	जेसी 729241पी	01 अप्रैल 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	टन्डाले मुकुंदराज चन्द्रभान	जेसी 729242एक्स	01 अप्रैल 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	पाटिल शाहाजी साहेब राव	जेसी 729261एच	01 अप्रैल 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	हिप्पारगी श्रिशैल हनमन्ता	जेसी 729262एल	01 अप्रैल 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	सनप संमपत करभारी	जेसी 729285एम	01 अप्रैल 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	सलून्के चन्द्रकांत मनीक राव	जेसी 729264डब्ल्यू	01 अप्रैल 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	जोशी उपेन्द्र कुमार परशोतम	जेसी 729266एफ	01 अप्रैल 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	दौलत राम	जेसी 729267के	01 अप्रैल 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	माम राज	जेसी 729268एम	01 अप्रैल 2014
सूबेदार	एस के टी सिग्नल	हरकेश सिंह	जेसी 729269पी	01 अप्रैल 2014

सूबेदार	एस के टी इजिनियर	ज्ञान चन्द	जेसी 729270के	01 अप्रैल 2014
सूबेदार	एस के टी इजिनियर	करन सिंह	जेसी 729271एम	01 अप्रैल 2014
सूबेदार	एस के टी एम टी	धर्म बीर सिंह	जेसी 729273एक्स	01 अप्रैल 2014
सूबेदार	एस के टी इजिनियर	सुरेन्द्र सिंह	जेसी 729275एच	01 अप्रैल 2014
सूबेदार	एस के टी सिग्नल	बासवा राज	जेसी 729276एल	01 अप्रैल 2014
सूबेदार	एस के टी इजिनियर	देवेन्द्र कुमार	जेसी 729277एन	01 अप्रैल 2014
सूबेदार	एस के टी इजिनियर	कुलदीप	जेसी 729323एक्स	01 अप्रैल 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	रामवतार मौर्या	जेसी 729313एन	01 अप्रैल 2014
सूबेदार	एस के टी जी इजिनियर	दीप चन्द	जेसी 729324ए	01 अप्रैल 2014
सूबेदार	एस के टी जी इजिनियर	मगर जगन्नाथ बाबा साहेब	जेसी 729325एच	01 अप्रैल 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	कार्पे संजय रामदास	जेसी 729328डब्ल्यू	01 अप्रैल 2014
सूबेदार	एस के टी वेपन	जाधव सुनील सदाशीव	जेसी 729326एल	01 अप्रैल 2014
सूबेदार	एस के टी सिग्नल	मोरे अशोक राम राव	जेसी 729385एक्स	01 अप्रैल 2014
सूबेदार	एस के टी इजिनियर	लान्दे नागनाथ वासुदेव	जेसी 729389एन	01 अप्रैल 2014
सूबेदार	एस के टी इजिनियर	गौरव हरीदास नागनाथ	जेसी 729390एच	01 अप्रैल 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	बोरते दत्तात्रेय यशवंत	जेसी 729391एल	01 अप्रैल 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	शिव पाल	जेसी 729394वाई	01 अप्रैल 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	लोकेश सहारन	जेसी 729395एफ	01 अप्रैल 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	विनोद कुमार	जेसी 729392एन	01 अप्रैल 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	वाघ ओम नारायण गीताराम	जेसी 729419ए	01 अप्रैल 2014
सूबेदार	एस के टी एम टी	महेन्द्र सिंह गुर्जर	जेसी 727396के	01 अप्रैल 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	पुरखा राम कुम्हार	जेसी 729420पी	01 अप्रैल 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	बलबीर सिंह शेखावत	जेसी 729421एक्स	01 अप्रैल 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	कंवर लाल	जेसी 729422ए	01 अप्रैल 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	कालू सिंह चौहान	जेसी 729424एल	01 अप्रैल 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	अमर चन्द यादव	जेसी 729425एन	01 अप्रैल 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	भुन्या राम गोदारा	जेसी 729423एच	01 अप्रैल 2014

सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	मन्दरुप सिंह	जेसी 729454एच	01 अप्रैल 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	अशोक कुमार	जेसी 729453ए	01 अप्रैल 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	रमेसन केवि	जेसी 729456एन	01 अप्रैल 2014
सूबेदार	एस के टी एम टी	श्याम लाल बनशीवाल	जेसी 729455एल	01 अप्रैल 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	रोहिताश कुमार दीवान	जेसी 729457डब्ल्यू	01 अप्रैल 2014
सूबेदार	एस के टी एम टी	रश पाल सिंह	जेसी 729458वाई	01 अप्रैल 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	सुभाष चन्द्र	जेसी 729459एफ	01 अप्रैल 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	अंसारी सुब्रती अब्दुल जाब्वर	जेसी 729460डब्ल्यू	01 अप्रैल 2014
सूबेदार	एस के टी वेपन	प्रदीप कुमार जी	जेसी 729542वाई	01 अप्रैल 2014
सूबेदार	एस के टी वेपन	बाबू टीएल	जेसी 729586डब्ल्यू	01 अप्रैल 2014
सूबेदार	एस के टी सिग्नल	रविन्द्र कुमार सिंह	जेसी 729587वाई	01 अप्रैल 2014
सूबेदार	एस के टी एम टी	राम रतन	जेसी 729620एल	01 अप्रैल 2014
सूबेदार	एस के टी एम टी	जीवन चन्द्र डुमका	जेसी 729543एफ	01 अप्रैल 2014
सूबेदार	एस के टी वेपन	सुखविन्द्र सिंह	जेसी 729589के	01 अप्रैल 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	दलीप सिंह	जेसी 729588एफ	01 अप्रैल 2014
सूबेदार	एस के टी एम टी	वीर सिंह	जेसी 729544के	01 अप्रैल 2014
सूबेदार	एस के टी वेपन	जयन के	जेसी 729590वाई	01 अप्रैल 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	चांद सिंह	जेसी 729545एम	01 अप्रैल 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	माम्मा राम शर्मा	जेसी 729591एफ	01 अप्रैल 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	संजीब दास	जेसी 729593एम	01 अप्रैल 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	राम किशन	जेसी 729621एन	01 अप्रैल 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	जगतार सिंह	जेसी 729594पी	01 अप्रैल 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	राम सिंह	जेसी 729595एक्स	01 अप्रैल 2014
सूबेदार	एस के टी वेपन	सेबास्तीन जोसेफ	जेसी 729596ए	01 अप्रैल 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	सतबीर सिंह	जेसी 729597एच	01 अप्रैल 2014
सूबेदार	एस के टी एम टी	पाले राम	जेसी 729598एल	01 अप्रैल 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	राधे श्याम	जेसी 729622डब्ल्यू	01 मई 2014

सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	सुबे सिंह	जेसी 729623वाई	01 मई 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	हरदेव सिंह	जेसी 729624एफ	01 मई 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	रमेश लाल	जेसी 729711पी	01 मई 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	सुरेश कुमार	जेसी 729625के	01 मई 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	नरेन्द्र पाल	जेसी 729626एम	01 मई 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	रणवीर सिंह शाक्या	जेसी 729663ए	01 मई 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	धावले सुर्याकान्त भीम राव	जेसी 729664एच	01 मई 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	गोपाल सिंह	जेसी 729665एल	01 मई 2014
सूबेदार	एस के टी एम टी	केटकर धनजय यशवंत	जेसी 729628एक्स	01 मई 2014
सूबेदार	एस के टी एम टी	सुरेन्द्र सिंह मलिक	जेसी 729629ए	01 मई 2014
सूबेदार	एस के टी एम टी	जय पाल सिंह	जेसी 729630पी	01 मई 2014
सूबेदार	एस के टी एम टी	समुन्द्र सिंह	जेसी 729666एन	01 मई 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	नरवीर सिंह	जेसी 729667डब्ल्यू	01 मई 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	दलबिर सिंह	जेसी 729668वाई	01 मई 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	सतबीर	जेसी 729669एफ	01 मई 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	बलवान सिंह	जेसी 729670डब्ल्यू	01 मई 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	बलवान सिंह	जेसी 729671वाई	01 मई 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	सुरेश कुमार	जेसी 729672एफ	01 मई 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	जसमेर सिंह	जेसी 729673के	01 मई 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	रोहताश कॅबर	जेसी 729674एम	01 मई 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	रोहतास	जेसी 729675पी	01 मई 2014
सूबेदार	एस के टी एम टी	सुरज पाल	जेसी 729712एक्स	01 मई 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	दया शंकर कुंवर	जेसी 729676एक्स	01 मई 2014
सूबेदार	एस के टी एम टी	कृष्ण चन्द	जेसी 729677ए	01 मई 2014
सूबेदार	एस के टी एम टी	महावीर सिंह	जेसी 729678एच	01 मई 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	जय बीर सिंह	जेसी 729679एल	01 मई 2014
सूबेदार	एस के टी एम टी	समुन्द्र सिंह	जेसी 729680ए	01 मई 2014

सूबेदार	एस के टी एम टी	राधे श्याम	जेसी 729681एच	01 मई 2014
सूबेदार	एस के टी एम टी	अंसारी नूरुदीन निजामुद्दीन	जेसी 729713ए	01 जून 2014
सूबेदार	एस के टी एम टी	अशीत सरकार	जेसी 729714एच	01 जून 2014
सूबेदार	एस के टी एम टी	विश्वजीत देबनाथ	जेसी 729715एल	01 जून 2014
सूबेदार	एस के टी एम टी	सुनील कुमार बिस्वास	जेसी 729717डब्ल्यू	01 जून 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	किरण पाल	जेसी 729718वाई	01 जून 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	प्रदीप प्रधान	जेसी 729719एफ	01 जून 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	श्याम सुन्दर नन्दी	जेसी 729759एच	01 जून 2014
सूबेदार	एस के टी अम्युनेशन	सुभाष चन्द्र	जेसी 729760एक्स	01 जून 2014
सूबेदार	एस के टी अम्युनेशन	सुरेश सिंह	जेसी 729761ए	01 जून 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	लाबन्डे शिवाजी इकनाथ	जेसी 729762एच	01 जून 2014
सूबेदार	एस के टी अम्युनेशन	महेन्द्र सिंह बारगोती	जेसी 729764एन	01 जून 2014
सूबेदार	एस के टी एम टी	सतपाल	जेसी 729765डब्ल्यू	01 जून 2014
सूबेदार	एस के टी सिग्नल	अजय कुमार रथ	जेसी 729767एफ	01 जून 2014
सूबेदार	एस के टी सिग्नल	मकुन्दा चरन राउत	जेसी 729769एम	01 जून 2014
सूबेदार	एस के टी अम्युनेशन	राज पाल	जेसी 729770एफ	01 जून 2014
सूबेदार	एस के टी एम टी	राजेन्द्र सिंह	जेसी 729772एम	01 जून 2014
सूबेदार	एस के टी एम टी	सन्त कुमार	जेसी 729773पी	01 जून 2014
सूबेदार	एस के टी एम टी	धर्म वीर	जेसी 729793एच	01 जून 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	कृष्ण कुमार	जेसी 729795एन	01 जून 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	रामबीर शर्मा	जेसी 729797वाई	01 जून 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	मामराज भगोरीय	जेसी 729799के	01 जून 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	पवन कुमार	जेसी 729798एफ	01 जून 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	सुरेश चन्द्र	जेसी 729800एन	01 जून 2014
सूबेदार	एस के टी अम्युनेशन	विजय कुमार	जेसी 729801डब्ल्यू	01 जून 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	ओम प्रकाश	जेसी 729808ए	01 जून 2014
सूबेदार	एस के टी सिग्नल	अश्विनी कुमार स्वेन	जेसी 729802वाई	01 जून 2014

सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	नरेन्द्र पाल सिंह तेवटिया	जेसी 729803एफ	01 जून 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	अमल सरकार	जेसी 729804के	01 जून 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	त्रम्बकेश मंडल	जेसी 729877डब्ल्यू	01 जून 2014
सूबेदार	एस के टी अम्युनेशन	कमलेश कुमार	जेसी 729831एन	01 जून 2014
सूबेदार	एस के टी सिग्नल	हरीहर प्रसाद मोहाजन	जेसी 729832डब्ल्यू	01 जून 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	राजा किशोर प्रधान	जेसी 729833वाई	01 जून 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	अखील रनजन बाउल	जेसी 729834एफ	01 जून 2014
सूबेदार	एस के टी अम्युनेशन	नेम चन्द	जेसी 729835के	01 जून 2014
सूबेदार	एस के टी सिग्नल	श्री पाल सिंह	जेसी 729836एम	01 जून 2014
सूबेदार	एस के टी सिग्नल	जगत सिंह पाल	जेसी 729879एफ	01 जून 2014
सूबेदार	एस के टी एम टी	थिरुमलाइ पीके	जेसी 729881वाई	01 जून 2014
सूबेदार	एस के टी एम टी	अच्युत बछार	जेसी 729882एफ	01 जून 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	सुकुमार रॉय सरकार	जेसी 729884एम	01 जून 2014
सूबेदार	एस के टी अम्युनेशन	शिव सिंह	जेसी 729914वाई	01 जून 2014
सूबेदार	एस के टी अम्युनेशन	मोहन लाल	जेसी 729916के	01 जून 2014
सूबेदार	एस के टी अम्युनेशन	धर्मेन्द्र सिंह	जेसी 729917एम	01 जून 2014
सूबेदार	एस के टी अम्युनेशन	कुलदीप सिंह	जेसी 729918पी	01 जून 2014
सूबेदार	एस के टी अम्युनेशन	सथीश पी आर	जेसी 729920एम	01 जून 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	सुरजीत बाघ	जेसी 729936एक्स	01 जून 2014
सूबेदार	एस के टी एम टी	वीर पाल सिंह	जेसी 729935पी	01 जून 2014
सूबेदार	एस के टी वेपन	के मुरुगन	जेसी 729937ए	01 जून 2014
सूबेदार	एस के टी इजिनियर	सुरेन्द्र सिंह	जेसी 730011एन	01 जून 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	गनेश चन्द्र सरकार	जेसी 729988एन	01 जून 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	सोनावाने गजान्न डोधा	जेसी 729627पी	01 जुलाई 2014
सूबेदार	एस के टी वेपन	बनकर पुरुषोत्तम सरजे	जेसी 729203वाई	01 जुलाई 2014
सूबेदार	एस के टी वेपन	जाधव प्रकाश श्रीमंत	जेसी 729230एच	01 जुलाई 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	गायकवाड अशोक अप्पा	जेसी 729286पी	01 जुलाई 2014

सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	जगताप डागदु ताते राव	जेसी 729263एन	01 जुलाई 2014
सूबेदार	एस के टी इजिनियर	सुरेश कुमार	जेसी 729272पी	01 जुलाई 2014
सूबेदार	एस के टी वेपन	पवार हनमंत राव पान्डुरंग	जेसी 729384पी	01 जुलाई 2014
सूबेदार	एस के टी सिग्नल	तनवर अजय सिंह मेघ सिंह	जेसी 729393डब्ल्यू	01 जुलाई 2014
सूबेदार	एस के टी सिग्नल	जस राम	जेसी 729327एन	01 जुलाई 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	पवित्रा मोहन मोहनता	जेसी 729716एन	01 जुलाई 2014
सूबेदार	एस के टी सिग्नल	स्वपन कुमार डे	जेसी 729781एन	01 जुलाई 2014
सूबेदार	एस के टी सिग्नल	देबब्रत कुमार बिस्वास	जेसी 729763एल	01 जुलाई 2014
सूबेदार	एस के टी सिग्नल	यशवन्त सिंह	जेसी 729766वाई	01 जुलाई 2014
सूबेदार	एस के टी सिग्नल	रतिश कुमार देहुरी	जेसी 729830एल	01 जुलाई 2014
सूबेदार	एस के टी सिग्नल	दिलीप कुमार सुतार	जेसी 729883के	01 जुलाई 2014
सूबेदार	एस के टी अम्युनेशन	राजेश कुमार	जेसी 729919एक्स	01 जुलाई 2014
सूबेदार	एस के टी एम टी	राम चन्द्र महतो	जेसी 729921पी	01 अगस्त 2014
सूबेदार	एस के टी वेपन	राजा सेकरन नायर के	जेसी 729938एच	01 अगस्त 2014
सूबेदार	एस के टी वेपन	सुरेन्द्रन एमपी	जेसी 730012डब्ल्यू	01 अगस्त 2014
सूबेदार	एस के टी अम्युनेशन	अमरेश सिंह	जेसी 730013वाई	01 अगस्त 2014
सूबेदार	एस के टी अम्युनेशन	शिव कुमार एस	जेसी 730018एक्स	01 अगस्त 2014
सूबेदार	एस के टी अम्युनेशन	शिव प्रकाश मिश्रा	जेसी 729989डब्ल्यू	01 अगस्त 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	ओम प्रकाश	जेसी 729990एल	01 अगस्त 2014
सूबेदार	एस के टी एम टी	प्यादी हरि नारायना	जेसी 730014एफ	01 अगस्त 2014
सूबेदार	एस के टी अम्युनेशन	फेलुरंजन घारा	जेसी 730044वाई	01 अगस्त 2014
सूबेदार	एस के टी अम्युनेशन	एम वेंकेटेशन	जेसी 730045एफ	01 सितंबर 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	जय भगवान	जेसी 730046के	01 सितंबर 2014
सूबेदार	एस के टी एम टी	चन्द्र भुसन कुमार यादव	जेसी 730059एफ	01 सितंबर 2014
सूबेदार	एस के टी एम टी	कन्हैया प्रसाद यादव	जेसी 730047एम	01 सितंबर 2014
सूबेदार	एस के टी एम टी	अल्ला श्रिनिवास रेडडी	जेसी 730080के	01 सितंबर 2014
सूबेदार	एस के टी वेपन	वेंकटा रावनप्पा डीवी	जेसी 730082पी	01 सितंबर 2014

सूबेदार	एस के टी एम टी	राजवीर सिंह	जेसी 730083एक्स	01 सितंबर 2014
सूबेदार	एस के टी एम टी	धर्म सिंह	जेसी 730081एम	01 सितंबर 2014
सूबेदार	एस के टी एम टी	जगपाल सिंह	जेसी 730107डब्ल्यू	01 अक्टूबर 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	राम हरी परीहार	जेसी 730084ए	01 अक्टूबर 2014
सूबेदार	एस के टी एम टी	सत पाल	जेसी 730085एच	01 अक्टूबर 2014
सूबेदार	एस के टी अम्युनेशन	पर्श राम काकातकर	जेसी 730110डब्ल्यू	01 अक्टूबर 2014
सूबेदार	एस के टी अम्युनेशन	विकेश सिंह	जेसी 730086एल	01 अक्टूबर 2014
सूबेदार	एस के टी अम्युनेशन	कैलाश यादव	जेसी 730087एन	01 अक्टूबर 2014
सूबेदार	एस के टी अम्युनेशन	धान सिंह देउपा	जेसी 730111वाई	01 अक्टूबर 2014
सूबेदार	एस के टी एम टी	महेन्द्र सिंह	जेसी 730115पी	01 अक्टूबर 2014
सूबेदार	एस के टी अम्युनेशन	सोहन लाल	जेसी 730088डब्ल्यू	01 नवंबर 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	अजमेर सिंह	जेसी 730152एच	01 नवंबर 2014
सूबेदार	एस के टी सिग्नल	गुरुमुख सिंह	जेसी 730130के	01 नवंबर 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	नरेश कुमार	जेसी 730131एम	01 नवंबर 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	बिक्रम पाल	जेसी 730132पी	01 नवंबर 2014
सूबेदार	एस के टी एम टी	नीकम बालू दादा	जेसी 730134ए	01 दिसंबर 2014
सूबेदार	एस के टी अम्युनेशन	रंजीत कुमार सरकार	जेसी 730138डब्ल्यू	01 दिसंबर 2014
सूबेदार	एस के टी अम्युनेशन	आर सुब्रमनियम	जेसी 730143एफ	01 दिसंबर 2014
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	सिख परमजीत सिंह आत्मा सिंह	जेसी 730146पी	01 दिसंबर 2014
सूबेदार	एस के टी अम्युनेशन	ब्रजेन्द्रा कुमार ओझा	जेसी 730162एम	01 दिसंबर 2014
सूबेदार	एस के टी वेपन	अनिल कुमार पी	जेसी 730195एक्स	01 दिसंबर 2014
सूबेदार	एस के टी एम टी	संगीब सिंह रावत	जेसी 730196ए	01 दिसंबर 2014
सूबेदार	एस के टी एम टी	संजीव कुमार	जेसी 730197एच	01 दिसंबर 2014
सूबेदार	ड्राईवर एम टी	रोहीताशव यादव	जेसी 729546पी	01 जनवरी 2014
सूबेदार	ड्राईवर एम टी	बैजू प्रसाद	जेसी 729682एल	01 जनवरी 2014
सूबेदार	ड्राईवर एम टी	बासे औराव	जेसी 729720डब्ल्यू	01 जनवरी 2014
सूबेदार	ड्राईवर एम टी	प्रकाश चन्द्रा	जेसी 729744ए	01 जनवरी 2014
सूबेदार	ड्राईवर एम टी	रामानन्द सिंह	जेसी 729847वाई	01 जनवरी 2014

सूबेदार	ड्राईवर एम टी	गोविन्द सिंह	जेसी 729849के	01 जनवरी 2014
सूबेदार	ड्राईवर एम टी	अवध लाल सिंह	जेसी 729848एफ	01 जनवरी 2014
सूबेदार	ड्राईवर एम टी	अर्पूवा कुमार बोहरा	जेसी 729891एच	01 जनवरी 2014
सूबेदार	ड्राईवर एम टी	प्रदीप कुमार	जेसी 729932एफ	01 फरवरी 2014
सूबेदार	ड्राईवर एम टी	जोन फ्रेंकलीन	जेसी 729939एल	01 फरवरी 2014
सूबेदार	ड्राईवर एम टी	अभय कुमार सिंह	जेसी 730026डब्ल्यू	01 मार्च 2014
सूबेदार	ड्राईवर एम टी	आनंद कुमार सिंह	जेसी 730034पी	01 अप्रैल 2014
सूबेदार	ड्राईवर एम टी	हीरोन्या रॉय सरकार	जेसी 730089वाई	01 अप्रैल 2014
सूबेदार	ड्राईवर एम टी	राम प्रकाश शर्मा	जेसी 730090एन	01 अप्रैल 2014
सूबेदार	ड्राईवर एम टी	सुशील कुमार पान्डेय	जेसी 730091डब्ल्यू	01 मई 2014
सूबेदार	ड्राईवर एम टी	राजू शर्मा	जेसी 730345एच	01 जून 2014
सूबेदार	ड्राईवर एम टी	नरेन्द्र सिंह	जेसी 730238एफ	01 जून 2014
सूबेदार	ड्राईवर एम टी	वी कालीदास	जेसी 730347एन	01 जून 2014
सूबेदार	ड्राईवर एम टी	विरेन्द्र सिंह	जेसी 730346एल	01 जुलाई 2014
सूबेदार	ड्राईवर एम टी	मथेस टी	जेसी 730396डब्ल्यू	01 अगस्त 2014
सूबेदार	ड्राईवर एम टी	मजुदकर संजय सेशा राव	जेसी 730397वाई	01 सितंबर 2014
सूबेदार	ड्राईवर एम टी	रियाज अहमद पीरजाडे	जेसी 730631के	01 नवंबर 2014
सूबेदार	ड्राईवर एम टी	अनिल कुमार राय	जेसी 730480डब्ल्यू	01 दिसंबर 2014
सूबेदार	एस एच टी	बोम बहादुर राणा	जेसी 729851एफ	01 जनवरी 2014
सूबेदार	एस एच टी	प्रकाश चन्द्र	जेसी 729889एल	01 जनवरी 2014
सूबेदार	एस एच टी	अशोक कुमार	जेसी 729852के	01 जनवरी 2014
सूबेदार	एस एच टी	तरज पाल	जेसी 729922एक्स	01 फरवरी 2014
सूबेदार	एस एच टी	लालजी यादव	जेसी 729925एल	01 फरवरी 2014
सूबेदार	एस एच टी	भगवान सिंह	जेसी 729923ए	01 जुलाई 2014
सूबेदार	एस एच टी	नन्दकिशोर सिंह यादव	जेसी 729924एच	01 जुलाई 2014
सूबेदार	एस एच टी	रविन्द्र सिंह	जेसी 729926एन	01 अगस्त 2014
सूबेदार	एस एच टी	बिरेन्द्र सिंह	जेसी 729933के	01 अगस्त 2014
सूबेदार	एस एच टी	प्रेम सिंह	जेसी 729927डब्ल्यू	01 अगस्त 2014
सूबेदार	एस एच टी	सुरेश प्रसाद द्विवेदी	जेसी 729928वाई	01 नवंबर 2014
सूबेदार	एस एच टी	ओम शरन यादव	जेसी 729991एन	01 नवंबर 2014
सूबेदार	एस एच टी	रमेश प्रसाद	जेसी 730028एफ	01 नवंबर 2014
सूबेदार	एस एच टी	सुनिल कुमार यादव	जेसी 729992डब्ल्यू	01 दिसंबर 2014
सूबेदार	एस एच जी डी	कमल कुमार मुक्ती	जेसी 729249एफ	01 जनवरी 2014
सूबेदार	एस एच जी डी	रधुनाथ यादव	जेसी 729208एक्स	01 जनवरी 2014
सूबेदार	एस एच जी डी	टी मुथु कुमार	जेसी 729209ए	01 जनवरी 2014
सूबेदार	एस एच जी डी	कृष्ण कुमार	जेसी 729210पी	01 जनवरी 2014

सूबेदार	एस एच जी डी	हरीपाल सिंह	जेसी 729282वाई	01 फरवरी 2014
सूबेदार	एस एच जी डी	भरत सिंह	जेसी 729291ए	01 फरवरी 2014
सूबेदार	एस एच जी डी	राज बहादुर सिंह चौहान	जेसी 729401के	01 फरवरी 2014
सूबेदार	एस एच जी डी	बोचम पुल्लेया	जेसी 729402एम	01 फरवरी 2014
सूबेदार	एस एच जी डी	भगवान दास	जेसी 729403पी	01 मार्च 2014
सूबेदार	एस एच जी डी	मौजी राम	जेसी 729404एक्स	01 मार्च 2014
सूबेदार	एस एच जी डी	रमेश चन्द राय	जेसी 729426डब्ल्यू	01 मार्च 2014
सूबेदार	एस एच जी डी	कन्हैया सिंह यादव	जेसी 729427वाई	01 मार्च 2014
सूबेदार	एस एच जी डी	बलबीर सिंह	जेसी 729548ए	01 मार्च 2014
सूबेदार	एस एच जी डी	मुकेश कुमार	जेसी 729549एच	01 मार्च 2014
सूबेदार	एस एच जी डी	रामजी मिश्रा	जेसी 729633एच	01 अप्रैल 2014
सूबेदार	एस एच जी डी	शेर सिंह	जेसी 729722एफ	01 अप्रैल 2014
सूबेदार	एस एच जी डी	अजय कुमार सिंह	जेसी 729723के	01 मई 2014
सूबेदार	एस एच जी डी	दलीप सिंह	जेसी 729724एम	01 मई 2014
सूबेदार	एस एच जी डी	हरुदानन्द स्वेन	जेसी 729725पी	01 मई 2014
सूबेदार	एस एच जी डी	राम सुदेश्वर सिंह	जेसी 729746एल	01 मई 2014
सूबेदार	एस एच जी डी	प्रदीप कुमार	जेसी 729747एन	01 मई 2014
सूबेदार	एस एच जी डी	मोहन सिंह	जेसी 729777एल	01 मई 2014
सूबेदार	एस एच जी डी	संतोष कुमार विश्वकर्मा	जेसी 729806पी	01 जून 2014
सूबेदार	एस एच जी डी	नाहर सिंह	जेसी 729837पी	01 जून 2014
सूबेदार	एस एच जी डी	हरलाल सिंह	जेसी 729838एक्स	01 जुलाई 2014
सूबेदार	एस एच जी डी	गगन सिंह	जेसी 729888एच	01 जुलाई 2014
सूबेदार	एस एच जी डी	भवानी सिंह	जेसी 729840पी	01 जुलाई 2014
सूबेदार	एस एच जी डी	भैया लाल यादव	जेसी 729841एक्स	01 अगस्त 2014
सूबेदार	एस एच जी डी	उमेश चन्द सुत्रधार	जेसी 729843एच	01 अगस्त 2014
सूबेदार	एस एच जी डी	एम वेनु गोपाल	जेसी 729844एल	01 अगस्त 2014
सूबेदार	एस एच जी डी	सुनील कुमार शर्मा	जेसी 729845एन	01 अगस्त 2014
सूबेदार	एस एच जी डी	दीपक वसंत राव कांबले	जेसी 729846डब्ल्यू	01 अगस्त 2014
सूबेदार	एस एच जी डी	अरुन कुमार वर्मा	जेसी 729892एल	01 अगस्त 2014
सूबेदार	एस एच जी डी	विजय भरत सिंह रावत	जेसी 729893एन	01 अगस्त 2014
सूबेदार	एस एच जी डी	हृदय नारायण सिंह	जेसी 729894डब्ल्यू	01 अगस्त 2014
सूबेदार	एस एच जी डी	महेन्द्र नारायण यादव	जेसी 729895वाई	01 अगस्त 2014
सूबेदार	एस एच जी डी	मनी कांत झा	जेसी 730023एच	01 अगस्त 2014
सूबेदार	एस एच जी डी	मनोज कुमार	जेसी 729929एफ	01 सितंबर 2014

सूबेदार	एस एच जी डी	हृदय लाल सिंह	जेसी 729931वाई	01 सितंबर 2014
सूबेदार	एस एच जी डी	जर्नादन सिंह	जेसी 729940ए	01 सितंबर 2014
सूबेदार	एस एच जी डी	भरीगुनाथ साह	जेसी 729941एच	01 अक्टूबर 2014
सूबेदार	एस एच जी डी	भोसले राम सी जालीन्दर	जेसी 729942एल	01 अक्टूबर 2014
सूबेदार	एस एच जी डी	बिरेन्द्र कुमार बल	जेसी 729943एल	01 अक्टूबर 2014
सूबेदार	एस एच जी डी	आन्नदा राव	जेसी 729944डब्ल्यू	01 अक्टूबर 2014
सूबेदार	एस एच जी डी	जसपाल सिंह	जेसी 729945वाई	01 अक्टूबर 2014
सूबेदार	एस एच जी डी	सत्य नारायन	जेसी 729946एफ	01 अक्टूबर 2014
सूबेदार	एस एच जी डी	अमरीक सिंह	जेसी 729947के	01 नवंबर 2014
सूबेदार	एस एच जी डी	वेंकप्पा भावी	जेसी 729999ए	01 नवंबर 2014
सूबेदार	एस एच जी डी	श्रिकांत शर्मा	जेसी 730000एफ	01 नवंबर 2014
सूबेदार	एस एच जी डी	राजेश सिंह	जेसी 730001के	01 नवंबर 2014
सूबेदार	एस एच जी डी	बिरबाहादुर क्षत्रि	जेसी 730002एम	01 नवंबर 2014
सूबेदार	एस एच जी डी	राधानाथ दास	जेसी 730024एल	01 नवंबर 2014
सूबेदार	एस एच जी डी	बिजेन्द्र सिंह	जेसी 730031एफ	01 दिसंबर 2014
सूबेदार	एस एच जी डी	प्रतिम सिंह	जेसी 730003पी	01 दिसंबर 2014
सूबेदार	एस एच जी डी	सुरेन्द्र सिंह यादव	जेसी 730004एक्स	01 दिसंबर 2014
सूबेदार	एस एच जी डी	वेन्कप्पा हुडेड	जेसी 730050एम	01 दिसंबर 2014
सूबेदार	एस एच जी डी	खादक सिंह	जेसी 730051पी	01 दिसंबर 2014
सूबेदार	ओएलपी	सुधिर कुमार यादव	जेसी 730411ए	01 अगस्त 2014
सूबेदार	अर्टिशन डब्ल्यू डब्ल्यू	त्रिलोक सिंह	जेसी 730016एम	01 फरवरी 2014
सूबेदार	अर्टिशन डब्ल्यू डब्ल्यू	शैक खाजा रहमतुल्ला	जेसी 730635ए	01 दिसंबर 2014
सूबेदार	सपोर्टिंग स्टाफ इ आर	सुलतान सिंह नेगि	जेसी 729778एन	01 जुलाई 2014
सूबेदार	सपोर्टिंग स्टाफ इ आर	रामायन राम	जेसी 729780एल	01 जुलाई 2014
सूबेदार	पेन्टर यू	कनन ए के	जेसी 729634एल	01 जनवरी 2014
सूबेदार	पेन्टर यू	नगेन्द्र साह	जेसी 729809एच	01 दिसंबर 2014

राजीव जौहरी,
अवर सचिव

सं. 118, दिनांक 30 अप्रैल 2015—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं:-

नियमित सेना
इन्फैन्ट्री
राजपूत रेजिमेंट
नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में

हवलदार लिपिक गिरीश चन्द्र जोशी

(सं 2992563 ए अब जेसी 481262 एफ)

01 जुलाई 2014

हवलदार लिपिक	दतार सिंह (सं 2990938 पी अब जेसी 481287 एन) 01 सितम्बर 2014
हवलदार लिपिक	संजय कुमार सिंह (सं 2991793 एफ अब जेसी 481288 डब्ल्यू) 01 सितम्बर 2014
हवलदार लिपिक	शेर बहादुर (सं 2992119 के अब जेसी 481289 वाई) 01 सितम्बर 2014
हवलदार लिपिक	आर नागेन्द्रन (सं 2992578 एच अब जेसी 481300 एम) 01 अक्टूबर 2014
हवलदार लिपिक	जितेन्द्र कुमार (सं 2992697 वाई अब जेसी 481301 पी) 01 अक्टूबर 2014
हवलदार लिपिक	अवधेश कुमार शर्मा (सं 2992743 एच अब जेसी 481302 एक्स) 01 अक्टूबर 2014
हवलदार लिपिक	पुरुशोत्तम लाल (सं 2991877 पी अब जेसी 481303 ए) 01 अक्टूबर 2014
हवलदार लिपिक	अशोक कुमार सेहगल (सं 2992714 एन अब जेसी 481304 एच) 01 अक्टूबर 2014
हवलदार लिपिक	रोहताश (सं 2992759 एन अब जेसी 481305 एल) 01 अक्टूबर 2014
हवलदार लिपिक	अरीनजीत चट्टोपाध्याय (सं 2991325 एफ अब जेसी 481317 ए) 01 नवम्बर 2014
हवलदार लिपिक	सी वेंकटा रेडडी (सं 2992953 एच अब जेसी 481318 एच) 01 नवम्बर 2014

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार श्योराम गुर्जर (सं 2990683 ए अब जेसी 481260 डब्ल्यू) *01 अगस्त 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2014 से दी जायेगी)
हवलदार कैलाश चन्द्र गुर्जर (सं 2990662 के अब जेसी 481261 वाई) *15 जुलाई 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 जून 2014 से दी जायेगी)
हवलदार सुमेर सिंह (सं 2990621 ए अब जेसी 481263 के) *01 अगस्त 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी जायेगी)
हवलदार सरोज कुमार घोष (सं 13619082 ए अब जेसी 481264 एम)*07 जुलाई 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी जायेगी)
हवलदार राकेश कुमार (सं 2990462 एन अब जेसी 481265 पी) 01 जुलाई 2014
हवलदार धरम सिंह गुर्जर (सं 2990474 एच अब जेसी 481266 एक्स) 01 जुलाई 2014
हवलदार रामजी लाल (सं 2990650 पी अब जेसी 481267 ए) *07 अगस्त 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी जायेगी)
हवलदार ऐशपाल सिंह (सं 2991083 के अब जेसी 481268 एच) *05 अगस्त 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी जायेगी)
हवलदार रमेश चन्द्रपाल सिंह (सं 2991124 एच अब जेसी 481269 एल) *02 अगस्त 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी जायेगी)
हवलदार अवधेश गुर्जर (सं 2990674 वाई अब जेसी 481270 ए) *10 जुलाई 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी जायेगी)
हवलदार बिश्वनाथ मुगदल (सं 2992271 एक्स अब जेसी 481271 एच) *24 जुलाई 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी जायेगी)
हवलदार बेगराज (सं 2990773 एफ अब जेसी 481272 एल) *14 जुलाई 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी जायेगी)
हवलदार रमेश चन्द्र गुर्जर (सं 2990693 के अब जेसी 481273 एन)*11 अगस्त 2014
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2014 से दी जायेगी)

- हवलदार रतन पाल सिंह (सं 2990020 पी अब जेसी 481274 डब्ल्यू) *05 अगस्त 2014
 *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2014 से दी जायेगी)
- हवलदार कटार सिंह (सं 2991094 डब्ल्यू अब जेसी 481275 वाई) *25 अगस्त 2014
 *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2014 से दी जायेगी)
- हवलदार यशपाल सिंह (सं 2991788 डब्ल्यू अब जेसी 481276 एफ) 01 अगस्त 2014
- हवलदार कंवराज सिंह नरवत (सं 2990658 एफ अब जेसी 481277 के) *03 अगस्त 2014
 *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2014 से दी जायेगी)
- हवलदार कमल सिंह तोमर (सं 2991076 एन अब जेसी 481278 एम) 01 अगस्त 2014
- हवलदार कुंवर लक्ष्मण सिंह (सं 2991917 एल अब जेसी 481279 पी) 01 अगस्त 2014
- हवलदार हरीश कुमार (सं 2990928 एल अब जेसी 481280 के) *11 अगस्त 2014
 *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2014 से दी जायेगी)
- हवलदार चतर सिंह गुर्जर (सं 2998026 एल अब जेसी 481281 एम) 01 अगस्त 2014
- हवलदार सुधाकर (सं 2991035 के अब जेसी 481282 पी)*02 अगस्त 2014
 *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2014 से दी जायेगी)
- हवलदार जितेन्द्र सिंह (सं 2994335 डब्ल्यू अब जेसी 481283 एक्स) 01 अगस्त 2014
- हवलदार राजेश कुमार (सं 2993191 एम अब जेसी 481284 ए) 01 अगस्त 2014
- हवलदार संत कुमार (सं 2993446 एफ अब जेसी 481285 एच) 01 अगस्त 2014
- हवलदार पुष्पेन्द्र सिंह सेंगर (सं 3005562 के अब जेसी 481286 एल) *07 अक्टूबर 2014
 *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 17 अगस्त 2014 से दी जायेगी)
- हवलदार तोता राम (सं 2991684 पी अब जेसी 481290 एन) 01 सितम्बर 2014
- हवलदार महेश कुमार गुर्जर (सं 2992557 एम अब जेसी 481291 डब्ल्यू) *21 सितम्बर 2014
 *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014 से दी जायेगी)
- हवलदार सतबीर सिंह (सं 2990751 एच अब जेसी 481292 वाई) *11 सितम्बर 2014
 *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014 से दी जायेगी)
- हवलदार अंतर सिंह (सं 2990934 वाई अब जेसी 481293 एफ) 01 सितम्बर 2014
- हवलदार बच्चानाथ मंडल (सं 2992833 के अब जेसी 481294 के) *11 सितम्बर 2014
 *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014 से दी जायेगी)
- हवलदार निहाल सिंह रावत (सं 2994915 एल अब जेसी 481295 एम) 01 सितम्बर 2014
- हवलदार पुरन सिंह चौहान (सं 2991380 एक्स अब जेसी 481296 पी) 01 सितम्बर 2014
- हवलदार जगपाल सिंह (सं 2991983 एन अब जेसी 481297 एक्स) 01 सितम्बर 2014
- हवलदार पुरन सिंह (सं 2995138 ए अब जेसी 481298 ए) 01 सितम्बर 2014
- हवलदार नंगू राम (सं 2992220 के अब जेसी 481299 एच) 01 सितम्बर 2014
- हवलदार सुदेश पाल (सं 2990580 एफ अब जेसी 481306 एम) *21 अक्टूबर 2014
 *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014 से दी जायेगी)
- हवलदार बाबू लाल (सं 2992273 एच अब जेसी 481307 डब्ल्यू) *03 नवम्बर 2014
 *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014 से दी जायेगी)

- हवलदार चेतन कुमार (सं 2992648 डब्ल्यू अब जेसी 481308 वाई) *09 अक्टूबर 2014
 *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014 से दी जायेगी)
- हवलदार योगेन्द्र सिंह तोमर (सं 2992464 एक्स अब जेसी 481309 एफ) *10 अक्टूबर 2014
 *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014 से दी जायेगी)
- हवलदार राजेन्द्र सिंह (सं 2993327 एल अब जेसी 481310 डब्ल्यू) *10 अक्टूबर 2014
 *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014 से दी जायेगी)
- हवलदार राम प्रताप सिंह तोमर (सं 2994085 ए अब जेसी 481311 वाई) *10 अक्टूबर 2014
 *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014 से दी जायेगी)
- हवलदार रतीराम गुर्जर (सं 2993175 पी अब जेसी 481312 एफ) 01 अक्टूबर 2014
- हवलदार माल सिंह (सं 2994790 वाई अब जेसी 481313 के) *10 अक्टूबर 2014
 *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014 से दी जायेगी)
- हवलदार महेन्द्र सिंह (सं 2991887 वाई अब जेसी 481314 एम) *03 नवम्बर 2014
 *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 अक्टूबर 2014 से दी जायेगी)
- हवलदार बजरंग लाल गुर्जर (सं 2991522 के अब जेसी 481316 एक्स) *01 दिसम्बर 2014
 *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014 से दी जायेगी)
- हवलदार कुमेर सिंह गुर्जर (सं 2990649 ए अब जेसी 481319 एल) 01 नवम्बर 2014
- हवलदार धमेन्द्र सिंह (सं 2992082 एन अब जेसी 481320 ए) *13 नवम्बर 2014
 *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2014 से दी जायेगी)
- हवलदार उदय सिंह (सं 2992595 एच अब जेसी 481321 एच) 01 नवम्बर 2014
- हवलदार कप्तान सिंह (सं 2992597 एन अब जेसी 481322 एल) 01 नवम्बर 2014
- हवलदार नरेश चन्द्र (सं 2992620 डब्ल्यू अब जेसी 481323 एन) 01 नवम्बर 2014
- हवलदार राधे श्याम (सं 2992624 एम अब जेसी 481324 डब्ल्यू) 01 नवम्बर 2014
- हवलदार सुमेर सिंह (सं 2990987 एक्स अब जेसी 481325 वाई) *10 दिसम्बर 2014
 *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2014 से दी जायेगी)
- हवलदार अशोक कुमार सिंह (सं 2991086 एक्स अब जेसी 481326 एफ) 01 नवम्बर 2014
- हवलदार विजय प्रताप सिंह चौहान (सं 2991558 एच अब जेसी 481327 के) *15 नवम्बर 2014
 *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014 से दी जायेगी)
- हवलदार जितेन्द्र सिंह तोमर (सं 2992634 डब्ल्यू अब जेसी 481328 एम) 01 नवम्बर 2014
- हवलदार हंस राज (सं 2992636 एफ अब जेसी 481329 पी) *10 नवम्बर 2014
 *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2014 से दी जायेगी)
- हवलदार तेज प्रताप सिंह (सं 2991592 ए अब जेसी 481330 के) *15 नवम्बर 2014
 *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2014 से दी जायेगी)
- हवलदार अजाद सिंह (सं 2992340 एच अब जेसी 481331 एम) *19 दिसम्बर 2014
 *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2014 से दी जायेगी)
- हवलदार प्रताप सिंह (सं 2993007 डब्ल्यू अब जेसी 481332 पी) *13 नवम्बर 2014
 *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2014 से दी जायेगी)

- हवलदार धरमेन्द्र सिंह भदोरिया (सं 2993306 पी अब जेसी 481333 एक्स) *18 दिसम्बर 2014
 *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2014 से दी जायेगी)
- हवलदार शेर सिंह (सं 2993963 वाई अब जेसी 481334 ए) 01 नवम्बर 2014
- हवलदार दिनेश कुमार (सं 2994148 एक्स अब जेसी 481335 एच) 01 नवम्बर 2014
- हवलदार हरकेश गुर्जर (सं 2994718 एच अब जेसी 481336 एल) 01 नवम्बर 2014
- हवलदार मकखन लाल (सं 2994723 एन अब जेसी 481337 एन) 01 नवम्बर 2014
- हवलदार हरकेश सिंह गुर्जर (सं 2995595 एन अब जेसी 481338 डब्ल्यू) 01 नवम्बर 2014
- हवलदार सत्यपाल सिंह (सं 2994361 एक्स अब जेसी 481339 वाई) 01 नवम्बर 2014
- हवलदार राजीव कुमार सिंह चौहान (सं 2994202 ए अब जेसी 481340 एन) *27 नवम्बर 2014
 *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 24 नवम्बर 2014 से दी जायेगी)
- हवलदार देवेन्द्र सिंह भदोरिया सेना मेडल (सं 2991749 एक्स अब जेसी 481341 डब्ल्यू) *08 जनवरी 2015
 *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2014 से दी जायेगी)
- हवलदार सुनील कुमार (सं 299154 ए अब जेसी 481342 वाई) 01 दिसम्बर 2014
- हवलदार मान सिंह (सं 2991490 एम अब जेसी 481343 एफ) 01 दिसम्बर 2014
- हवलदार शंभु नाथ सिंह (सं 2991194 एफ अब जेसी 481344 के) *02 दिसम्बर 2014
 *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2014 से दी जायेगी)
- हवलदार मुकेश सिंह (सं 2991448 एन अब जेसी 481345 एम) *19 दिसम्बर 2014
 *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2014 से दी जायेगी)
- हवलदार गोबिन्दा सिंह (सं 2991502 डब्ल्यू अब जेसी 481346 पी) 01 दिसम्बर 2014
- हवलदार भनवर सिंह (सं 2991675 एन अब जेसी 481347 एक्स) 01 दिसम्बर 2014
- हवलदार मधुसुदन घोश (सं 2991203 एक्स अब जेसी 481348 ए) *19 दिसम्बर 2014
 *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2014 से दी जायेगी)
- हवलदार प्रताप सिंह पनवर (सं 2991496 एन अब जेसी 481349 एच) 01 दिसम्बर 2014
- हवलदार कृष्ण कुमार (सं 2991882 ए अब जेसी 481350 एक्स) 01 दिसम्बर 2014
- हवलदार रनबीर सिंह (सं 2990904 एफ अब जेसी 481351 ए) 01 दिसम्बर 2014
- हवलदार देवी सिंह (सं 2992864 के अब जेसी 481352 एच) *03 दिसम्बर 2014
 *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2014 से दी जायेगी)
- हवलदार रणवीर शर्मा (सं 2992817 एम अब जेसी 481353 एल) 01 दिसम्बर 2014
- हवलदार सतिश कुमार (सं 2993340 पी अब जेसी 481354 एन) *22 जनवरी 2015
 *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2014 से दी जायेगी)
- हवलदार नत्थी सिंह (सं 2992302 एम अब जेसी 481355 डब्ल्यू) 26 दिसम्बर 2014
- हवलदार रंजित सिंह चौहान (सं 2991269 एन अब जेसी 481356 वाई) *06 जनवरी 2015
 *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 दिसम्बर 2014 से दी जायेगी)

1.	डब्ल्यूओ	एम एल चौधरी	(सं 8375670	वाई	अब जे सी	835167	के)	15 मई 14*
2.	डब्ल्यूओ	मुन्नावर सुफी सैय्यद	(सं 8375640	एफ	अब जे सी	835168	एम)	02 मई 14*
3.	डब्ल्यूओ	रणजीत सिंह	(सं 8375797	एफ	अब जे सी	835169	पी)	28 मई 14*
4.	डब्ल्यूओ	गौरांग चक्रवर्ती	(सं 8373928	एच	अब जे सी	835170	एफ)	22 अप्रैल 14*
5.	डब्ल्यूओ	जोखू सिंह	(सं 8373967	एफ	अब जे सी	835171	एम)	21 अप्रैल 14*
6.	डब्ल्यूओ	राम कुमार गुप्ता	(सं 8375714	एल	अब जे सी	835172	पी)	20 अप्रैल 14*
7.	डब्ल्यूओ	प्रसन्ना कलिता	(सं 8375791	ए	अब जे सी	835173	एक्स)	03 जून 14*
8.	डब्ल्यूओ	मैन पाल	(सं 8375798	के	अब जे सी	835174	ए)	01 सितम्बर 14*
9.	डब्ल्यूओ	गौरव कनौजिया	(सं 8375815	वाई	अब जे सी	835175	एच)	28 अप्रैल 14*
* (नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में ज्येष्ठता 27 दिसम्बर 13 से दी जायेगी)								
10.	डब्ल्यूओ	संजीव कुमार	(सं 8375817	के	अब जे सी	835176	एल)	21 अप्रैल 14*
11.	डब्ल्यूओ	जाम्बले यू रामचंद्रा	(सं 8375830	एन	अब जे सी	835177	एन)	22 अप्रैल 14*
12.	डब्ल्यूओ	विनय शंकर अग्रवाल	(सं 8375869	ए	अब जे सी	835178	डब्ल्यू)	19 अप्रैल 14*
* (नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में ज्येष्ठता 01 जनवरी 14 से दी जायेगी)								
13.	हवलदार/क्लर्क (एस डी)	शिव प्रसाद साहू	(सं 8431057	एफ	अब जे सी	835179	वाई)	23 जून 14*
14.	हवलदार/क्लर्क (एस डी)	एम नवनीथिन	(सं 8431031	एम	अब जे सी	835180	एन)	23 जून 14*
15.	हवलदार/क्लर्क (एस डी)	जितेन्द्र कुमार	(सं 8431059	एम	अब जे सी	835181	डब्ल्यू)	26 मई 14*
16.	हवलदार/क्लर्क (एस डी)	प्रकाश कुमार	(सं 8431060	एफ	अब जे सी	835182	वाई)	26 मई 14*
17.	हवलदार/क्लर्क (एस डी)	उमेश कुमार	(सं 8431063	पी	अब जे सी	835183	एफ)	26 जून 14*
18.	हवलदार/क्लर्क (एस डी)	सत्यपाल सिंह	(सं 8431072	डब्ल्यू	अब जे सी	835184	के)	09 जून 14*
19.	हवलदार/क्लर्क (एस डी)	भोसले बाबासाहेब पांडुरंग	(सं 8431064	एक्स	अब जे सी	835185	एम)	10 जून 14*
* (नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 14 से दी जायेगी)								
20.	डब्ल्यूओ	शशांकजीत नियोग	(सं 8375870	पी	अब जे सी	835186	पी)	30 अप्रैल 14*
* (नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में ज्येष्ठता 01 फरवरी 14 से दी जायेगी)								
21.	हवलदार/क्लर्क (एस डी)	गोविंद राम	(सं 8431074	एफ	अब जे सी	835187	एक्स)	31 मई 14*
22.	हवलदार/क्लर्क (एस डी)	सतीश कुमार सिंह	(सं 8431065	ए	अब जे सी	835188	ए)	26 मई 14*
23.	हवलदार/क्लर्क (एस डी)	नंथा कुमार जी	(सं 8431066	एच	अब जे सी	835189	एच)	26 मई 14*
* (नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 14 से दी जायेगी)								

24. डब्ल्यूओ वी एस शिंदे (सं 8375872 ए अब जे सी 835190 एक्स) 15 मई 14*
- * (नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में ज्येष्ठता 01 मार्च 14 से दी जायेगी)
25. हवलदार/क्लर्क (एस डी) राजेन्द्र सिंह (सं 8431075 के अब जे सी 835191 ए) 14 जून 14*
- कुशवाहा
26. हवलदार/क्लर्क (एस डी) ई डी सर्वनाराज (सं 8431067 एल अब जे सी 835192 एच) 30 जून 14*
27. हवलदार/क्लर्क (एस डी) सी गोपीनाथ (सं 8431068 एन अब जे सी 835193 एल) 18 जून 14*
28. हवलदार/क्लर्क (एस डी) विजय कुमार यादव (सं 8431076 एम अब जे सी 835194 एन) 20 जून 14*
- * (नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 14 से दी जायेगी)
29. हवलदार/क्लर्क (एस डी) वरेकर आनंद (सं 8431051 ए अब जे सी 835195 डब्ल्यू) 24 सितम्बर 14*
- शिवाजी

* (नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 30 मार्च 14 से दी जायेगी)

ऋषिपाल
अवर सचिव

थल सेना विभाग

सं. 120, दिनांक 30 अप्रैल 2015—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं:—

नियमित सेना

क्वचित कोर

नायब रिसालदार के रैंक में

दफादार/ सुसार कुमार पात्रो (सं0 15469634एफ अब जेसी-246779के) *01 दिसम्बर 2014
क्लर्क

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014 से दी जाती है)

दफादार/ राम सिंह वैश (सं0 15469560एक्स अब जेसी-246800एफ) *03 दिसम्बर 2014
क्लर्क

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2014 से दी जाती है)

दफादार/ जय राम प्रसाद (सं0 15466821पी अब जेसी-246780वाई) *06 दिसम्बर 2014
एसकेटी

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2014 से दी जाती है)

दफादार लीलू राम (सं0 15464274एम अब जेसी-246713एन) *04 अक्टूबर 2014

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014 से दी जाती है)

दफादार रियाजुद्दीन (सं0 15463751डब्ल्यू अब जेसी-246742एच) 01 दिसम्बर 2014

दफादार दिलीप कुमार (सं0 15462156ए अब जेसी-246746वाई) 01 नवम्बर 2014

दफादार रामजीत सिंह (सं0 1099737एल अब जेसी-246752एम) 01 दिसम्बर 2014

दफादार मनोरंजन पांडा (सं0 15463021एल अब जेसी-246777वाई) 01 दिसम्बर 2014

दफादार विजय कुमार (सं0 15464915एन अब जेसी-246783एम) *02 दिसम्बर 2014

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2014 से दी जाती है)

दफादार	असिम कुमार नंदी	(सं० 15463101एच अब जेसी-246786ए)	*01 दिसम्बर 2014
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014 से दी जाती है)			
दफादार	के व्यंकटेशन	(सं० 15468065एम अब जेसी-246787एच)	01 दिसम्बर 2014
दफादार	केशवा नंद	(सं० 15468219एन अब जेसी-246788एल)	01 दिसम्बर 2014
दफादार	संजीव कुमार	(सं० 15469192एन अब जेसी-246791एल)	01 दिसम्बर 2014
दफादार	बलदेव सिंह	(सं० 15467578पी अब जेसी-246792एन)	*06 दिसम्बर 2014
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2014 से दी जाती है)			
दफादार	दिलीप कुमार चौधरी	(सं० 15467809ए अब जेसी-246793डब्ल्यू)	*26 दिसम्बर 2014
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2014 से दी जाती है)			
दफादार	संजय कुमार	(सं० 15467870के अब जेसी-246840एच)	01 जनवरी 2015
दफादार	अमरजीत यादव	(सं० 15464569एच अब जेसी-246798पी)	*02 दिसम्बर 2014
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2014 से दी जाती है)			
दफादार	दिनेश चन्द	(सं० 15464344ए अब जेसी-246801के)	*09 दिसम्बर 2014
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2014 से दी जाती है)			
दफादार	विजय कुमार	(सं० 15468521एम अब जेसी-246802एम)	*09 दिसम्बर 2014
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2014 से दी जाती है)			
दफादार	राजेश सिंह	(सं० 15467048ए अब जेसी-246808एन)	*17 दिसम्बर 2014
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 06 दिसम्बर 2014 से दी जाती है)			
दफादार	सुरेन्द्र बहादुर सिंह	(सं० 15464530डब्ल्यू अब जेसी-246809डब्ल्यू)	*15 दिसम्बर 2014
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014 से दी जाती है)			
दफादार	नंद लाल	(सं० 15465537एम अब जेसी-246810एल)	*15 दिसम्बर 2014
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 06 दिसम्बर 2014 से दी जाती है)			
दफादार	मोहन लाल	(सं० 15463956एल अब जेसी-246829के)	01 जनवरी 2015
दफादार	शिव सिंह	(सं० 15464973एक्स अब जेसी-246811एन)	01 जनवरी 2015
दफादार	सरवन कुमार	(सं० 15465534वाय अब जेसी-246812डब्ल्यू)	01 जनवरी 2015
दफादार	जयदीप सिंह	(सं० 15465843एफ अब जेसी-246813वाई)	01 जनवरी 2015
दफादार	मुकेश कुमार	(सं० 15467939एच अब जेसी-246819ए)	*29 दिसम्बर 2014
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 अगस्त 2014 से दी जाती है)			
दफादार	जंग शेर अली	(सं० 15461334एल अब जेसी-246839एन)	01 जनवरी 2015
दफादार	प्रभजीत सिंह	(सं० 15467238एम अब जेसी-246845एफ)	01 जनवरी 2015
दफादार	भुपेन्द्र सिंह	(सं० 15464299वाई अब जेसी-246846के)	01 जनवरी 2015
दफादार	संदेश कुमार	(सं० 15462499डब्ल्यू अब जेसी-246852एक्स)	01 जनवरी 2015
दफादार	मराठे प्रमोद उखारडु	(सं० 15469632डब्ल्यू अब जेसी-246815के)	01 जनवरी 2015

दफादार	किशन सिंह	(सं० 15462381पी अब जेसी-246781एफ)	*26 नवम्बर 2014
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 22 अक्टूबर 2014 से दी जाती है)			
दफादार	बनशी लाल लोहार	(सं० 15461695के अब जेसी-246804एक्स)	*01 जनवरी 2015
दफादार	एस एन सिंह राठोड़	(सं० 1099607एच अब जेसी-246805ए)	01 जनवरी 2015
दफादार	सौन्दारा राजन आर	(सं० 15461297एच अब जेसी-246807एल)	01 जनवरी 2015
दफादार	रविन्दर कुमार	(सं० 15467038डब्ल्यू अब जेसी-246814एफ)	01 जनवरी 2015
दफादार	कदम चंद्रकान्त प्राल	(सं० 15462794वाई अब जेसी-246825एन)	01 जनवरी 2015
दफादार	ठाकुर सिंह	(सं० 15463414एफ अब जेसी-246826डब्ल्यू)	01 जनवरी 2015
दफादार	श्रीनिवासा राव एम	(सं० 15462504डब्ल्यू अब जेसी-246827वाई)	01 जनवरी 2015
दफादार	हनमप्पा मुरारी	(सं० 15463500एम अब जेसी-246828एफ)	01 जनवरी 2015
दफादार	सुरेश कुमार	(सं० 15464127के अब जेसी-246830वाई)	01 जनवरी 2015
दफादार	व्यंकटा नायडु कन्नम	(सं० 15467002एक्स अब जेसी-246831एफ)	*05 जनवरी 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 22 नवम्बर 2014 से दी जाती है)			
दफादार	सत्या नारायना वेलपुरी	(सं० 15467036एल अब जेसी-246832के)	*09 जनवरी 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2014 से दी जाती है)			
दफादार	दुर्गा प्रसाद के	(सं० 15467242पी अब जेसी-246834पी)	*10 जनवरी 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2014 से दी जाती है)			
दफादार	संजय कुमार	(सं० 15464002एम अब जेसी-246841एल)	01 जनवरी 2015
दफादार	योगेश कुमार	(सं० 15469760एन अब जेसी-246842एन)	01 जनवरी 2015
दफादार	राजेन्द्र कुमार	(सं० 15464870वाई अब जेसी-246843डब्ल्यू)	01 जनवरी 2015
दफादार	राजेश कुमार	(सं० 15464380एल अब जेसी-246847एम)	*06 जनवरी 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2015 से दी जाती है)			
दफादार	धन्नजय कुमार	(सं० 15466196वाई अब जेसी-246848पी)	*03 जनवरी 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2015 से दी जाती है)			
दफादार	विनय कुमार सिंह	(सं० 15463433एम अब जेसी-246857डब्ल्यू)	*01 जनवरी 2015
दफादार	अजीबर रहमान	(सं० 15463726एक्स अब जेसी-246859एफ)	*02 जनवरी 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2013 से दी जाती है)			
दफादार	मौलामिस्कील शेख	(सं० 15463478एम अब जेसी-246858वाई)	*02 जनवरी 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2015 से दी जाती है)			
दफादार	मधु सुधानन पिल्ले	(सं० 15465676डब्ल्यू अब जेसी-246863के)	*01 जनवरी 2015
दफादार	कृष्ण लाल	(सं० 15468293पी अब जेसी-246789एन)	*23 दिसम्बर 2014
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2014 से दी जाती है)			

दफादार	मुन्तजार अली	(सं0 15468617पी अब जेसी—246860डब्ल्यू)	*05 जनवरी 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2015 से दी जाती है)			
दफादार	मनोज कुमार चौरेसिया	(सं0 15462926एफ अब जेसी—246865पी)	*06 जनवरी 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014 से दी जाती है“)			
दफादार	सुरेन्द्र कुमार	(सं0 15463094एक्स अब जेसी—246867ए)	*09 जनवरी 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2015 से दी जाती है)			
दफादार/ क्लर्क	घनेन्द्र कुमार शर्मा	(सं0 15469613एल अब जेसी—246878एम)	*07 जनवरी 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2015 से दी जाती है)			
दफादार/ क्लर्क	दुर्गा कान्त गुरमैता	(सं0 15469568के अब जेसी—246879पी)	*08 जनवरी 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2015 से दी जाती है)			
दफादार/ क्लर्क	राजेन्द्र सिंह	(सं0 15469542पी अब जेसी—246849एक्स)	*09 जनवरी 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2015 से दी जाती है)			
दफादार	महेन्द्र यादव	(सं0 15463201एन अब जेसी—246821एक्स)	*10 जनवरी 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2014 से दी जाती है)			
दफादार	शिव बहादुर	(सं0 15463995के अब जेसी—246822ए)	*10 जनवरी 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2015 से दी जाती है)			
दफादार	ब्रह्म प्रकाश	(सं0 15464837एफ अब जेसी—246823एच)	*10 जनवरी 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2015 से दी जाती है)			
दफादार	नरेन्द्र सिंह	(सं0 15487960एम अब जेसी—246824एल)	01 जनवरी 2015
दफादार	सुनिल कुमार	(सं0 15464273के अब जेसी—246865एक्स)	01 जनवरी 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2014 से दी जाती है)			
दफादार	गत्तीमी सतीश कुमार	(सं0 15464306के अब जेसी—246836ए)	01 जनवरी 2015
दफादार	विरेन्द्र सिंह	(सं0 15463705एफ अब जेसी—246867एच)	01 जनवरी 2015
दफादार	प्रहलाद सिंह	(सं0 15463530के अब जेसी—246838एल)	01 जनवरी 2015
दफादार	यशपाल सिंह	(सं0 15464116एक्स अब जेसी—246844वाई)	*01 जनवरी 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014 से दी जाती है)			
दफादार	नयन किशोर बल	(सं0 15462388वाई अब जेसी—246850एम)	01 जनवरी 2015
दफादार	मुन्ना लाल प्रसाद	(सं0 15462451एच अब जेसी—246851पी)	01 जनवरी 2015
दफादार	प्रकाशन के	(सं0 15462500ए अब जेसी—246853ए)	01 जनवरी 2015
दफादार	असलम अली	(सं0 15468834एल अब जेसी—246861वाई)	01 जनवरी 2015
दफादार	चन्द्रामा चौहान	(सं0 15464607एन अब जेसी—246862एफ)	01 जनवरी 2015
दफादार	शैलेन्द्र कुमार	(सं0 15466355एल अब जेसी—246869एल)	*12 जनवरी 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2014 से दी जाती है)			

दफादार	हाथी सिंह राठोड़	(सं० 15463072वाय अब जेसी-246886एल)	*16 जनवरी 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2015 से दी जाती है)			
दफादार	कमलेश कुमार	(सं० 15461992एक्स अब जेसी-246891डब्ल्यू)	*21 जनवरी 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014 से दी जाती है)			
दफादार/ क्लर्क	होरी सिंह	(सं० 15469509एक्स अब जेसी-246656एक्स)	01 अगस्त 2014
दफादार एसकेटी	आनंद प्रकाश वशिष्ठ	(सं० 15466711ए अब जेसी-246737एक्स)	01 अक्टूबर 2014
दफादार/ क्लर्क	लुंग नंदलाला वाहिबा	(सं० 15468831एक्स अब जेसी-246694एन)	*23 सितम्बर 2014
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014 से दी जाती है)			
दफादार	इन्तेजार अली	(सं० 1089999एनअब जेसी-246747एफ)	01 नवम्बर 2014
दफादार	त्रिलोक चन्द	(सं० 15463315वाय अब जेसी-246750एफ)	01 नवम्बर 2014
दफादार	किसमत सिंह	(सं० 15463902के अब जेसी-246751एफ)	01 नवम्बर 2014
दफादार	राम पॉल	(सं० 15465826एफ अब जेसी-246755ए)	*31 अक्टूबर 2014
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014 से दी जाती है)			
दफादार	मंगलेश कुमार यादव	(सं० 15465995एच अब जेसी-246756एच)	01 नवम्बर 2014
दफादार	सुरेश बाबु के	(सं० 15466171एम अब जेसी-246757एल)	01 नवम्बर 2014
दफादार	अरविन्द कुमार	(सं० 15465029डब्ल्यू अब जेसी-246758एन)	01 नवम्बर 2014
दफादार	धरमेन्द्र कुमार द्विवेदी	(सं० 15464908एक्स अब जेसी-246760एल)	*03 नवम्बर 2014
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2014 से दी जाती है)			
दफादार	बलवान सिंह	(सं० 15464090एन अब जेसी-246763वाई)	*03 नवम्बर 2014
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014 से दी जाती है)			
दफादार	बलजीत सिंह	(सं० 15464186डब्ल्यू अब जेसी-246764एफ)	*03 नवम्बर 2014
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014 से दी जाती है)			
दफादार	शुभाष चन्द्र	(सं० 15464240वाय अब जेसी-246765के)	*03 नवम्बर 2014
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014 से दी जाती है)			
दफादार	गोटने संजय राजाराम	(सं० 15461331एक्स अब जेसी-246748के)	*03 नवम्बर 2014
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2014 से दी जाती है)			
दफादार	फरियाद अली	(सं० 1099079के अब जेसी-246768एक्स)	*03 नवम्बर 2014
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2014 से दी जाती है)			
दफादार	सावंत अजय अनंत	(सं० 15462696वाय अब जेसी-246769ए)	*03 नवम्बर 2014
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2014 से दी जाती है)			
दफादार	राज कुमार मंडल	(सं० 15464803एन अब जेसी-246749एम)	01 नवम्बर 2014
दफादार	विजेन्द्र सिंह	(सं० 15464283एन अब जेसी-246753पी)	01 नवम्बर 2014

दफादार	धरमेन्द्र सिंह	(सं0 15464567एक्स अब जेसी—246754एक्स)	*24 नवम्बर 2014
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014 से दी जाती है)			
दफादार	धावरे बाबासाहेब माछिन्द्रा	(सं0 15465804एच अब जेसी—246761एन)	*05 नवम्बर 2014
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2014 से दी जाती है)			
दफादार	अमरजीत सिंह	(सं0 15464619एच अब जेसी—246766एम)	*05 नवम्बर 2014
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014 से दी जाती है)			
दफादार	कुलदीप	(सं0 15463399एक्स अब जेसी—246767पी)	*05 नवम्बर 2014
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014 से दी जाती है)			
दफादार	मार्टीन समद	(सं0 15462287एल अब जेसी—246773एच)	*10 नवम्बर 2014
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014 से दी जाती है)			
दफादार	राम अवध सिंह यादवा	(सं0 15462438वाय अब जेसी—246775एन)	*14 नवम्बर 2014
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2014 से दी जाती है)			
दफादार	अमित शर्मा	(सं0 15463554एन अब जेसी—246770पी)	*07 नवम्बर 2014
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 28 अक्टूबर 2014 से दी जाती है)			
दफादार	अरुन कुमार पाण्डे	(सं0 15464083एक्स अब जेसी—246771एक्स)	*06 नवम्बर 2014
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2014 से दी जाती है)			
दफादार	सुनिल पी टी	(सं0 15464021एक्स अब जेसी—246776डब्ल्यू)	*14 नवम्बर 2014
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2014 से दी जाती है)			
दफादार	कटकर संतोष हरिदास	(सं0 15464060डब्ल्यू अब जेसी—246772ए)	*06 नवम्बर 2014
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2014 से दी जाती है)			
दफादार	नवीन कुमार	(सं0 15503410डब्ल्यू अब जेसी—246778एफ)	*22 नवम्बर 2014
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 04 अक्टूबर 2014 से दी जाती है)			
दफादार	नानी डेब शर्मा	(सं0 15464986पी अब जेसी—246762डब्ल्यू)	*05 नवम्बर 2014
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2014 से दी जाती है)			
दफादार	मंगे राम	(सं0 15465208डब्ल्यू अब जेसी—246774एल)	*11 नवम्बर 2014
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014 से दी जाती है)			
दफादार	उमेश कुमार मिश्रा	(सं0 15462660ए अब जेसी—246743एल)	01 दिसम्बर 2014
दफादार	धीर सिंह	(सं0 15464681पी अब जेसी—246782एफ)	*02 दिसम्बर 2014
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2014 से दी जाती है)			
दफादार/ क्लर्क	अजय कुमार	(सं0 15469608ए अब जेसी—246799एक्स)	01 दिसम्बर 2014
दफादार	इंदरजीत सिंह	(सं0 15465390एफ अब जेसी—246721एम)	*29 अक्टूबर 2014
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014 से दी जाती है)			

दफादार	कुलदीप सिंह	(सं० 15466857एन अब जेसी-246745डब्ल्यु)	*02 दिसम्बर 2014
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 अक्टूबर 2014 से दी जाती है)			
दफादार	के अंजानेयुलु	(सं० 15466455डब्ल्यु अब जेसी-246759डब्ल्यु)	01 दिसम्बर 2014
दफादार	चरन सिंह जाखड़	(सं० 15466685के अब जेसी-246784पी)	01 दिसम्बर 2014
दफादार	कृष्ण कुमार	(सं० 15467456एल अब जेसी-246785एक्स)	01 दिसम्बर 2014
दफादार	जीत नारायण शुक्ला	(सं० 1099611एल अब जेसी-246790एच)	01 दिसम्बर 2014
दफादार	जगसीर सिंह	(सं० 15464406पी अब जेसी-246795एफ)	*03 दिसम्बर 2014
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2014 से दी जाती है)			
दफादार	नरेश कुमार	(सं० 15463941एच अब जेसी-246796एफ)	*03 दिसम्बर 2014
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2014 से दी जाती है)			
दफादार	निसार अहमद	(सं० 15470356एल अब जेसी-246797एम)	*03 दिसम्बर 2014
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2014 से दी जाती है)			
दफादार	लक्ष्मण सिंह शेखावत	(सं० 15461600वाय अब जेसी-246726एल)	*01 अक्टूबर 2014
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2012 से दी जाती है)			

राजीव जौहरी
अवर सचिव

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

स. 121, दिनांक 01 मई 2015&&राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नत करते हैं :-

श्री वाई सुधाकर राव को भंडार अधिकारी, ग्रुप 'बी' (राजपत्रित) के रूप में दो वर्ष की परखावधि पर डी आर डी ओ में 01 जनवरी 2015 (पूर्वाहन) से पै बैंड 2 में रू० 9300—34800 (पी बी 2) एवं ग्रेड पे रू० 4600 पर ।

श्री एम प्रभु दास को भंडार अधिकारी, ग्रुप 'बी' (राजपत्रित) के रूप में दो वर्ष की परखावधि पर डी आर डी ओ में 01 जनवरी 2015 (पूर्वाहन) से पै बैंड 2 में रू० 9300—34800 (पी बी 2) एवं ग्रेड पे रू० 4600 पर ।

श्री पी उमा शंकर को भंडार अधिकारी, ग्रुप 'बी' (राजपत्रित) के रूप में दो वर्ष की परखावधि पर डी आर डी ओ में 01 जनवरी 2015 (पूर्वाहन) से पै बैंड 2 में रू० 9300—34800 (पी बी 2) एवं ग्रेड पे रू० 4600 पर ।

श्री टी अनूप सिंह को भंडार अधिकारी, ग्रुप 'बी' (राजपत्रित) के रूप में दो वर्ष की परखावधि पर डी आर डी ओ में 01 जनवरी 2015 (पूर्वाहन) से पै बैंड 2 में रू० 9300—34800 (पी बी 2) एवं ग्रेड पे रू० 4600 पर ।

श्रीमती बी ललिता को भंडार अधिकारी, ग्रुप 'बी' (राजपत्रित) के रूप में दो वर्ष की परखावधि पर डी आर डी ओ में 01 जनवरी 2015 (पूर्वाहन) से पै बैंड 2 में रू० 9300—34800 (पी बी 2) एवं ग्रेड पे रू० 4600 पर ।

श्री वी मुरलीधर को वरिष्ठ लेखा अधिकारी-II, ग्रुप 'ए' (राजपत्रित) के रूप में दो वर्ष की परखावधि पर डी आर डी ओ में 20 जुलाई 2009 (पूर्वाहन) से पै बैंड 3 में रू० 15600—39100 (पी बी 3) एवं ग्रेड पे रू० 5400 पर

श्रीमती एस विजया को वरिष्ठ भंडार अधिकारी-II, ग्रुप 'ए'(राजपत्रित) के रूप में दो वर्ष की परखावधि पर डी आर डी ओ में 01 जनवरी 2015 (पूर्वाहन) से पै बैंड 3 में रु0 15600—39100 (पी बी 3) एवं ग्रेड पे रु0 5400 पर ।

श्रीमती जी वारालक्ष्मी को वरिष्ठ भंडार अधिकारी-II, ग्रुप 'ए'(राजपत्रित) के रूप में दो वर्ष की परखावधि पर डी आर डी ओ में 01 जनवरी 2015 (पूर्वाहन) से पै बैंड 3 में रु0 15600—39100 (पी बी 3) एवं ग्रेड पे रु0 5400 पर ।

श्रीमती जे विजया को वरिष्ठ भंडार अधिकारी-II, ग्रुप 'ए'(राजपत्रित) के रूप में दो वर्ष की परखावधि पर डी आर डी ओ में 01 जनवरी 2015 (पूर्वाहन) से पै बैंड 3 में रु0 15600—39100 (पी बी 3) एवं ग्रेड पे रु0 5400 पर ।

श्री आर वेंकटेश को वरिष्ठ भंडार अधिकारी-II, ग्रुप 'ए'(राजपत्रित) के रूप में दो वर्ष की परखावधि पर डी आर डी ओ में 01 जनवरी 2015 (पूर्वाहन) से पै बैंड 3 में रु0 15600—39100 (पी बी 3) एवं ग्रेड पे रु0 5400 पर ।

श्री पी कृष्णैया को वरिष्ठ भंडार अधिकारी-II, ग्रुप 'ए'(राजपत्रित) के रूप में दो वर्ष की परखावधि पर डी आर डी ओ में 01 जनवरी 2015 (पूर्वाहन) से पै बैंड 3 में रु0 15600—39100 (पी बी 3) एवं ग्रेड पे रु0 5400 पर ।

श्री जी जी शंकरा राव को वरिष्ठ भंडार अधिकारी-II, ग्रुप 'ए'(राजपत्रित) के रूप में दो वर्ष की परखावधि पर डी आर डी ओ में 01 जनवरी 2015 (पूर्वाहन) से पै बैंड 3 में रु0 15600—39100 (पी बी 3) एवं ग्रेड पे रु0 5400 पर ।

श्री ए हनुमंता राव को वरिष्ठ भंडार अधिकारी-II, ग्रुप 'ए'(राजपत्रित) के रूप में दो वर्ष की परखावधि पर डी आर डी ओ में 01 फरवरी 2015 (पूर्वाहन) से पै बैंड 3 में रु0 15600—39100 (पी बी 3) एवं ग्रेड पे रु0 5400 पर ।

श्री ए डी मोरे को वरिष्ठ भंडार अधिकारी-II, ग्रुप 'ए'(राजपत्रित) के रूप में दो वर्ष की परखावधि पर डी आर डी ओ में 01 जनवरी 2015 (पूर्वाहन) से पै बैंड 3 में रु0 15600—39100 (पी बी 3) एवं ग्रेड पे रु0 5400 पर ।

राजीव रंजन सिन्हा
उपनिदेशक (कार्मिक एए2)

थल सेना विभाग

सं. 122, दिनांक 1 मई 2015—राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारी को उनके निजी कारणवश निवेदन पर समयपूर्व निवृत्ति, उनके नाम के समक्ष लिखी तिथि से, अनुमति प्रदान करते हैं:-

नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

(अस्थाई कमीशन)

निवृत्ति

निजी संख्या	रैंक	नाम	सेवानिवृत्ति की तिथि
डी एस -12397के	मेजर	संदीप सिंह	04-12-2014 (प्रातः)

एच एस संधू
ब्रिग
डीडीजीडीएस (पी)

थलसेना विभाग

सं. 123, दिनांक 1 मई 2015—राष्ट्रपति थलसेना अनुदेश 37/78 के अधीन निम्नलिखित अधिकारी को थल सेना से सेवानिवृत्त करते हैं:-

नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

(स्थायी कमीशन)

सेवानिवृत्ति

निजी संख्या	रैंक	नाम	सेवानिवृत्ति की तिथि
डी आर-10325एफ	कर्नल (टी एस)	पी जी जोषी	31-12-2014 (सांय)

एच एस संधू
ब्रिग
डीडीजीडीएस (पी)

थल सेना विभाग

सं. 124, दिनांक 5 मई 2015—राष्ट्रपति थलसेना अनुदेश 15/79 के अधीन निम्नलिखित अधिकारी को थल सेना से निवृत्त करते हैं:-

नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

(अल्पकालीन कमीशन)

निवृत्ति

निजी संख्या	पद एवं नाम	टिप्पणी
डी एस-12113पी	मेजर (सुश्री) शीमा सिंह	14-12-2014 (सांय)

एच एस संधू
ब्रिग
डीडीजीडीएस (पी)

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 16th May 2015

D(MS) SECTION

No. 109, dated 27th April 2015— The President of India has made the following appointment on his Honorary Personal Staff with effect from 01 Jan 2015 :—

Honorary (Air) ADC

Air Mshl P P Reddy, VM (15008) F(P)

REVATI RAMAN

Under Secy.

ARMY BRANCH

No. 110, dated 27th April 2015—The President is pleased to make the following appointment under AI 15/79 as amended:—

REGULAR ARMY

ARMY DENTAL CORPS

(SHORT SERVICE COMMISSION)

TO BE CAPTAIN (ON PROBATION)

(Antedate of Commission)

DS-12469H, Capt Ankur Thakral - 18-05-2012

with seniority for pay and promotion from 18-11-2008 (includes 42 months antedate, 36 months antedate for acquiring MDS degree from AB Shetty Memorial Institute of Dental Sciences, Mangalore and 06 months for holding hospital appointment as a Lecturer in AB Shetty Memorial Institute of Dental Sciences, Mangalore, for the period from 15-06-2011 to 15-05-2012, which will not count for gratuity).

Ministry of Defence Gazette Notification published in the Gazette of India dated 22 Feb 2014, pertaining to the Officer is hereby cancelled.

HS SANDHU

Brig

DDGDS (P)

ARMY BRANCH

No. 111, dated 27th April 2015—The President is pleased to make the following appointments :—

TERRITORIAL ARMY

TERRITORIAL COMMISSION

TO BE LT

Jai Upadhyaya	TA-42938	(Infantry)	30 Aug 2014
Harteg Singh Nannar	TA-42939	(Infantry)	01 Sep 2014
Manminder Singh Bhasin	TA-42940	(Infantry)	03 Sep 2014
Malve Chinmay Satish	TA-42941	(Infantry)	04 Sep 2014
Sanjay Maan	TA-42942	(Infantry)	08 Sep 2014
Aneesh Awasthi	TA-42945	(Infantry)	30 Aug 2014
Chetan Sharma	TA-42946	(Infantry)	29 Sep 2014
Prageet Kumar	TA-42947	(Infantry)	25 Oct 2014
Angad Singh Sodhi	TA-42948	(Infantry)	20 Oct 2014
Shriniwas Rao	TA-42949	(Infantry)	24 Oct 2014
Rahul Rathee	TA-42951	(Infantry)	13 Nov 2014
Sahil Chopra	TA-42955	(Infantry)	17 Nov 2014
Shadab Jamal	TA-42954	(Engr TA)	07 Apr 2014

Gautam Kumar	TA-42950	(Engr TA)	10 Nov 2014
Amit Gupta	TA-42952	(Engr TA)	20 Jan 2014
Deepak Sadashiv Khot	TA-42953	(Engr TA)	20 Jan 2014

B.B. JOSHI
Under Secy.

INTEGRATED HQs OF MOD (ARMY)
(MILITARY ENGINEER SERVICES)

No. 112, dated 28th April 2015—The President is pleased to appoint the following officers as the designation showed before their name from the date as mentioned against their name :—

Sr No.	MES No	Rank	Name (Shri / Smt / Ms)	Date
1.	186065	AO-II	Presanna Sundaresh	20 Jun 2012 (FN)
2.	505816	AO-II	Rajesh Kumar Mahajan	08 Nov 2011 (FN)
3.	191962	AO-II	RS Mandawat	29 Jun 2011 (FN)
4.	310949	AO-II	Janam Singh	16 Oct 2009 (FN)
5.	311253	AO-II	Ranjit Singh Verma	16 Oct 2009 (FN)
6.	188666	AO-II	PR Marbhal	09 May 2007 (FN)
7.	129339	AO-II	N Gopal	23 Jul 2011 (FN)
8.	502536	AO-II	Autar Krishan Koul	01 Nov 2011 (FN)
9.	311171	AO-II	Sushil Kumar Korla	16 Oct 2009 (FN)
10.	134262	AO-II	MS Sekar	11 Mar 2011 (FN)
11.	502439	AO-II	Bansi Lal Sharma	31 Oct 2011 (FN)
12.	503402	AO-II	Pardeep Mohan Pargal	31 Oct 2011 (FN)
13.	311052	AO-II	Joginder Paul	21 Nov 2011 (FN)
14.	311305	AO-II	Chuni Lal Sharma	16 OCT 2009 (FN)
15.	3410825	AO-II	Sukhmit Singh	16 Sep 2009 (FN)
16.	159539	AO-II	Ramesh N Mankale	17 Dec 2009 (FN)
17.	123410	AO-II	AG Kajrolkar	19 May 2010 (FN)
18.	168497	AO-II	Mal Chand Khatik	11 Jun 2011 (FN)
19.	311381	AO-II	Rajinder Singh Manhas	16 Sep 2009 (FN)
20.	311315	AO-II	Vijay Kumar	16 Oct 2009 (FN)
21.	311457	AO-II	Makhan Lal Koul	27 Jan 2010 (FN)
22.	311314	AO-II	Paras Ram	16 OCT 2009 (FN)
23.	170514	AO-II	Ajit Singh Raghbir Sing Garcha	15 Jan 2011 (FN)
24.	168629	AO-II	Ram Gopal Meena	30 Apr 2007 (FN)
25.	186855	AO-II	AK Chhagan Lal Patel	14 Jun 2011(FN)
26.	184814	AO-II	Ruda Ram Sutrar	29 Nov 2010 (FN)
27.	167825	AO-II	A K Chanwaria	21 Mar 2011 (FN)
28.	310873	AO-II	Suman Sikka	04 Aug 2009 (FN)
29.	311071	AO-II	Charanjit Kaur	28 Jun 2008 (FN)
30.	419861	AO-II	Sunder Lal Koshta	29 Sep 2002 (FN)
31.	111755	AO-II	Mina Newar	14 Nov 2008 (FN)

Sr No.	MES No	Rank	Name (Shri / Smt / Ms)	Date
32.	181495	AO-II	KV Lakshmi Kumari	21 Jun 2012 (FN)
33.	170373	AO-II	C Subramanyam	23 Jul 2012 (FN)
34.	368090	AO-II	K Thankachan	22 Jun 2012 (FN)
35.	505519	AO-II	Keval Krishan	31 Oct 2011 (AN)
36.	448066	AO-II	Sunil Kapoor	06 Jun 2012 (FN)
37.	183237	AO-II	TS Narayana Murty	09 Jan 2012 (FN)
38.	186123	AO-II	Ramesh Kumar Meena	08 Jun 2007 (FN)
39.	116851	AO-II	AK Aravindakshan	09 Jan 2012 (FN)
40.	185004	AO-II	VV Muraleedharan Nair	07 Jan 2012 (FN)
41.	502213	AO-II	Charan Dass	16 Oct 2009 (FN)
42.	505516	AO-II	Man Mohan	01 Nov 2011 (FN)
43.	505361	AO-II	Farooq Ahmed Bhat	06 Dec 2011 (FN)
44.	311233	AO-II	Karam Singh Rana	16 Oct 2009 (FN)
45.	186006	AO-II	Ravindran K	06 Jan 2012 (FN)
46.	366463	AO-II	KM Abrham	23 Jan 2012 (FN)
47.	504771	AO-II	Kali Dass	27 Feb 2012 (FN)
48.	243376	AO-II	N Thampi	06 Jan 2012 (FN)
49.	167443	AO-II	A Sitaraman	06 Jan 2012 (FN)
50.	170088	AO-II	D Ravichandran	06 Jan 2012 (FN)
51.	129294	AO-II	S P Sundaramoorthy	02 Jan 2012 (FN)

MANMOHAN
Under Secy.

ARMY BRANCH

No. 113, dated 28th April 2015—The President is pleased to make the following promotion: —

REGULAR ARMY PERMANENT COMMISSION (ARMY MEDICAL CORPS)

Air Cmde (& equiv) to be AVM (& equiv)

CK Ranjan, VSM (MR-04162H)(AF-16015K)	01-08-14, with notional seniority without effect on pay and pension from 02-07-14.
--	--

Surg Cmde (& Equivalent) to be Surg R Adm (& Equivalent)

VSSR Ryali, VSM (MR-04343N)(75271W)	10-10-14, with notional seniority without effect on pay & pension from 03-10-14.
--	--

AGp Capt (& Equivalent) to be Air Cmde (& Equivalent)

Raj Saxena (MR-04774A)(AF-17236H)	02-06-14, with notional seniority without effect on pay & pension from 03-04-14.
CS Thakur (MR-05036H)(AF-17684S)	21-07-14, with notional seniority without effect on pay & pension from 01-06-14.
VR Dubey (MR-06190N)(AF-18055K)	14-07-14, with notional seniority without effect on pay & pension from 04-07-14.

Surg Capt (& equivalent) to be Surg Cmde (& equivalent)

RR Joshi (MR-06104X)(76272W)	21-07-14, with notional seniority without effect on pay & pension from 05-07-14.
KI Mathai, VSM (MR-04779Y)(75298F)	05-07-14, with notional seniority without effect on pay and pension from 08-05-14.

Wg Cdr (& equivalent) to be Gp Capt (& equivalent)

SP Singh (MR-06515W)(AF-22348N)	07-02-14, with notional seniority without effect on pay and pension from 11-09-12.
S Sharma (MR-06574H)(AF-28890B)	07-04-14, with notional seniority without effect on pay and pension from 05-07-13.
R Gangavatikar (MR-06353W)(AF-21800K)	10-02-14, with notional seniority without effect on pay and pension from 02-01-14.
GS Bhatia (MR-06618P)(AF-23059K)	10-02-14, with notional seniority without effect on pay and pension from 07-01-14.

Surg Cdr (& equiv) to be Surg Capt (& equiv)

J Choudhury (MR-07158L)(75574H)	24-01-14, with notional seniority without effect on pay and pension from 03-06-13.
DK Sahu (MR-06798H)(75581Z)	07-04-14, with notional seniority without effect on pay and pension from 08-03-14.
D Gautam (MR-07657A)(75610R)	16-05-14, with notional seniority without effect on pay and pension from 01-05-14.
AK Yadav (MR-06614Y)(75564K)	24-01-14, with notional seniority without effect on pay and pension from 05-10-13.
P Panda (MR-07607P)(75591Y)	07-08-14, with notional seniority without effect on pay and pension from 04-07-14.
K Chatterjee (MR-06271N)(75522R)	13-02-13, with notional seniority without effect on pay and pension from 12-02-13.

DV SINGH
Brig
Dy DGAFMS (HR)

DGNCC/MS (D)

No. 114, dated 28th April 2015—The President is pleased to grant honorary rank of Maj / Lt / Sub Lt in the NCC to the following Ex-Associate NCC Officers, from the dates mentioned against their names:-

NCC No., Rank, Name, and Dte	Honorary Rank awarded	Date from which awarded
NCCJ/106029 Chief Officer SU Rathod NCC Dte, K&G	Lt	31-05-2013
NCCJ/106110 Chief Officer AR Chandrakanth NCC Dte, K&G.	Sub Lt	31-08-2013
NCC/22040 Major H.Narayanappa NCC Dte, K&G	Major	05-04-2013

DM GUPTA
Brig
Dy Dir Gen (MS)

ARMY BRANCH

No. 115, dated 29th April 2015—The President is pleased to make the following promotions (PC) under AI 37/78, as amended:-

REGULAR ARMY
ARMY DENTAL CORPS
PERMANENT COMMISSION
LT COL TO BE COL (TS)

Pers No	Rank	Name	Date of Promotion
DR-10429H	Lt Col	AK Jha	11-10-2014
DR-10395A	Lt Col	(Ms) G Sarwate	16-12-2014

MAJ TO LT COL

DR-10597F	Maj	Vijaya Kumar R	13-09-14
DR-10554M	Maj	(Ms) Parul Lohra	17-10-14
DR-10599M	Maj	Dinesh Chander Chaudhary	09-12-14

The President is pleased to make the following promotion under AI 15/79 as amended :-

REGULAR ARMY
ARMY DENTAL CORPS
SHORT SERVICE COMMISSION
MAJ TO LT COL

Per No	Rank	Name	Date of Promotion
DS-12098L	Maj	(Ms) Neha Gupta	04-10-14
DS-12099N	Maj	Krishan Kumar Nair NG	10-10-14
DS-12148L	Maj	Deepu Jacob	16-10-14
DS-12104N	Maj	(Ms) Jasvir Kaur	06-12-14

CAPT TO BE MAJOR

DS-12430W	Capt	Nitin Yadav	10-08-2012
-----------	------	-------------	------------

HS SANDHU
Brig
DDGDS (P)

No. 116, dated 29th April 2015—The President is pleased to make the following promotion in respect of MNS officers with effect from the date(s) mentioned against the each name:-

REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION
LT COL (TS) TO LT COL (SELECT)

RANK & NAME	PERS NUMBER	DATE OF PROMOTION
Lt Col (S) Harisharan Jeet Kaur	NR-18454 W	20/08/2014
Lt Col (S) Santwana Chowdhury	NR-18592 P	25/08/2014
Lt Col (S) R Jeyanthi	NR-19012 K	22/09/2014

SUNITA KAPOOR
Maj Gen
Addl DGMNS

ARMY BRANCH

No. 117, dated 29th April 2015—The President is pleased to make the following promotion :—

REGULAR ARMY
ARMY ORDNANCE CORPS
TO BE SUBSTANTIVE SUBEDAR MAJOR

SUBEDAR MAJOR	AMN TECH	VIJENDER SINGH	JC724013H	01 JAN 2014
SUBEDAR MAJOR	AMN TECH	JAGBIR SINGH	JC724014L	01 APR 2014
SUBEDAR MAJOR	AMN TECH	UTPALA DITYA JANA	JC724136P	01 JUN 2014
SUBEDAR MAJOR	AMN TECH	MANJIT SINGH	JC724222A	01 SEP 2014
SUBEDAR MAJOR	AMN TECH	ARJUN SINGH CHAHAR	JC724467W	01 SEP 2014
SUBEDAR MAJOR	AMN TECH	RAKESH KUMAR SHARMA	JC724492P	01 OCT 2014
SUBEDAR MAJOR	AMN TECH	DEO KUMAR SINGH	JC724668P	01 DEC 2014
SUBEDAR MAJOR	CLK (IM)	SUKHVIR SINGH	JC725847F	01 FEB 2014
SUBEDAR MAJOR	CLK (SD)	BAHADUR SINGH KANWAR	JC725899X	01 APR 2014
SUBEDAR MAJOR	CLK (SD)	SATHIAN T	JC725917P	01 MAY 2014
SUBEDAR MAJOR	CLK (IM)	HARI CHAND SHAKYA	JC726280H	01 MAY 2014
SUBEDAR MAJOR	CLK (SD)	SHAMSHER SINGH	JC726332N	01 MAY 2014
SUBEDAR MAJOR	CLK (SD)	RAVINDER KUMAR THAKUR	JC726852Y	01 JUL 2014
SUBEDAR MAJOR	CLK (SD)	MADAN SINGH BIJARNIA	JC726892A	01 AUG 2014
SUBEDAR MAJOR	CLK (SD)	VISWA KUMAR K	JC726853F	01 AUG 2014
SUBEDAR MAJOR	CLK (SD)	MD HASIN NAWAZ PRADHAN	JC726872M	01 AUG 2014
SUBEDAR MAJOR	CLK (IM)	SURENDRA PRASAD RAI	JC727561L	01 AUG 2014
SUBEDAR MAJOR	CLK (IM)	GHANSHYAM	JC727614Y	01 OCT 2014
SUBEDAR MAJOR	CLK (SD)	MEHAR SINGH	JC727615F	01 OCT 2014
SUBEDAR MAJOR	CLK (IM)	MOHAN KUMAR	JC727595Y	01 OCT 2014
SUBEDAR MAJOR	CLK (SD)	SURENDRA SINGH	JC727616K	01 NOV 2014
SUBEDAR MAJOR	SKT (MT)	KANWAR SINGH	JC724734M	01 FEB 2014
SUBEDAR MAJOR	SKT (MT)	BRAJ PAL SINGH	JC724930M	01 MAY 2014
SUBEDAR MAJOR	SKT (GS&C)	L VELUMANI	JC725178N	01 AUG 2014
SUBEDAR MAJOR	SKT (GS&C)	A MURUGASAMY	JC725207X	01 OCT 2014
SUBEDAR MAJOR	SKT (GS&C)	USHA KANTA SABAT	JC725245N	01 NOV 2014
SUBEDAR MAJOR	SKT (GS&C)	SATYA PRAKASH SINGH	JC725250Y	01 DEC 2014
SUBEDAR MAJOR	SKT (GS&C)	ASHOK KUMAR DASH	JC725568W	01 DEC 2014
SUBEDAR MAJOR	DVR (MT)	RAM CHANDRA DOOT	JC728414P	01 DEC 2014
SUBEDAR MAJOR	SHT	GHAN SHYAM TRIPATHI	JC728975K	01 NOV 2014
SUBEDAR MAJOR	SHT	SHAIK SARDAR BABU	JC729013M	01 NOV 2014
SUBEDAR MAJOR	SHT	NAG RAJAN	JC729080X	01 DEC 2014
SUBEDAR MAJOR	SHGD	K BALA SUBRAMANIYAN	JC729080X	01 DEC 2014

TO BE SUBSTANTIVE SUBEDAR

SUBEDAR	AT	RAM KRIPAL SINGH	JC727710N	01 JAN 2014
SUBEDAR	AT	KANA RAM GWALA	JC727863X	01 JAN 2014
SUBEDAR	AT	JAGDISH CHANDER	JC727773W	01 JAN 2014
SUBEDAR	AT	THIMMAPPA GOUDA	JC727790W	01 JAN 2014
SUBEDAR	AT	SURENDRA MOHAN CHAUDHARY	JC727874K	01 JAN 2014
SUBEDAR	AT	MAHESH KUMAR UPADHYAY	JC727988P	01 FEB 2014
SUBEDAR	AT	KRISHNA KUMAR	JC727914A	01 FEB 2014
SUBEDAR	AT	RC SAHU	JC727915H	01 MAR 2014
SUBEDAR	AT	PK PANDA	JC727990M	01 APR 2014
SUBEDAR	AT	MD NASIR ALI	JC728042P	01 APR 2014
SUBEDAR	AT	GAUTAM BARUA	JC728427M	01 MAY 2014
SUBEDAR	AT	OM PRAKASH	JC727996N	01 JUN 2014
SUBEDAR	AT	BIRENDRA KUMAR YADAV	JC727991P	01 JUN 2014
SUBEDAR	AT	JOSEPH MATHAI	JC727993A	01 JUN 2014
SUBEDAR	AT	BRAJESH KUMAR VISHWAKARMA	JC727994H	01 JUN 2014
SUBEDAR	AT	RAVINDRA KUMAR A	JC727992X	01 JUN 2014
SUBEDAR	AT	SASI KUMAR CP	JC728100N	01 JUN 2014
SUBEDAR	AT	BHOOPENDRA SINGH	JC727995L	01 JUL 2014
SUBEDAR	AT	DHARANI DHAR ROUT	JC728049Y	01 AUG 2014
SUBEDAR	AT	MOHAN LAL VARMA	JC728044A	01 AUG 2014
SUBEDAR	AT	ISHWAR SINGH BUDANIA	JC727989X	01 SEP 2014
SUBEDAR	AT	NILAMADHAB SATHUA	JC728043X	01 SEP 2014
SUBEDAR	AT	INDRA JEET	JC728045H	01 OCT 2014
SUBEDAR	AT	RAJ KUMAR YADAV	JC728046L	01 OCT 2014
SUBEDAR	AT	RAJAN K	JC728047N	01 OCT 2014
SUBEDAR	AT	SURESH KUMAR	JC728048W	01 NOV 2014
SUBEDAR	AT	JOY EJ	JC728053F	01 NOV 2014
SUBEDAR	AT	BALGOVIND GADARI	JC728051W	01 NOV 2014
SUBEDAR	AT	VIRENDRA KUMAR RAJBHAR	JC728050N	01 DEC 2014
SUBEDAR	AT	PANKAJ KUMAR PANDEY	JC728103F	01 DEC 2014
SUBEDAR	CLK (SD)	SANTOSH KUMAR VS	JC729147L	01 JAN 2014
SUBEDAR	CLK (IM)	SHYAMAL KUMAR ROY	JC729187M	01 JAN 2014
SUBEDAR	CLK (IM)	JAGMAL SAINI	JC729188P	01 JAN 2014
SUBEDAR	CLK (SD)	GHANWAT GAJANAN BAJI RAO	JC729189X	01 JAN 2014
SUBEDAR	CLK (IM)	RANJEET SINGH BISHT	JC729190M	01 JAN 2014
SUBEDAR	CLK (SD)	C RAVI KUMAR	JC729191P	01 JAN 2014
SUBEDAR	CLK (IM)	NARAIN DATT	JC729362W	01 JAN 2014
SUBEDAR	CLK (SD)	M MURUGAVEL	JC729212A	01 JAN 2014
SUBEDAR	CLK (IM)	MUNU SWAMY S	JC729213H	01 JAN 2014

SUBEDAR	CLK (IM)	KESAVAN R	JC729214L	01 JAN 2014
SUBEDAR	CLK (IM)	GP MOHAN KUMAR	JC729215N	01 JAN 2014
SUBEDAR	CLK (IM)	PATHAN ASHRAF KHAN AHAMAD KHAN	JC729216W	01 JAN 2014
SUBEDAR	CLK (IM)	SWARAN SINGH	JC729217Y	01 JAN 2014
SUBEDAR	CLK (IM)	NARENDRA SINGH MEEL	JC729218F	01 JAN 2014
SUBEDAR	CLK (IM)	N SUBRAMANI	JC729363Y	01 JAN 2014
SUBEDAR	CLK (SD)	ARDHENDU SEKHAR ROY	JC729251Y	01 JAN 2014
SUBEDAR	CLK (SD)	JOYDEV PAL	JC729252F	01 JAN 2014
SUBEDAR	CLK (SD)	HIMANGSU SAHU	JC729253K	01 JAN 2014
SUBEDAR	CLK (IM)	MANOJ KUMAR SAMANTA RAY	JC729254M	01 JAN 2014
SUBEDAR	CLK (IM)	MOHD ISHTA YQUE AHMED	JC729255P	01 JAN 2014
SUBEDAR	CLK (IM)	PRAKASH CHANDRA SAHU	JC729283F	01 JAN 2014
SUBEDAR	CLK (SD)	KISHAN SINGH TOMAR	JC729256X	01 JAN 2014
SUBEDAR	CLK (SD)	GANESH BAHADUR	JC729408N	01 JAN 2014
SUBEDAR	CLK (SD)	AMATE DAGADU VITTAL	JC729257A	01 JAN 2014
SUBEDAR	CLK (IM)	BUCHADE NARAYAN JAGANNATH	JC729284K	01 JAN 2014
SUBEDAR	CLK (IM)	KRISHAN KUMAR	JC729259L	01 JAN 2014
SUBEDAR	CLK (IM)	VIJAY KUMAR	JC729296Y	01 JAN 2014
SUBEDAR	CLK (IM)	JASVIR SINGH	JC729297F	01 JAN 2014
SUBEDAR	CLK (SD)	TAPAN KUMAR DATTA	JC729115H	01 FEB 2014
SUBEDAR	CLK (IM)	BALDEV SINGH	JC729298K	01 FEB 2014
SUBEDAR	CLK (SD)	NANH KU RAM CHAUHAN	JC729301Y	01 FEB 2014
SUBEDAR	CLK (IM)	RAM NIVAS	JC729302F	01 FEB 2014
SUBEDAR	CLK (SD)	HARISH SINGH	JC729303K	01 FEB 2014
SUBEDAR	CLK (SD)	CHANDRAKANT KUMAR	JC729304M	01 FEB 2014
SUBEDAR	CLK (SD)	HORI LAL	JC729305P	01 FEB 2014
SUBEDAR	CLK (SD)	ASHOK PAL	JC729446K	01 FEB 2014
SUBEDAR	CLK (SD)	SHAMBHU KUMAR	JC730061Y	01 FEB 2014
SUBEDAR	CLK (SD)	GAGAN DEO MAHTO	JC729306X	01 FEB 2014
SUBEDAR	CLK (IM)	MANOJ KUMAR PK	JC729308H	01 FEB 2014
SUBEDAR	CLK (IM)	VIJAYA KUMARAN T	JC729364F	01 MAR 2014
SUBEDAR	CLK (IM)	S CHANDRA SEKAR	JC729365K	01 MAR 2014
SUBEDAR	CLK (IM)	PRAMOD KUMAR	JC729311H	01 MAR 2014
SUBEDAR	CLK (IM)	JAY SHANKAR UPADHYAY	JC729312L	01 MAR 2014
SUBEDAR	CLK (IM)	PRADEEP KUMAR SINGH	JC729366M	01 MAR 2014
SUBEDAR	CLK (IM)	SANTOSH KUMAR SINGH RATHOR	JC729315Y	01 MAR 2014
SUBEDAR	CLK (SD)	SUDHIR CHANDRA BAIDYA	JC729317K	01 MAR 2014
SUBEDAR	CLK (IM)	RATHOD RAMESH BABU SINGH	JC729367P	01 MAR 2014

SUBEDAR	CLK (IM)	NIMBALKAR GOPAL HARI RAM	JC729319P	01 MAR 2014
SUBEDAR	CLK (IM)	SATPUTE VIKRAM DHARMA	JC729368X	01 MAR 2014
SUBEDAR	CLK (IM)	GURU PRASAD	JC729314W	01 MAR 2014
SUBEDAR	CLK (IM)	SANKAR CHAKRABORTTY	JC729295W	01 MAR 2014
SUBEDAR	CLK (SD)	AFZAL ALI	JC729409W	01 MAR 2014
SUBEDAR	CLK (IM)	BURLE KRISHNA RAO	JC729369A	01 MAR 2014
SUBEDAR	CLK (SD)	SUKHSHARN SINGH SENGAR	JC729498A	01 MAR 2014
SUBEDAR	CLK (IM)	MAHENDRA SINGH YADAV	JC729370P	01 MAR 2014
SUBEDAR	CLK (IM)	RAKESH CHANDRA	JC729299M	01 MAR 2014
SUBEDAR	CLK (SD)	G TAMIZH SELVAN	JC729371X	01 MAR 2014
SUBEDAR	CLK (IM)	PRAMOD KUMAR DWIVEDI	JC729310A	01 APR 2014
SUBEDAR	CLK (SD)	TH MANI BABU SINGHA	JC729372A	01 APR 2014
SUBEDAR	CLK (SD)	DINESH KUMAR	JC729318M	01 APR 2014
SUBEDAR	CLK (IM)	NIRMAL SHIWAJI NAMDEO	JC729320K	01 APR 2014
SUBEDAR	CLK (IM)	BHAIRU LAL LUHAR	JC729373H	01 APR 2014
SUBEDAR	CLK (IM)	PARSH RAM	JC729322P	01 APR 2014
SUBEDAR	CLK (IM)	JAI BHAGWAN SHARMA	JC729374L	01 APR 2014
SUBEDAR	CLK (IM)	MAHAVIR SINGH	JC729433M	01 APR 2014
SUBEDAR	CLK (IM)	K SRINIVASULU	JC729375N	01 APR 2014
SUBEDAR	CLK (IM)	SUSAINATHAN A	JC729376W	01 APR 2014
SUBEDAR	CLK (SD)	SHIV KUMAR SHARMA	JC729410L	01 APR 2014
SUBEDAR	CLK (IM)	SHYAM LAL	JC729411N	01 APR 2014
SUBEDAR	CLK (IM)	KULWINDER SINGH	JC729428F	01 APR 2014
SUBEDAR	CLK (IM)	RAMOTAR	JC729414F	01 APR 2014
SUBEDAR	CLK (IM)	RAM NIWAS	JC729434P	01 APR 2014
SUBEDAR	CLK (IM)	SATYA PAL	JC729415K	01 APR 2014
SUBEDAR	CLK (IM)	MAHENDER SINGH	JC729416M	01 APR 2014
SUBEDAR	CLK (SD)	HITESH KUMAR	JC729417P	01 APR 2014
SUBEDAR	CLK (IM)	JYOTINDRA MOHAN SAH	JC729639K	01 APR 2014
SUBEDAR	CLK (IM)	OM PRAKASH	JC729418X	01 APR 2014
SUBEDAR	CLK (SD)	TILAK RAJ	JC729429K	01 APR 2014
SUBEDAR	CLK (IM)	NARESH AZAD	JC729430Y	01 APR 2014
SUBEDAR	CLK (SD)	RAMPHAL SINGH	JC729435X	01 APR 2014
SUBEDAR	CLK (IM)	SUNIL KUMAR	JC729436A	01 APR 2014
SUBEDAR	CLK (SD)	HARMEL SINGH	JC729437H	01 APR 2014
SUBEDAR	CLK (IM)	RAJENDER SINGH	JC729438L	01 MAY 2014
SUBEDAR	CLK (IM)	MOHAN SAH	JC729439N	01 MAY 2014
SUBEDAR	CLK (SD)	SHEES RAM	JC729440H	01 MAY 2014
SUBEDAR	CLK (IM)	RAM PRATAP SINGH	JC729441L	01 MAY 2014

SUBEDAR	CLK (IM)	ABHAY NARESH	JC729443W	01 MAY 2014
SUBEDAR	CLK (IM)	INDERJEET YADAV	JC729444Y	01 MAY 2014
SUBEDAR	CLK (IM)	DINESH KUMAR DIWAKAR	JC729445F	01 MAY 2014
SUBEDAR	CLK (IM)	SOMAROO RAM	JC729447M	01 MAY 2014
SUBEDAR	CLK (IM)	CHANDRA BIR SINGH	JC729448P	01 MAY 2014
SUBEDAR	CLK (IM)	LALLAN YADAV	JC729450M	01 MAY 2014
SUBEDAR	CLK (IM)	PRADEEP KUMAR PRADHAN	JC729451P	01 MAY 2014
SUBEDAR	CLK (IM)	UJJAL KUMAR GHOSH	JC729452X	01 MAY 2014
SUBEDAR	CLK (IM)	ANIRUDH PRASAD	JC729501P	01 MAY 2014
SUBEDAR	CLK (IM)	CHANDRA PRAKASH	JC729502X	01 MAY 2014
SUBEDAR	CLK (IM)	SRI HARI PARIDA	JC729640Y	01 MAY 2014
SUBEDAR	CLK (IM)	SUSANTA KUMAR MOHANTY	JC729503A	01 MAY 2014
SUBEDAR	CLK (IM)	MAHESWAR DAS	JC729504H	01 MAY 2014
SUBEDAR	CLK (IM)	SANTOSH KUMAR DAS	JC729602H	01 MAY 2014
SUBEDAR	CLK (IM)	AJAY KUMAR SATAPATHY	JC729505L	01 JUN 2014
SUBEDAR	CLK (IM)	NAND RAM	JC729506N	01 JUN 2014
SUBEDAR	CLK (IM)	LEKH RAM	JC729507W	01 JUN 2014
SUBEDAR	CLK (IM)	BAVANE RAMAHARI BHAGWAN	JC729508Y	01 JUN 2014
SUBEDAR	CLK (IM)	VIRENDER SINGH	JC729509F	01 JUN 2014
SUBEDAR	CLK (IM)	YOGANDRA KUMAR UPADHYAY	JC729510W	01 JUN 2014
SUBEDAR	CLK (IM)	MANGAT RAM	JC729511Y	01 JUN 2014
SUBEDAR	CLK (IM)	ROHTAS	JC729513K	01 JUN 2014
SUBEDAR	CLK (IM)	PYARE LAL	JC729514M	01 JUN 2014
SUBEDAR	CLK (SD)	GOPAL SINGH CHUNDAWAT	JC729515P	01 JUN 2014
SUBEDAR	CLK (SD)	GHEVER RAM THORI	JC729516X	01 JUN 2014
SUBEDAR	CLK (SD)	CHHENU KHAN	JC729517A	01 JUN 2014
SUBEDAR	CLK (SD)	RAJESH SINGH KUSHWAHA	JC729518H	01 JUN 2014
SUBEDAR	CLK (IM)	NRIPESH KUMAR YADAV	JC729557F	01 JUN 2014
SUBEDAR	CLK (IM)	T GOVIND SADHU	JC729519L	01 JUN 2014
SUBEDAR	CLK (SD)	ASHUTOSH KUMAR SINGH	JC729558K	01 JUN 2014
SUBEDAR	CLK (IM)	RAMBIR SINGH	JC729520A	01 JUN 2014
SUBEDAR	CLK (IM)	SEWA SINGH	JC729521H	01 JUN 2014
SUBEDAR	CLK (IM)	TEMBURU KRISHNA RAO	JC729559M	01 JUN 2014
SUBEDAR	CLK (IM)	B BALA VENKATA REDDY	JC729522L	01 JUN 2014
SUBEDAR	CLK (IM)	NAGESWARA RAO SAMUNTULA	JC729523N	01 JUN 2014
SUBEDAR	CLK (SD)	HEDAU MOHAN PRAHLAD	JC729525Y	01 JUL 2014
SUBEDAR	CLK (IM)	ANAND BAHADUR SINGH	JC729526F	01 JUL 2014
SUBEDAR	CLK (SD)	BHATT JAGDISH PRASAD DURGALAL	JC729527K	01 JUL 2014

SUBEDAR	CLK (SD)	S SARVESH CHANDRA JAGMMAN	JC729528M	01 JUL 2014
SUBEDAR	CLK (IM)	YERRAMALA RAMA BHUPAL	JC729530K	01 JUL 2014
SUBEDAR	CLK (IM)	PRAMOD SHANKAR RAI	JC729531M	01 JUL 2014
SUBEDAR	CLK (SD)	ASHOK KUMAR	JC729532P	01 JUL 2014
SUBEDAR	CLK (IM)	KHALID HUSAIN SIDDIQI	JC729533X	01 JUL 2014
SUBEDAR	CLK (IM)	PARIMAL SINGH	JC729534A	01 JUL 2014
SUBEDAR	CLK (IM)	VEER PAL SINGH	JC729535H	01 JUL 2014
SUBEDAR	CLK (IM)	THANKACHAN TA	JC729603L	01 JUL 2014
SUBEDAR	CLK (IM)	JAGAN NATH ROY	JC729536L	01 JUL 2014
SUBEDAR	CLK (IM)	CHAVAN SHAMBAJI BHIM	JC729561K	01 JUL 2014
SUBEDAR	CLK (SD)	SHYAMALENDU ROY	JC729562M	01 JUL 2014
SUBEDAR	CLK (SD)	CHADRAMA BHAKTA	JC729537N	01 JUL 2014
SUBEDAR	CLK (IM)	R JANKI RAMAN	JC729538W	01 JUL 2014
SUBEDAR	CLK (IM)	JADAV KUMAR BHUNIA	JC729442N	01 AUG 2014
SUBEDAR	CLK (IM)	BHANWARA RAM LEGA	JC729563P	01 AUG 2014
SUBEDAR	CLK (IM)	SURESH PRASAD MEHTA	JC729539Y	01 AUG 2014
SUBEDAR	CLK (IM)	SUMER SINGH	JC729564X	01 AUG 2014
SUBEDAR	CLK (IM)	SUBASH CHAND	JC729540N	01 AUG 2014
SUBEDAR	CLK (SD)	MAHENDER SINGH	JC729565A	01 AUG 2014
SUBEDAR	CLK (SD)	BALJIT SINGH	JC729567L	01 AUG 2014
SUBEDAR	CLK (IM)	VIRENDER SINGH	JC729568N	01 AUG 2014
SUBEDAR	CLK (IM)	PARSI RAM	JC729569W	01 AUG 2014
SUBEDAR	CLK (IM)	SHEOJI SINGH	JC729570L	01 AUG 2014
SUBEDAR	CLK (IM)	KULDEEP SINGH	JC729571N	01 AUG 2014
SUBEDAR	CLK (SD)	BUDHODI GIRISH KUMAR GHANSHYAM	JC729572W	01 AUG 2014
SUBEDAR	CLK (SD)	SAHAB SINGH CHAUHAN	JC729573Y	01 AUG 2014
SUBEDAR	CLK (IM)	SAJEEVAN C	JC729574F	01 AUG 2014
SUBEDAR	CLK (IM)	BALA KRISHNAN M	JC729575K	01 AUG 2014
SUBEDAR	CLK (IM)	BOOTA SINGH	JC729576M	01 AUG 2014
SUBEDAR	CLK (IM)	HARI KISHAN	JC729307A	01 SEP 2014
SUBEDAR	CLK (IM)	RAM EKWAL BHAGAT	JC729412W	01 SEP 2014
SUBEDAR	CLK (SD)	SUBHASH CHANDRA	JC729577P	01 SEP 2014
SUBEDAR	CLK (IM)	SANTOSH KUMAR A	JC729578X	01 OCT 2014
SUBEDAR	CLK (SD)	RAKESH MOHAN BHATT	JC729541W	01 OCT 2014
SUBEDAR	CLK (IM)	SURESH KUMAR P	JC729579A	01 OCT 2014
SUBEDAR	CLK (SD)	KANCHAN KUMAR GHOSH	JC729580P	01 OCT 2014
SUBEDAR	CLK (SD)	PRAMOD KUMAR BISHOYI	JC729581X	01 OCT 2014
SUBEDAR	CLK (SD)	RANJAN KUMAR BHUYAN	JC729582A	01 OCT 2014
SUBEDAR	CLK (SD)	RASHIK CHANDRA BARMAN	JC729583H	01 OCT 2014

SUBEDAR	CLK (SD)	K NIL CHANDRA SHARMA	JC729584L	01 OCT 2014
SUBEDAR	CLK (IM)	ROKADE MARUTI SATWA	JC729604N	01 OCT 2014
SUBEDAR	CLK (SD)	G SELVAM	JC729585N	01 OCT 2014
SUBEDAR	CLK (IM)	SUKH BIR	JC729605W	01 OCT 2014
SUBEDAR	CLK (SD)	S KRISHNA MOORTY	JC729606Y	01 OCT 2014
SUBEDAR	CLK (SD)	JAGDISH CHANDER	JC729607F	01 OCT 2014
SUBEDAR	CLK (SD)	SWRENDR KUMAR SINGH	JC729608K	01 NOV 2014
SUBEDAR	CLK (SD)	JAIJEET SINGH LAMBA	JC729609M	01 NOV 2014
SUBEDAR	CLK (IM)	CHANDER PAL SINGH	JC729642K	01 NOV 2014
SUBEDAR	CLK (IM)	NARSI RAM	JC729610F	01 NOV 2014
SUBEDAR	CLK (SD)	VINOD KUMAR ROY	JC729611K	01 NOV 2014
SUBEDAR	CLK (SD)	SHAILENDRA PAL SINGH	JC729612M	01 NOV 2014
SUBEDAR	CLK (SD)	RETHISH KUMAR VS	JC729613P	01 NOV 2014
SUBEDAR	CLK (SD)	P GANESH	JC729614X	01 NOV 2014
SUBEDAR	CLK (IM)	MD ABDUL KALAM AZAD	JC729615A	01 NOV 2014
SUBEDAR	CLK (SD)	NARASINGHA NAYAK	JC729616H	01 NOV 2014
SUBEDAR	CLK (SD)	RAM PRAKASH THAKUR	JC729617L	01 DEC 2014
SUBEDAR	CLK (SD)	CHINMAYA SARKAR	JC729618N	01 DEC 2014
SUBEDAR	SKT (SIG)	MULEY KRISHNA SHANKAR RAO	JC728842N	01 JAN 2014
SUBEDAR	SKT (SIG)	ASHOK KUMAR MISHRA	JC728871H	01 JAN 2014
SUBEDAR	SKT (SIG)	JIWAN LAL	JC728843W	01 JAN 2014
SUBEDAR	SKT (SIG)	SHANMUGAM G	JC728872L	01 JAN 2014
SUBEDAR	SKT (AMN)	G NARAYANAN	JC728873N	01 JAN 2014
SUBEDAR	SKT (AMN)	VISHNU DEO SINGH	JC728874W	01 JAN 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	BIJAY PRASAD	JC728875Y	01 JAN 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	ALOK KUMAR	JC728876F	01 JAN 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	BINDHESHWAR SAHU	JC728877K	01 JAN 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	BRAJENDRA RAM	JC728879P	01 JAN 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	AWADH BIHARI MISHRA	JC728896P	01 JAN 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	RAGHU NATH SAH	JC728880K	01 JAN 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	SURENDRA KUMAR	JC728881M	01 JAN 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	OM PRAKASH PANDEY	JC728878M	01 JAN 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	ANIL KUMAR	JC728897X	01 JAN 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	BANSHI DHAR MOHARANA	JC728898A	01 JAN 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	DIPAK KUMAR GAYEN	JC728899H	01 JAN 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	NAGENDRA SAH	JC728900M	01 JAN 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	SHRI RAM SINGH	JC728901P	01 JAN 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	VINOD KUMAR	JC728902X	01 JAN 2014

SUBEDAR	SKT (GS&C)	UMAKANT MISHRA	JC728904H	01 JAN 2014
SUBEDAR	SKT (MT)	HOSHIYAR SINGH	JC728909F	01 JAN 2014
SUBEDAR	SKT (MT)	RAM PRATAP YADAVE	JC728911Y	01 JAN 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	SWARNA MALLIKARAJUNA NAIDU	JC728907W	01 JAN 2014
SUBEDAR	SKT (MT)	SHARWAN KUMAR KHYALIA	JC728937N	01 JAN 2014
SUBEDAR	SKT (AMN)	MADROOP RAM	JC728932P	01 JAN 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	GANESH RAM	JC728933X	01 JAN 2014
SUBEDAR	SKT (AMN)	PRADEEP KUMAR SINGH	JC728935H	01 JAN 2014
SUBEDAR	SKT (MT)	SURAJ PRAKASH CHOUDHARY	JC728938W	01 JAN 2014
SUBEDAR	SKT (MT)	NATHU RAM SAINI	JC728939Y	01 JAN 2014
SUBEDAR	SKT (MT)	R MURUGAN	JC728940N	01 JAN 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	RAJ KUMAR	JC728942Y	01 JAN 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	SURJIT SINGH	JC728943F	01 JAN 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	SURESH KUMAR SAINI	JC728944K	01 JAN 2014
SUBEDAR	SKT (MT)	SUBHASH CHANDRA VERMA	JC728946P	01 JAN 2014
SUBEDAR	SKT (MT)	POONA RAM CHOUDHARY	JC728936L	01 JAN 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	ANIL SINGH NEGI	JC728945M	01 JAN 2014
SUBEDAR	SKT (MT)	MANNI RAM	JC728934A	01 JAN 2014
SUBEDAR	SKT (MT)	RAJ NARAYAN	JC728964X	01 JAN 2014
SUBEDAR	SKT (MT)	RAM KRIPAL	JC728965A	01 JAN 2014
SUBEDAR	SKT (MT)	RAM MOHAN	JC728966H	01 JAN 2014
SUBEDAR	SKT (MT)	AJIT SINGH	JC728968N	01 JAN 2014
SUBEDAR	SKT (MT)	B JITENDRA KUMAR DHIRAJ LAL	JC728970L	01 JAN 2014
SUBEDAR	SKT (MT)	GIRJESH MANI PANDEY	JC728971N	01 JAN 2014
SUBEDAR	SKT (MT)	AMBALIA RAMA LAKHMAN	JC728972W	01 JAN 2014
SUBEDAR	SKT (MT)	KULDEEP SINGH PUNIA	JC728973Y	01 JAN 2014
SUBEDAR	SKT (MT)	NAGINDER SINGH	JC728974F	01 JAN 2014
SUBEDAR	SKT (MT)	SURJIT SINGH	JC728995X	01 JAN 2014
SUBEDAR	SKT (MT)	HARISH KUMAR	JC728996A	01 JAN 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	JAGAN NATH PRASAD SHARMA	JC728997H	01 JAN 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	VIJAY SINGH	JC728998L	01 JAN 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	DINESH SINGH	JC729044M	01 JAN 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	LAHNA SINGH	JC728999N	01 JAN 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	BAJRANGI RAM	JC729001X	01 JAN 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	OM PRAKASH PANDEY	JC729002A	01 JAN 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	RASHPAL SINGH	JC729003H	01 JAN 2014
SUBEDAR	SKT (MT)	SATISH KUMAR	JC729004L	01 JAN 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	MUKESH KUMAR JHA	JC729006W	01 JAN 2014
SUBEDAR	SKT (SIG)	KULWANT SINGH	JC729007Y	01 JAN 2014

SUBEDAR	SKT (GS&C)	NAVIN KUMAR SHARMA	JC729008F	01 JAN 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	RAJU PRASAD YADAV	JC729009K	01 JAN 2014
SUBEDAR	SKT (MT)	TIGER MASIH	JC729034H	01 JAN 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	DINESH CHANDRA	JC729035L	01 JAN 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	PATIL HANMANT RAO BHIM RAO	JC729011F	01 JAN 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	HAKAM SINGH	JC729010Y	01 JAN 2014
SUBEDAR	SKT (MT)	SHIV SINGH	JC729012K	01 JAN 2014
SUBEDAR	SKT (SIG)	WANKHADE SUDHAKAR KISAN	JC729036N	01 JAN 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	PRAMOD GOGOI	JC729067N	01 JAN 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	HEMANT KUMAR	JC729038Y	01 JAN 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	TUNNU PRASAD VERMA	JC729039F	01 JAN 2014
SUBEDAR	SKT (MT)	RAM SHANKER YADAV	JC729037W	01 JAN 2014
SUBEDAR	SKT (MT)	MAHENDER SINGH	JC729045P	01 JAN 2014
SUBEDAR	SKT (MT)	D JOHNS GLEETUS	JC729098N	01 JAN 2014
SUBEDAR	SKT (MT)	MOHINDER SINGH	JC729046X	01 JAN 2014
SUBEDAR	SKT (MT)	TASBIR SINGH	JC729047A	01 JAN 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	UDAI PRATAP SINGH	JC729069Y	01 JAN 2014
SUBEDAR	SKT (MT)	ABU ERIC SAMY	JC729070N	01 JAN 2014
SUBEDAR	SKT (MT)	RAM PAL	JC729048H	01 JAN 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	LEKH PAL SINGH	JC729068W	01 JAN 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	HEERA LAL	JC729073F	01 JAN 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	PRADIP DAS	JC729074K	01 JAN 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	YASHPAL	JC729075M	01 JAN 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	SUKANTA KUMAR JENA	JC729100A	01 JAN 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	UTTAM KUMAR DEY	JC729127X	01 JAN 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	PRAMPAL SINGH	JC729102L	01 JAN 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	SHREE RAM BUNDELA	JC729103N	01 JAN 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	UTTAM KUMAR GHOSH	JC729128A	01 JAN 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	DEBENDRA KUMAR DAS	JC729129H	01 JAN 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	BIPNESH CHANDRA	JC729076P	01 JAN 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	ALOK KUMAR DAS	JC729077X	01 JAN 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	RABINDRA DASH	JC729105Y	01 JAN 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	BHABANI SHANKAR DASH	JC729130X	01 FEB 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	DEBASIS PRADHAN	JC729161X	01 FEB 2014
SUBEDAR	SKT (MT)	RAM CHANDRA PARIDA	JC729162A	01 FEB 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	DIBAKAR SAHOO	JC729174P	01 FEB 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	BASUDEV MANDAL	JC729192X	01 FEB 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	CHANDRA KANT PATHAK	JC729193A	01 FEB 2014

SUBEDAR	SKT (GS&C)	SATYA BRATA SAHOO	JC729195L	01 FEB 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	DEVENDRA KUMAR SINGH	JC729196N	01 FEB 2014
SUBEDAR	SKT (MT)	DHARAM PAL	JC729197W	01 FEB 2014
SUBEDAR	SKT (MT)	RAMENDRA SINGH	JC729198Y	01 FEB 2014
SUBEDAR	SKT (MT)	CHANDRA PAL	JC729199F	01 FEB 2014
SUBEDAR	SKT (MT)	KUSAN S	JC729200L	01 FEB 2014
SUBEDAR	SKT (MT)	JADHAV SUDESH RAMDAS	JC729201N	01 FEB 2014
SUBEDAR	SKT (MT)	SHIRKE TASHKAND BANSI	JC729202W	01 FEB 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	DILIP KUMAR SAMANTA	JC729194H	01 FEB 2014
SUBEDAR	SKT (MT)	NIGADE KISHORE MANIK RAO	JC729219K	01 FEB 2014
SUBEDAR	SKT (MT)	K PRAKASH VYANKAT	JC729220Y	01 MAR 2014
SUBEDAR	SKT (MT)	SHINDE SHRIKANT KONDIBA	JC729221F	01 MAR 2014
SUBEDAR	SKT (MT)	WAGH PRAVIN UTTAMA RAO	JC729223M	01 MAR 2014
SUBEDAR	SKT (MT)	WAKADE ANURATH BHIVA	JC729224P	01 MAR 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	HARISH CHANDRA TRIPATHI	JC729225X	01 MAR 2014
SUBEDAR	SKT (WEP)	BORHADE AKNATH SONBA	JC729226A	01 MAR 2014
SUBEDAR	SKT (WEP)	DEVADE VILAS DATTATRAY	JC729229N	01 MAR 2014
SUBEDAR	SKT (WEP)	BHOR RAO SAHEB MARUTI	JC729232N	01 MAR 2014
SUBEDAR	SKT (SIG)	BRIJ BHUSHAN SHUKLA	JC729233W	01 MAR 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	NAIK BHARAT DATTATRAY	JC729234Y	01 MAR 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	BHAT RAJENDRA VISHNU	JC729235F	01 MAR 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	RAJPUT GOVIND SINGH MADHAV SINGH	JC729236K	01 MAR 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	PATHAN PIROJ KHAN AKBAR KHAN	JC729237M	01 MAR 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	JADHAV TUKARAM DNYANESHWAR	JC729238P	01 APR 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	KHAMKAR PANDIT BABU	JC729239X	01 APR 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	PATIL NISHIKANT RAVA SAHEB	JC729240M	01 APR 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	KHEDAKAR RAMESH BABU RAO	JC729241P	01 APR 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	TANDALE MUKUNDRAJ CHANDRABHAN	JC729242X	01 APR 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	PATIL SHAHAJI SAHEB RAO	JC729261H	01 APR 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	HIPPARAGI SHRISHAIL HANAMANTA	JC729262L	01 APR 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	SANAP SAMPAT KARBHARI	JC729285M	01 APR 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	SALUNKE CHANDRAKANT MANIK RAO	JC729264W	01 APR 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	JOSHI UPENDRA KUMAR PARSHOTAM	JC729266F	01 APR 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	DAULAT RAM	JC729267K	01 APR 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	MAM RAJ	JC729268M	01 APR 2014
SUBEDAR	SKT (SIG)	HARKASH SINGH	JC729269P	01 APR 2014
SUBEDAR	SKT (ENGR)	GIAN CHAND	JC729270K	01 APR 2014
SUBEDAR	SKT (ENGR)	KARAN SINGH	JC729271M	01 APR 2014
SUBEDAR	SKT (MT)	DHARAM BIR SINGH	JC729273X	01 APR 2014

SUBEDAR	SKT (ENGR)	SURENDER SINGH	JC729275H	01 APR 2014
SUBEDAR	SKT (SIG)	BASAVA RAJ	JC729276L	01 APR 2014
SUBEDAR	SKT (ENGR)	DEVENDER KUMAR	JC729277N	01 APR 2014
SUBEDAR	SKT (ENGR)	KULDIP	JC729323X	01 APR 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	RAMAVATAR MOURYA	JC729313N	01 APR 2014
SUBEDAR	SKT (ENGR)	DEEP CHAND	JC729324A	01 APR 2014
SUBEDAR	SKT (ENGR)	MAGAR JAGANNATH BABA SAHEB	JC729325H	01 APR 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	KARPE SANJAY RAMDAS	JC729328W	01 APR 2014
SUBEDAR	SKT (WEP)	JADHAV SUNIL SADASHIV	JC729326L	01 APR 2014
SUBEDAR	SKT (SIG)	MORE ASHOK RAM RAO	JC729385X	01 APR 2014
SUBEDAR	SKT (ENGR)	LANDE NAGNATH VASUDEO	JC729389N	01 APR 2014
SUBEDAR	SKT (ENGR)	GURAV HARIDAS NAGANATH	JC729390H	01 APR 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	BORATE DATTATRAY YASHWANT	JC729391L	01 APR 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	SHIV PAL	JC729394Y	01 APR 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	LOKESH SAHARAN	JC729395F	01 APR 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	VINOD KUMAR	JC729392N	01 APR 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	WAGH OM NARAYAN GITARAM	JC729419A	01 APR 2014
SUBEDAR	SKT (MT)	MAHENDRA SINGH GURJAR	JC727396K	01 APR 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	PURKHA RAM KUMHAR	JC729420P	01 APR 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	BALBIR SINGH SHEKHAWAT	JC729421X	01 APR 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	KANWAR LAL	JC729422A	01 APR 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	KALU SINGH CHAUHAN	JC729424L	01 APR 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	AMAR CHAND YADAV	JC729425N	01 APR 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	BHUNDA RAM GODARA	JC729423H	01 APR 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	MANDRUP SINGH	JC729454H	01 APR 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	ASHOK KUMAR	JC729453A	01 APR 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	RAMESAN KV	JC729456N	01 APR 2014
SUBEDAR	SKT (MT)	SHYAM LAL BANSIWAL	JC729455L	01 APR 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	ROHITASH KUMAR DHIWAN	JC729457W	01 APR 2014
SUBEDAR	SKT (MT)	RASH PAL SINGH	JC729458Y	01 APR 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	SUBHASH CHANDAR	JC729459F	01 APR 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	ANSARI SUBRATI ABDUL JABBAR	JC729460W	01 APR 2014
SUBEDAR	SKT (WEP)	PRADEEP KUMAR G	JC729542Y	01 APR 2014
SUBEDAR	SKT (WEP)	BABU TL	JC729586W	01 APR 2014
SUBEDAR	SKT (SIG)	RAVINDRA KUMAR SINGH	JC729587Y	01 APR 2014
SUBEDAR	SKT (MT)	RAM RATTAN	JC729620L	01 APR 2014
SUBEDAR	SKT (MT)	JEEWAN CHANDRA DUMKA	JC729543F	01 APR 2014
SUBEDAR	SKT (WEP)	SUKHWINDER SINGH	JC729589K	01 APR 2014

SUBEDAR	SKT (GS&C)	DALIP SINGH	JC729588F	01 APR 2014
SUBEDAR	SKT (MT)	VIR SINGH	JC729544K	01 APR 2014
SUBEDAR	SKT (WEP)	JAYAN K	JC729590Y	01 APR 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	CHAND SINGH	JC729545M	01 APR 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	MAMGA RAM SHARMA	JC729591F	01 APR 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	SANJIB DAS	JC729593M	01 APR 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	RAM KISHAN	JC729621N	01 APR 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	JAGTAR SINGH	JC729594P	01 APR 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	RAM SINGH	JC729595X	01 APR 2014
SUBEDAR	SKT (WEP)	SEBASTIAN JOSEPH	JC729596A	01 APR 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	SATBIR SINGH	JC729597H	01 APR 2014
SUBEDAR	SKT (MT)	PALE RAM	JC729598L	01 APR 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	RADHE SHYAM	JC729622W	01 MAY 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	SUBE SINGH	JC729623Y	01 MAY 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	HARDEV SINGH	JC729624F	01 MAY 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	RAMESH LAL	JC729711P	01 MAY 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	SURESH KUMAR	JC729625K	01 MAY 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	NARINDER PAL	JC729626M	01 MAY 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	RANVIR SINGH SHAKYA	JC729663A	01 MAY 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	DHAVAL SURIYAKANT BHIM RAO	JC729664H	01 MAY 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	GOPAL SINGH	JC729665L	01 MAY 2014
SUBEDAR	SKT (MT)	KETKAR DHANANJAY YASHAWANT	JC729628X	01 MAY 2014
SUBEDAR	SKT (MT)	SURENDER SINGH MALIK	JC729629A	01 MAY 2014
SUBEDAR	SKT (MT)	JAI PAL SINGH	JC729630P	01 MAY 2014
SUBEDAR	SKT (MT)	SAMUNDER SINGH	JC729666N	01 MAY 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	NARVIR SINGH	JC729667W	01 MAY 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	DALBIR SINGH	JC729668Y	01 MAY 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	SATBIR	JC729669F	01 MAY 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	BALWAN SINGH	JC729670W	01 MAY 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	BALWAN SINGH	JC729671Y	01 MAY 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	SURESH KUMAR	JC729672F	01 MAY 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	JASMER SINGH	JC729673K	01 MAY 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	ROHTASH KANWAR	JC729674M	01 MAY 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	ROHTAS	JC729675P	01 MAY 2014
SUBEDAR	SKT (MT)	SURAJ PAL	JC729712X	01 MAY 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	DAYA SHANKAR KUNWAR	JC729676X	01 MAY 2014
SUBEDAR	SKT (MT)	KRISHAN CHAND	JC729677A	01 MAY 2014
SUBEDAR	SKT (MT)	MAHAVIR SINGH	JC729678H	01 MAY 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	JAI BIR SINGH	JC729679L	01 MAY 2014

SUBEDAR	SKT (MT)	SAMUNDER SINGH	JC729680A	01 MAY 2014
SUBEDAR	SKT (MT)	RADHEY SHYAM	JC729681H	01 MAY 2014
SUBEDAR	SKT (MT)	ANSARI NOORUDIN NIZAMUDIN	JC729713A	01 JUN 2014
SUBEDAR	SKT (MT)	ASHIT SARKAR	JC729714H	01 JUN 2014
SUBEDAR	SKT (MT)	BISWAJIT DEBNATH	JC729715L	01 JUN 2014
SUBEDAR	SKT (MT)	SUNIL KUMAR BISWAS	JC729717W	01 JUN 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	KIRAN PAL	JC729718Y	01 JUN 2014
SUBEDAR	SKT GS&C)	PRADEEP PRADHAN	JC727919F	01 JUN 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	SHYAM SUNDER NANDI	JC729759H	01 JUN 2014
SUBEDAR	SKT (AMN)	SUBHASH CHANDER	JC729760X	01 JUN 2014
SUBEDAR	SKT (AMN)	SURESH SINGH	JC729761A	01 JUN 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	LAWANDE SHIVAJI EKNATH	JC729762H	01 JUN 2014
SUBEDAR	SKT (AMN)	MAHENDAR SINGH BARGOTI	JC729764N	01 JUN 2014
SUBEDAR	SKT (MT)	SATPAL	JC729765W	01 JUN 2014
SUBEDAR	SKT (SIG)	AJAY KUMAR RATH	JC729767F	01 JUN 2014
SUBEDAR	SKT (SIG)	MAKUNDA CHARAN RAUT	JC729769M	01 JUN 2014
SUBEDAR	SKT (AMN)	RAJ PAL	JC729770F	01 JUN 2014
SUBEDAR	SKT (MT)	RAJENDER SINGH	JC729772M	01 JUN 2014
SUBEDAR	SKT (MT)	SANT KUMAR	JC729773P	01 JUN 2014
SUBEDAR	SKT (MT)	DHARAM VIR	JC729793H	01 JUN 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	KRISHAN KUMAR	JC729795N	01 JUN 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	RAMBIR SHARMA	JC729797Y	01 JUN 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	MAMRAJ BHAGORIA	JC729799K	01 JUN 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	PAWAN KUMAR	JC729798F	01 JUN 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	SURESH CHANDRA	JC729800N	01 JUN 2014
SUBEDAR	SKT (AMN)	VIJAY KUMAR	JC729801W	01 JUN 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	OM PRAKASH	JC729808A	01 JUN 2014
SUBEDAR	SKT (SIG)	ASHWINI KUMAR SWAIN	JC729802Y	01 JUN 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	NARENDRA PAL SINGH TEOTIA	JC729803F	01 JUN 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	AMAL SARKAR	JC729804K	01 JUN 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	TRAMBAKESH MANDAL	JC729877W	01 JUN 2014
SUBEDAR	SKT (AMN)	KAMLESH KUMAR	JC729831N	01 JUN 2014
SUBEDAR	SKT (SIG)	HARIHAR PRASAD MOHAJAN	JC729832W	01 JUN 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	RAJA KISHOR PRADHAN	JC729833Y	01 JUN 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	AKHIL RANJAN BAUL	JC729834F	01 JUN 2014
SUBEDAR	SKT (AMN)	NEM CHAND	JC729835K	01 JUN 2014
SUBEDAR	SKT (SIG)	SHRI PAL SINGH	JC729836M	01 JUN 2014
SUBEDAR	SKT (SIG)	JAGAT SINGH PAL	JC729879F	01 JUN 2014

SUBEDAR	SKT (MT)	THIRUMALAI PK	JC729881Y	01 JUN 2014
SUBEDAR	SKT (MT)	ACHYUT BACHHAR	JC729882F	01 JUN 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	SUKUMAR ROY SARKAR	JC729884M	01 JUN 2014
SUBEDAR	SKT (AMN)	SHIV SINGH	JC729914Y	01 JUN 2014
SUBEDAR	SKT (AMN)	MOHAN LAL	JC729916K	01 JUN 2014
SUBEDAR	SKT (AMN)	DHARMENDRA SINGH	JC729917M	01 JUN 2014
SUBEDAR	SKT (AMN)	KULDEEP SINGH	JC729918P	01 JUN 2014
SUBEDAR	SKT (AMN)	SATHEESH PR	JC729920M	01 JUN 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	SURJIT BAGH	JC729936X	01 JUN 2014
SUBEDAR	SKT (MT)	VEER PAL SINGH	JC729935P	01 JUN 2014
SUBEDAR	SKT (WEP)	K MURUGAN	JC729937A	01 JUN 2014
SUBEDAR	SKT (ENGR)	SURENDER SINGH	JC730011N	01 JUN 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	GANESH CHANDRA SARKAR	JC729988N	01 JUN 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	SONAWANE GAJANAN DODHA	JC729627P	01 JUL 2014
SUBEDAR	SKT (WEP)	BANKAR PURUSHOTAM SARJE	JC729203Y	01 JUL 2014
SUBEDAR	SKT (WEP)	JADHAV PRAKASH SHRIMANT	JC729230H	01 JUL 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	GAIKAWAD ASHOK APPA	JC729286P	01 JUL 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	JAGTAP DAGDU TATE RAO	JC729263N	01 JUL 2014
SUBEDAR	SKT (ENGR)	SURESH KUMAR	JC729272P	01 JUL 2014
SUBEDAR	SKT (WEP)	PAWAR HANAMANT RAO PANDURANG	JC729384P	01 JUL 2014
SUBEDAR	SKT (SIG)	TANWAR AJAY SINGH MEGH SINGH	JC729393W	01 JUL 2014
SUBEDAR	SKT (SIG)	JAS RAM	JC729327N	01 JUL 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	PABITRA MOHAN MOHANTA	JC729716N	01 JUL 2014
SUBEDAR	SKT (SIG)	SWAPAN KUMAR DE	JC729781N	01 JUL 2014
SUBEDAR	SKT (SIG)	DEBABRATA KUMAR BISWAS	JC729763L	01 JUL 2014
SUBEDAR	SKT (SIG)	YASHWANT SINGH	JC729766Y	01 JUL 2014
SUBEDAR	SKT (SIG)	RATISH KUMAR DEHURY	JC729830L	01 JUL 2014
SUBEDAR	SKT (SIG)	DILLIP KUMAR SUTAR	JC729883K	01 JUL 2014
SUBEDAR	SKT (AMN)	RAJESH KUMAR	JC729919X	01 JUL 2014
SUBEDAR	SKT (MT)	RAM CHANDRA MAHTO	JC729921P	01 AUG 2014
SUBEDAR	SKT (WEP)	RAJA SEKARAN NAIR K	JC729938H	01 AUG 2014
SUBEDAR	SKT (WEP)	SURENDRAN MP	JC730012W	01 AUG 2014
SUBEDAR	SKT (AMN)	AMRESH SINGH	JC730013Y	01 AUG 2014
SUBEDAR	SKT (AMN)	SHIV KUMAR S	JC730018X	01 AUG 2014
SUBEDAR	SKT (AMN)	SHIV PRAKASH MISRA	JC729989W	01 AUG 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	OM PRAKASH	JC729990L	01 AUG 2014
SUBEDAR	SKT (MT)	PYDI HARI NARAYANA	JC730014F	01 AUG 2014
SUBEDAR	SKT (AMN)	FELURANJAN GHARA	JC730044Y	01 AUG 2014
SUBEDAR	SKT (AMN)	M VENKATESAN	JC730045F	01 SEP 2014

SUBEDAR	SKT (GS&C)	JAI BHAGWAN	JC730046K	01 SEP 2014
SUBEDAR	SKT (MT)	CHANDRA BHUSAN KUMAR YADAV	JC730059F	01 SEP 2014
SUBEDAR	SKT (MT)	KANHAIYA PRASAD YADAV	JC730047M	01 SEP 2014
SUBEDAR	SKT (MT)	ALLA SREENIVASA REDDY	JC730080K	01 SEP 2014
SUBEDAR	SKT (WEP)	VENKATA RAVANAPPA DV	JC730082P	01 SEP 2014
SUBEDAR	SKT (MT)	RAJVIR SINGH	JC730083X	01 SEP 2014
SUBEDAR	SKT (MT)	DHARAM SINGH	JC730081M	01 SEP 2014
SUBEDAR	SKT (MT)	JAGPAL SINGH	JC730107W	01 OCT 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	RAM HARI PARIHAR	JC730084A	01 OCT 2014
SUBEDAR	SKT (MT)	SAT PAL	JC730085H	01 OCT 2014
SUBEDAR	SKT (AMN)	PARASH RAM KAKATKAR	JC730110W	01 OCT 2014
SUBEDAR	SKT (AMN)	VIKESH SINGH	JC730086L	01 OCT 2014
SUBEDAR	SKT (AMN)	KAILASH YADAWA	JC730087N	01 OCT 2014
SUBEDAR	SKT (AMN)	DHAN SINGH DEUPA	JC730111Y	01 OCT 2014
SUBEDAR	SKT (MT)	MAHENDRA SINGH	JC730115P	01 OCT 2014
SUBEDAR	SKT (AMN)	SOHAN LAL	JC730088W	01 NOV 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	AJMER SINGH	JC730152H	01 NOV 2014
SUBEDAR	SKT (SIG)	GURMUKH SINGH	JC730130K	01 NOV 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	NARESH KUMAR	JC730131M	01 NOV 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	BIKRAM PAL	JC730132P	01 NOV 2014
SUBEDAR	SKT (MT)	NIKAM BALU DADA	JC730134A	01 DEC 2014
SUBEDAR	SKT (AMN)	RANJIT KUMAR SARKAR	JC730138W	01 DEC 2014
SUBEDAR	SKT (AMN)	R SUBRAMANYAM	JC730143F	01 DEC 2014
SUBEDAR	SKT (GS&C)	SIKH PARAMJEET SINGH ATMA SINGH	JC730146P	01 DEC 2014
SUBEDAR	SKT (AMN)	BRAJENDRA KUMAR OJHA	JC730162M	01 DEC 2014
SUBEDAR	SKT (WEP)	ANIL KUMAR P	JC730195X	01 DEC 2014
SUBEDAR	SKT (MT)	SANGEEB SINGH RAWAT	JC730196A	01 DEC 2014
SUBEDAR	SKT (MT)	SANJEEV KUMAR	JC730197H	01 DEC 2014
SUBEDAR	DVR MT	ROHITASHAW YADAV	JC729546P	01 JAN 2014
SUBEDAR	DVR MT	BAIJU PRASAD	JC729682L	01 JAN 2014
SUBEDAR	DVR MT	BASE ORAON	JC729720W	01 JAN 2014
SUBEDAR	DVR MT	PRAKASH CHANDRA	JC729744A	01 JAN 2014
SUBEDAR	DVR MT	RAMANAND SINGH	JC729847Y	01 JAN 2014
SUBEDAR	DVR MT	GOVIND SINGH	JC729849K	01 JAN 2014
SUBEDAR	DVR MT	AWADH LAL SINGH	JC729848F	01 JAN 2014
SUBEDAR	DVR MT	APURBA KUMAR BORAH	JC729891H	01 JAN 2014
SUBEDAR	DVR MT	PRADEEP KUMAR	JC729932F	01 FEB 2014
SUBEDAR	DVR SPL	JON FRENKLIN	JC729939L	01 FEB 2014

SUBEDAR	DVR MT	ABHAY KUMAR SINGH	JC730026W	01 MAR 2014
SUBEDAR	DVR MT	ANAND KUMAR SINGH	JC730034P	01 APR 2014
SUBEDAR	DVR MT	HIRONYA ROY SARKAR	JC730089Y	01 APR 2014
SUBEDAR	DVR MT	RAM PRAKASH SHARMA	JC730090N	01 APR 2014
SUBEDAR	DVR MT	SUSHIL KUMAR PANDEY	JC730091W	01 MAY 2014
SUBEDAR	DVR MT	RAJU SHARMA	JC730345H	01 JUN 2014
SUBEDAR	DVR MT	NARENDER SINGH	JC730238F	01 JUN 2014
SUBEDAR	DVR MT	V KALIDAS	JC730347N	01 JUN 2014
SUBEDAR	DVR MT	VIRENDRA SINGH	JC730346L	01 JUL 2014
SUBEDAR	DVR MT	MATHES T	JC730396W	01 AUG 2014
SUBEDAR	DVR MT	MAZODKAR SANJAY SESA RAO	JC730397Y	01 SEP 2014
SUBEDAR	DVR MT	RIYAZ AHAMMAD PEERAJADE	JC730631K	01 NOV 2014
SUBEDAR	DVR MT	ANIL KUMAR RAI	JC730480W	01 DEC 2014
SUBEDAR	SHT	BOM BAHADUR RANA	JC729851F	01 JAN 2014
SUBEDAR	SHT	PRAKASH CHANDRA	JC729889L	01 JAN 2014
SUBEDAR	SHT	ASHOK KUMAR	JC729852K	01 JAN 2014
SUBEDAR	SHT	TARAJ PAL	JC729922X	01 FEB 2014
SUBEDAR	SHT	LALJI YADAV	JC729925L	01 FEB 2014
SUBEDAR	SHT	BHAGWAN SINGH	JC729923A	01 JUL 2014
SUBEDAR	SHT	NANDKISHORE SINGH YADAV	JC729924H	01 JUL 2014
SUBEDAR	SHT	RAVINDRA SINGH	JC729926N	01 AUG 2014
SUBEDAR	SHT	BIRENDRA SINGH	JC729933K	01 AUG 2014
SUBEDAR	SHT	PREM SINGH	JC729927W	01 AUG 2014
SUBEDAR	SHT	SURESH PRASAD DWIVEDI	JC729928Y	01 NOV 2014
SUBEDAR	SHT	OM SARAN YADAV	JC729991N	01 NOV 2014
SUBEDAR	SHT	RAMESH PRASAD	JC730028F	01 NOV 2014
SUBEDAR	SHT	SUNIL KUMAR YADAV	JC729992W	01 DEC 2014
SUBEDAR	SHGD	KAMAL KUMAR MUKATI	JC729249F	01 JAN 2014
SUBEDAR	SHGD	RAGHUNATH YADAV	JC729208X	01 JAN 2014
SUBEDAR	SHGD	T MUTHU KUMAR	JC729209A	01 JAN 2014
SUBEDAR	SHGD	KRISHAN KUMAR	JC729210P	01 JAN 2014
SUBEDAR	SHGD	HARIPAL SINGH	JC729282Y	01 FEB 2014
SUBEDAR	SHGD	BHARAT SINGH	JC729291A	01 FEB 2014
SUBEDAR	SHGD	RAJ BAHADUR SINGH CHAUHAN	JC729401K	01 FEB 2014
SUBEDAR	SHGD	BOCHAM PULLAIAH	JC729402M	01 FEB 2014
SUBEDAR	SHGD	BHAGWAN DAS	JC729403P	01 MAR 2014
SUBEDAR	SHGD	MAUJI RAM	JC729404X	01 MAR 2014
SUBEDAR	SHGD	RAMESH CHAND RAI	JC729426W	01 MAR 2014
SUBEDAR	SHGD	KANAHIYA SINGH YADAV	JC729427Y	01 MAR 2014

SUBEDAR	SHGD	BALBIR SINGH	JC729548A	01 MAR 2014
SUBEDAR	SHGD	MUKESH KUMAR	JC729549H	01 MAR 2014
SUBEDAR	SHGD	RAMJI MISHRA	JC729633H	01 APR 2014
SUBEDAR	SHGD	SHER SINGH	JC729722F	01 APR 2014
SUBEDAR	SHGD	AJAY KUMAR SINGH	JC729723K	01 MAY 2014
SUBEDAR	SHGD	DALIP SINGH	JC729724M	01 MAY 2014
SUBEDAR	SHGD	HARUDANANDA SWAIN	JC729725P	01 MAY 2014
SUBEDAR	SHGD	RAM SUDESHWAR SINGH	JC729746L	01 MAY 2014
SUBEDAR	SHGD	PRADEEP KUMAR	JC729747N	01 MAY 2014
SUBEDAR	SHGD	MOHAN SINGH	JC729777L	01 MAY 2014
SUBEDAR	SHGD	SANTOSH KUMAR VISWAKARAMA	JC729806P	01 JUN 2014
SUBEDAR	SHGD	NAHAR SINGH	JC729837P	01 JUN 2014
SUBEDAR	SHGD	HARLAL SINGH	JC729838X	01 JUL 2014
SUBEDAR	SHGD	GAGAN SINGH	JC729888H	01 JUL 2014
SUBEDAR	SHGD	BHAWANI SINGH	JC729840P	01 JUL 2014
SUBEDAR	SHGD	BHAIYA LAL YADAV	JC729841X	01 AUG 2014
SUBEDAR	SHGD	UMESH CHAND SUTRADHAR	JC729843H	01 AUG 2014
SUBEDAR	SHGD	M VENU GOPAL	JC729844L	01 AUG 2014
SUBEDAR	SHGD	SUNIL KUMAR SHARMA	JC729845N	01 AUG 2014
SUBEDAR	SHGD	DEEPAK VASANT RAO KAMBLE	JC729846W	01 AUG 2014
SUBEDAR	SHGD	ARUN KUMAR VERMA	JC729892L	01 AUG 2014
SUBEDAR	SHGD	VIJAY BHARAT SINGH RAWAT	JC729893N	01 AUG 2014
SUBEDAR	SHGD	HIRDYA NARAYAN SINGH	JC729894W	01 AUG 2014
SUBEDAR	SHGD	MAHENDRA NARAYAN YADAV	JC729895Y	01 AUG 2014
SUBEDAR	SHGD	MANI KANT JHA	JC730023H	01 AUG 2014
SUBEDAR	SHGD	MANOJ KUMAR	JC729929F	01 SEP 2014
SUBEDAR	SHGD	HERDAY LAL SINGH	JC729931Y	01 SEP 2014
SUBEDAR	SHGD	JANARDAN SINGH	JC729940A	01 SEP 2014
SUBEDAR	SHGD	BHRIGUNATH SAH	JC729941H	01 OCT 2014
SUBEDAR	SHGD	BHOSALE RAM C JALINDAR	JC729942L	01 OCT 2014
SUBEDAR	SHGD	BIRENDRA KUMAR BAL	JC729943L	01 OCT 2014
SUBEDAR	SHGD	ANANDA RAO	JC729944W	01 OCT 2014
SUBEDAR	SHGD	JASPAL SINGH	JC729945Y	01 OCT 2014
SUBEDAR	SHGD	SATYA NARAIN	JC729946F	01 OCT 2014
SUBEDAR	SHGD	AMRIK SINGH	JC729947K	01 NOV 2014
SUBEDAR	SHGD	VENKAPPA BHAVI	JC729999A	01 NOV 2014
SUBEDAR	SHGD	SRIKANT SHARMA	JC730000F	01 NOV 2014
SUBEDAR	SHGD	RAJESH SINGH	JC730001K	01 NOV 2014

SUBEDAR	SHGD	BIRBAHADUR CHHETRI	JC730002M	01 NOV 2014
SUBEDAR	SHGD	RADHANATH DASH	JC730024L	01 NOV 2014
SUBEDAR	SHGD	BIJENDRA SINGH	JC730031F	01 DEC 2014
SUBEDAR	SHGD	PRITAM SINGH	JC730003P	01 DEC 2014
SUBEDAR	SHGD	SURENDRA SINGH YADAV	JC730004X	01 DEC 2014
SUBEDAR	SHGD	VENKAPPA HUDED	JC730050M	01 DEC 2014
SUBEDAR	SHGD	KHADAK SINGH	JC730051P	01 DEC 2014
SUBEDAR	OLP	SUDHIR KUMAR YADAV	JC730411A	01 AUG 2014
SUBEDAR	ARTSN (WW)	TRILOK SINGH	JC730016M	01 FEB 2014
SUBEDAR	ARTSN (WW)	SHAIK KHAJA RAHAMTULLAH	JC730635A	01 DEC 2014
SUBEDAR	SUPPORT STAFF	SULTAN SINGH NEGI	JC729778N	01 JUL 2014
SUBEDAR	SUPPORT STAFF	RAMAYAN RAM	JC729780L	01 JUL 2014
SUBEDAR	PTR (U)	KANNAN AK	JC729634L	01 JAN 2014
SUBEDAR	PTR (U)	NAGENDER SAH	JC729809H	01 DEC 2014

RAJEEV JAUHARI
Under Secretary

ARMY BRANCH

No. 118, dated 30th April 2015—The President is pleased to make the following promotion:-

REGULAR ARMY INFANTRY RAJPUT REGIMENT TO BE NAIB SUBEDAR CLK

Hav Clk	Girish Chandra Joshi	(2992563A now JC-481262F)	01-07-2014
Hav Clk	Datar Singh	(2990938P now JC-481287N)	01-09-2014
Hav Clk	Sanjay Kumar Singh	(2991793F now JC-481288W)	01-09-2014
Hav Clk	Sher Bahadur	(2992119K now JC-481289Y)	01-09-2014
Hav Clk	R Nagendran	(2992578H now JC-481300M)	01-10-2014
Hav Clk	Jitender Kumar	(2992697Y now JC-481301P)	01-10-2014
Hav Clk	Awadhesh Kumar Sharma	(2992743H now JC-481302X)	01-10-2014
Hav Clk	Purushotam Lal	(2991877P now JC-481303A)	01-10-2014
Hav Clk	Ashok Kumar Sehgal	(2992714N now JC-481304H)	01-10-2014
Hav Clk	Rohtas	(2992759N now JC-481305L)	01-10-2014
Hav Clk	Arinjit Chattapadhyay	(2991325F now JC-481317A)	01-11-2014
Hav Clk	C Venkata Narayan Reddy	(2992953H now JC-481318H)	01-11-2014

TO BE NAIB SUBEDAR

Hav	Shyo Ram Gurjar	(2990683A now JC-481260W)	*01-08-2014
-----	-----------------	---------------------------	-------------

*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Apr 2014

Hav	Kailash Chand Gurjar	(2990662K now JC-481261Y)	*15-07-2014
-----	----------------------	---------------------------	-------------

*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 08 Jun 2014

Hav	Sumer Singh	(2990621A now JC-481263K)	*01-08-2014
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jul 2014			
Hav	Saroj Kumar Ghosh	(13619082A now JC-481264M)	*07-07-2014
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jul 2014			
Hav	Rakesh Kumar	(2990462N now JC-481265P)	01-07-2014
Hav	Dharam Singh Gurjar	(2990474H now JC-481266X)	01-07-2014
Hav	Ramji Lal	(2990650P now JC-481267A)	*07-08-2014
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jul 2014			
Hav	Aish Pal Singh	(2991083K now JC-481268H)	*05-08-2014
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jul 2014			
Hav	Ramesh Chandra Pal Singh	(2991124H now JC-481269L)	*02-08-2014
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jul 2014			
Hav	Awadesh Gurjar	(2990674Y now JC-481270A)	*10-07-2014
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jul 2014			
Hav	Biswa Nath Mudgal	(2992271X now JC-481271H)	*24-07-2014
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jul 2014			
Hav	Beg Raj	(2990773F now JC-481272L)	*14-07-2014
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jul 2014			
Hav	Ramesh Chandra Gurjar	(2990693K now JC-481273N)	11-08-2014
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Aug 2014			
Hav	Ratan Pal Singh	(2990020P now JC-481274W)	*05-08-2014
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Aug 2014			
Hav	Katar Singh	(2991094W now JC-481275Y)	*25-08-2014
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Aug 2014			
Hav	Yash Pal Singh	(2991788W now JC-481276F)	01-08-2014
Hav	Kanwaraj Singh Narawat	(2990658F now JC-481277K)	*03-08-2014
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Aug 2014			
Hav	Kamal Singh Tomar	(2991076N now JC-481278M)	01-08-2014
Hav	Kunwar Laxman Singh	(2991917L now JC-481279P)	01-08-2014
Hav	Heeresh Kumar	(2990928L now JC-481280K)	*11-08-2014
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Aug 2014			
Hav	Chatar Singh Gurjar	(2998026L now JC-481281M)	01-08-2014
Hav	Sudhakar	(2991035K now JC-481282P)	*02-08-2014
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Aug 2014			
Hav	Jitender Singh	(2994335W now JC-481283X)	01-08-2014
Hav	Rajesh Kumar	(2993191M now JC-481284A)	01-08-2014
Hav	Sant Kumar	(2993446F now JC-481285H)	01-08-2014
Hav	Pushpendra Singh Sengar	(3005562K now JC-481286L)	*07-10-2014
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 17 Aug 2014			
Hav	Tota Ram	(2991684P now JC-481290N)	01-09-2014
Hav	Mahesh Kumar Gurjar	(2992557M now JC-481291W)	*21-09-2014
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Sep 2014			

Hav	Satbir Singh	(2990751H now JC-481292Y)	*11-09-2014
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Sep 2014			
Hav	Antar Singh	(2990934Y now JC-481293F)	01-09-2014
Hav	Banchha Nath Mondal	(2992833K now JC-481294K)	*11-09-2014
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Sep 2014			
Hav	Nihal Singh Rawat	(2994915L now JC-481295M)	01-09-2014
Hav	Puran Singh Chauhan	(2991380X now JC-481296P)	01-09-2014
Hav	Jagpal Singh	(2991983N now JC-481297X)	01-09-2014
Hav	Puran Singh	(2995138A now JC-481298A)	01-09-2014
Hav	Nangoo Ram	(2992220K now JC-481299H)	01-09-2014
Hav	Sudesh Pal	(2990580F now JC-481306M)	*21-10-2014
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Oct 2014			
Hav	Babu Lal	(2992273H now JC-481307W)	*03-11-2014
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Oct 2014			
Hav	Chetan Kumar	(2992648W now JC-481308Y)	*09-10-2014
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Oct 2014			
Hav	Yogendra Singh Tomar	(2992464X now JC-481309F)	*10-10-2014
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Oct 2014			
Hav	Rajendra Singh	(2993327L now JC-481310W)	*10-10-2014
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Oct 2014			
Hav	Ram Pratap Singh Tomar	(2994085A now JC-481311Y)	*10-10-2014
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Oct 2014			
Hav	Ratti Ram Gurjar	(2993175P now JC-481312F)	01-10-2014
Hav	Mal Singh	(2994790Y now JC-481313K)	*10-10-2014
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Oct 2014			
Hav	Mahendra Singh	(2991887Y now JC-481314M)	03-11-2014
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 13 Oct 2014			
Hav	Bajrang Lal Gurjar	(2991522K now JC-481316X)	*01-12-2014
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Oct 2014			
Hav	Kumer Singh Gurjar	(2990649A now JC-481319L)	01-11-2014
Hav	Dharmendra Singh	(2992082N now JC-481320A)	*13-11-2014
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Nov 2014			
Hav	Udai Singh	(2992595H now JC-481321H)	01-11-2014
Hav	Kaptan Singh	(2992597N now JC-481322L)	01-11-2014
Hav	Naresh Chand	(2992620W now JC-481323N)	01-11-2014
Hav	Radhe Shyam	(2992624M now JC-481324W)	01-11-2014
Hav	Sumer Singh	(2990987X now JC-481325Y)	*10-12-2014
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Nov 2014			
Hav	Ashok Kumar Singh	(2991086X now JC-481326F)	01-11-2014
Hav	Vijay Pratap Singh Kushwah	(2991558H now JC-481327K)	*15-11-2014
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Oct 2014			
Hav	Jitendra Singh Tomar	(2992634W now JC-481328M)	01-11-2014

Hav	Hans Raj	(2992636F now JC-481329P)	*10-11-2014
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Nov 2014			
Hav	Tej Pratap Singh	(2991592A now JC-481330K)	*15-11-2014
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Nov 2014			
Hav	Azad Singh	(2992340H now JC-481331M)	*19-12-2014
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Nov 2014			
Hav	Pratap Singh	(2993007W now JC-481332P)	*13-11-2014
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Nov 2014			
Hav	Dharmendra Singh Bhadoria	(2993306P now JC-481333X)	*18-12-2014
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Nov 2014			
Hav	Sher Singh	(2993963Y now JC-481334A)	01-11-2014
Hav	Dinesh Kumar	(2994148X now JC-481335H)	01-11-2014
Hav	Harkesh Gurjar	(2994718H now JC-481336L)	01-11-2014
Hav	Makkhan Lal	(2994723N now JC-481337N)	01-11-2014
Hav	Harkesh Singh Gurjar	(2995595N now JC-481338W)	01-11-2014
Hav	Satyapal Singh	(2994361X now JC-481339Y)	01-11-2014
Hav	Rajeev Kumar Singh Chauhan	(2994202A now JC-481340N)	*27-11-2014
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 24 Nov 2014			
Hav	Devendra Singh Bhadoria, SM	(2991749X now JC-481341W)	*08-01-2015
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Dec 2014			
Hav	Sunil Kumar	(2991154A now JC-481342Y)	01-12-2014
Hav	Man Singh	(2991490M now JC-481343F)	01-12-2014
Hav	Shambhu Nath Singh	(2991194F now JC-481344K)	*02-12-2014
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Dec 2014			
Hav	Mukesh Singh	(2991448N now JC-481345M)	*19-12-2014
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Dec 2014			
Hav	Gobinda Singh	(2991502W now JC-481346P)	01-12-2014
Hav	Bhanwar Singh	(2991675N now JC-481347X)	01-12-2014
Hav	Madhu Sudan Ghosh	(2991203X now JC-481348A)	*19-12-2014
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Dec 2014			
Hav	Pratap Singh Panwar	(2991496N now JC-481349H)	01-12-2014
Hav	Krishan Kumar	(2991882A now JC-481350X)	01-12-2014
Hav	Ranbir Singh	(2990904F now JC-481351A)	01-12-2014
Hav	Devi Singh	(2992864K now JC-481352H)	*03-12-2014
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Dec 2014			
Hav	Ranvir Sharma	(2992817M now JC-481353L)	01-12-2014
Hav	Satish Kumar	(2993340P now JC-481354N)	22-01-2015
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Dec 2014			
Hav	Natthi Singh	(2992302M now JC-481355W)	26-12-2014
Hav	Ranjeet Singh Chauhan	(2991296N now JC-481356Y)	*06-01-2015
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 02 Dec 2014			

VN RAVEENDRAN
Under Secretary

No. 119, dated 30th April 2015—The President is pleased to make the following promotions:-

REGULAR ARMY

ARMY POSTAL SERVICE CORPS

WOs/HAV/CLKs TO BE NB SUB/CLERK (SD)

1.	WO	ML Chaudhary	(No 8375670Y	now JC-835167K)	15 May 14*
2.	WO	Munavar Soofie Syed	(No 8375640F	now JC-835168M)	02 May 14*
3.	WO	Ranjeet Singh	(No 8375797F	now JC-835169P)	28 May 14*
4.	WO	Gourang Chakraborty	(No 8373928H	now JC-835170K)	22 Apr 14*
5.	WO	Jokhu Singh	(No 8373967F	now JC-835171M)	21 Apr 14*
6.	WO	Ram Kumar Gupta	(No 8375714L	now JC-835172P)	20 Apr 14*
7.	WO	Prasanna Kalita	(No 8375791A	now JC-835173X)	03 Jun 14*
8.	WO	Main Pal	(No 8375798K	now JC-835174A)	01 Sep 14*
9.	WO	Gaurav Kanojia	(No 8375815Y	now JC-835175H)	28 Apr 14*
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 27 Dec 13)					
10.	WO	Sanjeev Kumar	(No 8375817K	now JC-835176L)	21 Apr 14*
11.	WO	Jambale U Ramchandra	(No 8375830N	now JC-835177N)	22 Apr 14*
12.	WO	Vinay Shankar Agarwal	(No 8375869A	now JC-835178W)	19 Apr 14*
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 14)					
13.	Hav/Clk (SD)	Shiv Prasad Sahu	(No 8431057F	now JC-835179Y)	23 Jun 14*
14.	Hav/Clk (SD)	M Navaneethan	(No 8431031M	now JC-835180N)	23 Jun 14*
15.	Hav/Clk (SD)	Jitender Kumar	(No 8431059M	now JC-835181W)	26 May 14*
16.	Hav/Clk (SD)	Prakash Kumar	(No 8431060F	now JC-835182Y)	26 May 14*
17.	Hav/Clk (SD)	Umesh Kumar	(No 8431063P	now JC-835183F)	26 Jun 14*
18.	Hav/Clk (SD)	Satyapal Singh	(No 8431072W	now JC-835184K)	09 Jun 14*
19.	Hav/Clk (SD)	Bhosale Babasaheb Pandurang	(No 8431064X	now JC-835185M)	10 Jun 14*
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 14 without effect on pay & allces)					
20.	WO	Sasankajit Neog	(No 8375870P	now JC-835186P)	30 Apr 14*
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 14)					
21.	Hav/Clk (SD)	Govind Ram	(No 8431074F	now JC-835187X)	31 May 14*
22.	Hav/Clk (SD)	Satish Kumar Singh	(No 8431065A	now JC-835188A)	26 May 14*
23.	Hav/Clk (SD)	Nantha Kumar G	(No 8431066H	now JC-835189H)	26 May 14*
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 14 without effect on pay & allces)					
24.	WO	VS Shinde	(No 8375872A	now JC-835190X)	15 May 14*
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 14)					
25.	Hav/Clk (SD)	Rajendra Singh Kushwaha	(No 8431075K	now JC-835191A)	14 Jun 14*
26.	Hav/Clk (SD)	ED Saravanaraj	(No 8431067L	now JC-835192H)	30 Jun 14*
27.	Hav/Clk (SD)	C Gopinathan	(No 8431068N	now JC-835193L)	18 Jun 14*
28.	Hav/Clk (SD)	Vijay Kumar Yadav	(No 8431076M	now JC-835194N)	20 Jun 14*
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 14 without effect on pay & allces)					
29.	Hav/Clk (SD)	Varekar Ananda Shivaji	(No 8431051A	now JC-835195W)	24 Sep 14*
*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 30 Mar 14 without effect on pay & allces)					

R. P. S. NEGI
Under Secretary

ARMY BRANCH

No. 120, dated 30th April 2015—The President is pleased to make the following promotion :-

REGULAR ARMY
ARMoured CORPS
To be NBRIS

1	DFR(CLKSD) SUSAR KUMAR PATRO *(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Sep 2014 without effect on pay and allowances)	(No. 15469634F now JC246779K)	*01 Dec 2014
2	DFR(CLKSD) RAM SINGH VAISH *(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Dec 2014 without effect on pay and allowances)	(No. 15469560X now JC246800F)	*03 Dec 2014
3	DFR(SKT) JAY RAM PRASAD *(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Nov 2014 without effect on pay and allowances)	(No. 15466821P now JC246780Y)	*06 Dec 2014
4	DFR(DVR/GNR) LILU RAM *(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Oct 2014 without effect on pay and allowances)	(No. 15464274M now JC246713N)	*04 Oct 2014
5	DFR(GNR/OPR) RIAZUDDIN	(No. 15463751W now JC246742H)	01 Dec 2014
6	DFR(OPR/DVR) DILIP KUMAR	(No. 15462156A now JC246746Y)	01 Nov 2014
7	DFR(DVR/GNR) RAMJEET SINGH	(No. 1099737L now JC246752M)	01 Dec 2014
8	DFR(DVR/GNR) MANORANJAN PANDA	(No. 15463021L now JC246777Y)	01 Dec 2014
9	DFR(GNR/OPR) VIJEY KUMAR *(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Dec 2014 without effect on pay and allowances)	(No. 15464915N now JC246783M)	*02 Dec 2014
10	DFR(OPR/GNR) ASIM KUMAR NANDI *(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Oct 2014 without effect on pay and allowances)	(No. 15463101H now JC246786A)	*01 Dec 2014
11	DFR(GNR/OPR) K VENKATESAN	(No. 15468065M now JC246787H)	01 Dec 2014
12	DFR(OPR/DVR) KESHVA NAND	(No. 15468219N now JC246788L)	01 Dec 2014
13	DFR(GNR/OPR) SANJEEV KUMAR	(No. 15469192N now JC246791L)	01 Dec 2014
14	DFR(GNR/OPR) BALDEV SINGH *(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Dec 2014 without effect on pay and allowances)	(No. 15467578P now JC246792N)	*06 Dec 2014
15	DFR(OPR/GNR) DILIP KUMAR CHOUDHARY *(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Dec 2014 without effect on pay and allowances)	(No. 15467809A now JC246793W)	*26 Dec 2014
16	DFR(DVR/OPR) SANJAY KUMAR	(No. 15467870K now JC246840H)	01 Jan 2015
17	DFR(OPR/GNR) AMARJEET YADAV *(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Dec 2014 without effect on pay and allowances)	(No. 15464569H now JC246798P)	*02 Dec 2014
18	DFR(DVR/GNR) DINESH CHAND *(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Dec 2014 without effect on pay and allowances)	(No. 15464344A now JC246801K)	*09 Dec 2014
19	DFR(DVR/GNR) VIJAY KUMAR *(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Dec 2014 without effect on pay and allowances)	(No. 15468521M now JC246802M)	*09 Dec 2014
20	DFR(DVR/OPR) RAJESH SINGH *(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 06 Dec 2014 without effect on pay and allowances)	(No. 15467048A now JC246808N)	*17 Dec 2014
21	DFR(OPR/GNR) SURENDER BAHADUR SINGH *(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Oct 2014 without effect on pay and allowances)	(No. 15464530W now JC246809W)	*15 Dec 2014
22	DFR(DVR/GNR) NAND LAL *(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 06 Dec 2014 without effect on pay and allowances)	(No. 15465537M now JC246810L)	*15 Dec 2014
23	DFR(GNR/DVR) MOHAN LAL	(No. 15463956L now JC246829K)	01 Jan 2015
24	DFR(GNR/DVR) SHIV SINGH	(No. 15464973X now JC246811N)	01 Jan 2015
25	DFR(DVR/OPR) SARWAN KUMAR	(No. 15465534Y now JC246812W)	01 Jan 2015
26	DFR(DVR/OPR) JAIDEEP SINGH	(No. 15465843F now JC246813Y)	01 Jan 2015

27	DFR(GNR/OPR) MUKESH KUMAR *(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 10 Aug 2014 without effect on pay and allowances)	(No. 15467939H now JC246819A)	*29 Dec 2014
28	DFR(SOWRD) JANG SHER ALI	(No. 15461334L now JC246839N)	01 Jan 2015
29	DFR(DVR/GNR) PRABHJIT SINGH	(No. 15467238M now JC246845F)	01 Jan 2015
30	DFR(OPR/GNR) BHUPENDER SINGH	(No. 15464299Y now JC246846K)	01 Jan 2015
31	DFR(OPR/DVR) SANDESH KUMAR	(No. 15462499W now JC246852X)	01 Jan 2015
32	DFR(CLKSD) MARATHE PRAMOD UKHARDU	(No. 15469632W now JC246815K)	01 Jan 2015
33	DFR(OPR/GNR) KISHAN SINGH *(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 22 Oct 2014 without effect on pay and allowances)	(No. 15462381P now JC246781F)	*26 Nov 2014
34	DFR(DVR/GNR) BANSHILAL LOHAR	(No. 15461695K now JC246804X)	01 Jan 2015
35	DFR(OPR/GNR) SN SINGH RATHORE	(No. 1099607H now JC246805A)	01 Jan 2015
36	DFR(DVR/GNR) SOUNDARA RAJAN R	(No. 15461297H now JC246807L)	01 Jan 2015
37	DFR(GNR/OPR) RAVINDER KUMAR	(No. 15467038W now JC246814F)	01 Jan 2015
38	DFR(GNR/DVR) KADAM CHANDRAKANT PRAL	(No. 15462794Y now JC246825N)	01 Jan 2015
39	DFR(DVR/GNR) THAKUR SINGH	(No. 15463414F now JC246826W)	01 Jan 2015
40	DFR(OPR/DVR) SHRINIVASA RAO M	(No. 15462504W now JC246827Y)	01 Jan 2015
41	DFR(DVR/OPR) HANAMAPPA MURARI	(No. 15463500M now JC246828F)	01 Jan 2015
42	DFR(DVR/OPR) SURESH KUMAR	(No. 15464127K now JC246830Y)	01 Jan 2015
43	DFR(OPR/GNR) VENKATA NAIDU KANNAM *(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 22 Nov 2014 without effect on pay and allowances)	(No. 15467002X now JC246831F)	*05 Jan 2015
44	DFR(OPR/GNR) SATYANARAYANA VELPURI *(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Dec 2014 without effect on pay and allowances)	(No. 15467036L now JC246832K)	*09 Jan 2015
45	DFR(GNR/DVR) DURGA PRASAD K *(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Dec 2014 without effect on pay and allowances)	(No. 15467242P now JC246834P)	*10 Jan 2015
46	DFR(DVR/GNR) SANJAY KUMAR	(No. 15464002M now JC246841L)	01 Jan 2015
47	DFR(OPR/GNR) YOGESH KUMAR	(No. 15469760N now JC246842N)	01 Jan 2015
48	DFR(OPR/DVR) RAJENDER KUMAR	(No. 15464870Y now JC246843W)	01 Jan 2015
49	DFR(OPR/GNR) RAJESH KUMAR *(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Jan 2015 without effect on pay and allowances)	(No. 15464380L now JC246847M)	*06 Jan 2015
50	DFR(OPR/GNR) DHANANJAY KUMAR *(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Jan 2015 without effect on pay and allowances)	(No. 15466196Y now JC246848P)	*03 Jan 2015
51	DFR(OPR/DVR) VINAI KUMAR SINGH	(No. 15463433M now JC246857W)	01 Jan 2015
52	DFR(DVR/OPR) AZIBAR RAHMAN *(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Apr 2013 without effect on pay and allowances)	(No. 15463726X now JC246859F)	*02 Jan 2015
53	DFR(OPR/GNR) MOULAMISKIL SHAIKH *(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Jan 2015 without effect on pay and allowances)	(No. 15463478M now JC246858Y)	*02 Jan 2015
54	DFR(OPR/GNR) MADHU SUDHANAN PILLA	(No. 15465676W now JC246863K)	01 Jan 2015
55	DFR(OPR/GNR) KRISHAN LAL *(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Dec 2014 without effect on pay and allowances)	(No. 15468293P now JC246789N)	*23 Dec 2014
56	DFR(DVR/GNR) MUNTAZAR ALI *(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Jan 2015 without effect on pay and allowances)	(No. 15468617P now JC246860W)	*05 Jan 2015
57	DFR(GNR/OPR) MANOJ KUMAR CHOURASIA *(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Oct 2014 without effect on pay and allowances)	(No. 15462926F now JC246865P)	*06 Jan 2015
58	DFR(GNR/OPR) SURENDRA KUMAR *(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Jan 2015 without effect on pay and allowances)	(No. 15463094X now JC246867A)	*09 Jan 2015

59	DFR(CLKSD) GHANENDRA KUMAR SHARMA (No. 15469613L now JC246878M) *(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Jan 2015 without effect on pay and allowances)	*07 Jan 2015
60	DFR(CLKSD) DURGA KANT GURMAITA (No. 15469568K now JC246879P) *(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Jan 2015 without effect on pay and allowances)	*08 Jan 2015
61	DFR(CLKSD) RAJENDRA SINGH (No. 15469542P now JC246849X) *(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Jan 2015 without effect on pay and allowances)	*09 Jan 2015
62	DFR(OPR/GNR) MAHENDRA YADAV (No. 15463201N now JC246821X) *(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Dec 2014 without effect on pay and allowances)	*10 Jan 2015
63	DFR(OPR/DVR) SHIV BAHADUR (No. 15463995K now JC246822A) *(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Jan 2015 without effect on pay and allowances)	*10 Jan 2015
64	DFR(OPR/GNR) BARHAM PARKASH (No. 15464837F now JC246823H) *(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Jan 2015 without effect on pay and allowances)	*10 Jan 2015
65	DFR(DVR/OPR) NARENDER SINGH (No. 15487960M now JC246824L)	01 Jan 2015
66	DFR(OPR/DVR) SUNIL KUMAR (No. 15464273K now JC246835X) *(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Dec 2014 without effect on pay and allowances)	*01 Jan 2015
67	DFR(DVR/GNR) GATTIMI SATEESH KUMAR (No. 15464306K now JC246836A)	01 Jan 2015
68	DFR(DVR/OPR) VIRENDRA SINGH (No. 15463705F now JC246837H)	01 Jan 2015
69	DFR(DVR/GNR) PRHLAD SINGH (No. 15463530K now JC246838L)	01 Jan 2015
70	DFR(DVR/OPR) YASHPAL SINGH (No. 15464116X now JC246844Y) *(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Oct 2014 without effect on pay and allowances)	*01 Jan 2015
71	DFR(DVR/OPR) NAYAN KISHORE BAL (No. 15462388Y now JC246850M)	01 Jan 2015
72	DFR(OPR/DVR) MUNNA LAL PRASAD (No. 15462451H now JC246851P)	01 Jan 2015
73	DFR(DVR/OPR) PRAKASAN K (No. 15462500A now JC246853A)	01 Jan 2015
74	DFR(DVR/GNR) ASLAM ALI (No. 15468834L now JC246861Y)	01 Jan 2015
75	DFR(DVR/OPR) CHANDRAMA CHAUHAN (No. 15464607N now JC246862F)	01 Jan 2015
76	DFR(OPR/GNR) SHALENDER KUMAR (No. 15466355L now JC246869L) *(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Dec 2014 without effect on pay and allowances)	*12 Jan 2015
77	DFR(DVR/GNR) HATHI SINGH RATHORE (No. 15463072Y now JC246886L) *(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Jan 2015 without effect on pay and allowances)	*16 Jan 2015
78	DFR(OPR/GNR) KAMLESH KUMAR (No. 15461992X now JC246891W) *(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Oct 2014 without effect on pay and allowances)	*21 Jan 2015
79	DFR(CLKSD) HORI SINGH (No. 15469509X now JC246656X)	01 Aug 2014
80	DFR(SKT) ANAND PARKASH VASHISTH (No. 15466711A now JC246737X)	01 Oct 2014
81	DFR(CLKSD) LUWANG NANDALALA WAHEIBA (No. 15468831X now JC246694N) *(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Sep 2014 without effect on pay and allowances)	*23 Sep 2014
82	DFR(SOWRD) INTJAR ALI (No. 1089999N now JC246747F)	01 Nov 2014
83	DFR(DVR/OPR) TRILOK CHAND (No. 15463315Y now JC246750F)	01 Nov 2014
84	DFR(OPR/GNR) KISMAT SINGH (No. 15463902K now JC246751K)	01 Nov 2014
85	DFR(OPR/GNR) RAM PAUL (No. 15465826F now JC246755A) *(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Oct 2014 without effect on pay and allowances)	*31 Oct 2014
86	DFR(OPR/GNR) MANGALES KUMAR YADAV (No. 15465995H now JC246756H)	01 Nov 2014
87	DFR(DVR/GNR) SURESH BABU.K (No. 15466171M now JC246757L)	01 Nov 2014
88	DFR(DVR/GNR) ARVIND KUMAR (No. 15465029W now JC246758N)	01 Nov 2014
89	DFR(DVR/GNR) DHARMENDRA KUMAR DWIWEDI (No. 15464908X now JC246760L) *(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Nov 2014 without effect on pay and allowances)	*03 Nov 2014

90	DFR(DVR/OPR) BALWAN SINGH *(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Oct 2014 without effect on pay and allowances)	(No. 15464090N now JC246763Y)	*03 Nov 2014
91	DFR(DVR/GNR) BALJIT SINGH *(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Oct 2014 without effect on pay and allowances)	(No. 15464186W now JC246764F)	*03 Nov 2014
92	DFR(OPR/DVR) SHUBHASH CHANDRA *(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Oct 2014 without effect on pay and allowances)	(No. 15464240Y now JC246765K)	*03 Nov 2014
93	DFR(SOWRD) GOTANE SANJAY RAJARAM *(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Nov 2014 without effect on pay and allowances)	(No. 15461331X now JC246748K)	*03 Nov 2014
94	DFR(SOWRD) FARIYAD ALI *(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Nov 2014 without effect on pay and allowances)	(No. 1099079K now JC246768X)	*03 Nov 2014
95	DFR(SOWRD) SAWANT AJAY ANANT *(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Nov 2014 without effect on pay and allowances)	(No. 15462696Y now JC246769A)	*03 Nov 2014
96	DFR(GNR/OPR) RAJ KUMAR MANDAL	(No. 15464803N now JC246749M)	01 Nov 2014
97	DFR(DVR/OPR) VIJENDER SINGH	(No. 15464283N now JC246753P)	01 Nov 2014
98	DFR(OPR/DVR) DHARMENDRA SINGH *(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Oct 2014 without effect on pay and allowances)	(No. 15464567X now JC246754X)	24 Nov 2014
99	DFR(DVR/OPR) DHAVARE BABASAHEB MACHINDRA *(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Nov 2014 without effect on pay and allowances)	(No. 15465804H now JC246761N)	*05 Nov 2014
100	DFR(DVR/OPR) AMARJIT SINGH *(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Oct 2014 without effect on pay and allowances)	(No. 15464619H now JC246766M)	*05 Nov 2014
101	DFR(DVR/GNR) KULDEEP *(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Oct 2014 without effect on pay and allowances)	(No. 15463399X now JC246767P)	*05 Nov 2014
102	DFR(OPR/DVR) MARTIN SAMAD *(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Oct 2014 without effect on pay and allowances)	(No. 15462287L now JC246773H)	*10 Nov 2014
103	DFR(DVR/GNR) RAM AWADH SINGH YADAVA *(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Nov 2014 without effect on pay and allowances)	(No. 15462438Y now JC246775N)	*14 Nov 2014
104	DFR(OPR/GNR) AMIT SHARMA *(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 28 Oct 2014 without effect on pay and allowances)	(No. 15463554N now JC246770P)	*07 Nov 2014
105	DFR(OPR/GNR) ARUN KUMAR PANDEY *(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Nov 2014 without effect on pay and allowances)	(No. 15464083X now JC246771X)	*06 Nov 2014
106	DFR(DVR/GNR) SUNIL P T *(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Nov 2014 without effect on pay and allowances)	(No. 15464021X now JC246776W)	*14 Nov 2014
107	DFR(DVR/GNR) KATKAR SANTOSH HARIDAS *(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Nov 2014 without effect on pay and allowances)	(No. 15464060W now JC246772A)	*06 Nov 2014
108	DFR(OPR/GNR) NAVEEN KUMAR *(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 04 Oct 2014 without effect on pay and allowances)	(No. 15503410W now JC246778F)	*22 Nov 2014
109	DFR(DVR/OPR) NANI DEB SHARMA *(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Nov 2014 without effect on pay and allowances)	(No. 15464986P now JC246762W)	*05 Nov 2014
110	DFR(DVR/OPR) MANGE RAM *(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Oct 2014 without effect on pay and allowances)	(No. 15465208W now JC246774L)	*11 Nov 2014
111	DFR(DVR/GNR) UMESH KUMAR MISHRA	(No. 15462660A now JC246743L)	01 Dec 2014
112	DFR(OPR/GNR) DHEER SINGH *(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Dec 2014 without effect on pay and allowances)	(No. 15464681P now JC246782K)	*02 Dec 2014
113	DFR(CLKSD) AJAY KUMAR	(No. 15469608A now JC246799X)	01 Dec 2014
114	DFR(OPR/DVR) INDERJIT SINGH *(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Oct 2014 without effect on pay and allowances)	(No. 15465390F now JC246721M)	*29 Oct 2014
115	DFR(GNR/DVR) KULDEEP SINGH *(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 05 Oct 2014 without effect on pay and allowances)	(No. 15466857N now JC246745W)	*02 Dec 2014

116	DFR(DVR/OPR) K ANJANEYULU	(No. 15466455W now JC246759W)	01 Dec 2014
117	DFR(DVR/GNR) CHARAN SINGH JAKHAR	(No. 15466685K now JC246784P)	01 Dec 2014
118	DFR(OPR/GNR) KRISHNA KUMAR	(No. 15467456L now JC246785X)	01 Dec 2014
119	DFR(DVR/OPR) JEET NARAYAN SHUKLA	(No. 1099611L now JC246790H)	01 Dec 2014
1 20	DFR(DVR/GNR) JAGSEER SINGH	(No. 15464406P now JC246795F)	*03 Dec 2014
	*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Nov 2014 without effect on pay and allowances)		
121	DFR(DVR/GNR) NARESH KUMAR	(No. 15463941H now JC246796K)	*03 Dec 2014
	*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Dec 2014 without effect on pay and allowances)		
122	DFR(DVR/OPR) NISAR AHMMAD	(No. 15470356L now JC246797M)	*03 Dec 2014
	*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Dec 2014 without effect on pay and allowances)		
123	DFR(DVR/OPR) LAXMAN SINGH SHEKHAWAT	(No. 15461600Y now JC246726L)	*01 Oct 2014
	*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Apr 2012 without effect on pay and allowances)		

RAJEEV JAUHARI
Under Secretary

DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANISATION

No. 121, dated 1st May 2015—The President is pleased to make the following promotion :-

Sh. Y Sudhakar Rao to be Stores Officer, Gp 'B' (Gazetted) on probation for two years in DRDO with effect from 01.01.2015(F/N) in the Pay Band 2 of Rs. 9300 – 34800 (PB2) and Grade Pay Rs. 4600/-.

Sh. M Prabhu Das to be Stores Officer, Gp 'B' (Gazetted) on probation for two years in DRDO with effect from 01.01.2015(F/N) in the Pay Band 2 of Rs. 9300 – 34800 (PB2) and Grade Pay Rs. 4600/-.

Sh. P Uma Sankar to be Stores Officer, Gp 'B' (Gazetted) on probation for two years in DRDO with effect from 01.01.2015(F/N) in the Pay Band 2 of Rs. 9300 – 34800 (PB2) and Grade Pay Rs. 4600/-.

Sh. T Anop Singh to be Stores Officer, Gp 'B' (Gazetted) on probation for two years in DRDO with effect from 01.01.2015(F/N) in the Pay Band 2 of Rs. 9300 – 34800 (PB2) and Grade Pay Rs. 4600/-.

Smt. B Lalitha to be Stores Officer, Gp 'B' (Gazetted) on probation for two years in DRDO with effect from 01.01.2015(F/N) in the Pay Band 2 of Rs. 9300 – 34800 (PB2) and Grade Pay Rs. 4600/-.

Sh. V Murlidhar to be Sr. Accounts Officer - II, Gp 'A' (Gazetted) on probation for two years in DRDO with effect from 20 July 2009 (F/N) in the Pay Band 3 of Rs. 15600-39100 (PB3) and Grade Pay Rs. 5400/- .

Smt. S Vijaya to be Sr. Stores Officer - II, Gp 'A' (Gazetted) on probation for two years in DRDO with effect from 01 Jan 2015 (F/N) in the Pay Band 3 of Rs. 15600-39100 (PB3) and Grade Pay Rs. 5400/- .

Smt. G Varalakshmi to be Sr. Stores Officer - II, Gp 'A' (Gazetted) on probation for two years in DRDO with effect from 01 Jan 2015 (F/N) in the Pay Band 3 of Rs. 15600-39100 (PB3) and Grade Pay Rs. 5400/- .

Smt. J Vijaya to be Sr. Stores Officer - II, Gp 'A' (Gazetted) on probation for two years in DRDO with effect from 01 Jan 2015 (F/N) in the Pay Band 3 of Rs. 15600-39100 (PB3) and Grade Pay Rs. 5400/- .

Sh. R Venkatesh to be Sr. Stores Officer - II, Gp 'A' (Gazetted) on probation for two years in DRDO with effect from 01 Jan 2015 (F/N) in the Pay Band 3 of Rs. 15600-39100 (PB3) and Grade Pay Rs. 5400/- .

Sh. P Krishnaiah to be Sr. Stores Officer - II, Gp 'A' (Gazetted) on probation for two years in DRDO with effect from 01 Jan 2015 (F/N) in the Pay Band 3 of Rs. 15600-39100 (PB3) and Grade Pay Rs. 5400/- .

Sh. G G Shankara Rao to be Sr. Stores Officer - II, Gp 'A' (Gazetted) on probation for two years in DRDO with effect from 01 Jan 2015 (F/N) in the Pay Band 3 of Rs. 15600-39100 (PB3) and Grade Pay Rs. 5400/- .

Sh. A Hanumantha Rao to be Sr. Stores Officer - II, Gp 'A' (Gazetted) on probation for two years in DRDO with effect from 01 Feb 2015 (F/N) in the Pay Band 3 of Rs. 15600-39100 (PB3) and Grade Pay Rs. 5400/- .

Sh. A D More to be Sr. Stores Officer - II, Gp 'A' (Gazetted) on probation for two years in DRDO with effect from 01 Jan 2015 (F/N) in the Pay Band 3 of Rs. 15600-39100 (PB3) and Grade Pay Rs. 5400/- .

RAJEEV RANJAN SINHA
Dy Director (Pers)

ARMY BRANCH

No. 122, dated 1st May 2015—The President is pleased to permit the undermentioned officer to resign from Army Service, w.e.f. the date shown against his name under AI 15/79.

REGULAR ARMY
ARMY DENTAL CORPS
SHORT SERVICE COMMISSION
RESIGNATION

Personal No	Rank	Name	Date of resignation
DS-12397K	Maj	Sandeep Singh	04-12-2014 (FN)

HS SANDHU
Brig
DDGDS (P)

ARMY BRANCH

No. 123, dated 1st May 2015—The President is pleased to permit the undermentioned officer to retire from Army Service, w.e.f. the dates shown against his name under AI 37/78.

REGULAR ARMY
ARMY DENTAL CORPS
PERMANENT COMMISSION
RETIREMENT

Personal No	Rank	Name	Date of Retirement
DR-10325F	Col (TS)	PG Joshi	31-12-2014 (AN)

HS SANDHU
Brig
DDGDS (P)

ARMY BRANCH

No. 124, dated 5th May 2015—The President is pleased to release the undermentioned Officer from Army Service w.e.f. the date shown against her name under AI 15/79.

REGULAR ARMY
ARMY DENTAL CORPS
SHORT SERVICE COMMISSION
RELEASE

Pers No	Rank & Name	Date of Release
DS-12113P	Maj (Ms) Reema Singh	14-12-14 (AN)

HS SANDHU
Brig
DDGDS (P)

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद
में मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2015

PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2015
www.dop.nic.in